सुप्रभात
रांची, सोमवार
12.05.2025
* * नगर संस्करण। पेज : 12

धरती आबा की ऊर्जावान भूमि से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

खबर मन्त्र

रांची और धनबाद से एक साथ प्रकाशित | सबकी बात सबके साथ

khabarmantra.net | बैशाख, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, संवत् 2082 | मूल्य : ₹ 3 । वर्ष : 12 । अंक : 296 | 12

तथागत को पूर्ण ज्ञान होते ही विश्व कल्याण का भाव जागृत हुआ

कश्मीर पर दुनिया को भारत का साफ संदेश- अपने काम से काम रखें

सिर्फ पीओके की वापसी पर होगी बात

किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि कस्मीर पर हमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं। अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और संयुक्त राष्ट्र सभी को बता दिया है कि यह मामला पूरी तरह द्विपक्षीय है। किसी को इसमें कूदने की जरूरत नहीं है। कश्मीर का मसला सिर्फ पीओके पर अटका है। अब बातचीत सिर्फ पीओके की वापसी और आतंकवादियों को सौंपने पर होगी। इस बार पहले ही तरह बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान यह भी अच्छे से समझ ले। कश्मीर को लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है। अगर पाकिस्तान आतंक और आतंकवादियों को सौपने पर बात करेगा, तो हम तैयार हैं। कश्मीर पूरी तरह भारत का हिस्सा है। अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर अब भारत के संविधान के अनुसार पूरी तरह एकीकृत हो चुका है, सिर्फ पीओके बचा है। समाचार एजेंसी के अनुसार पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच बातचीत हुई जिसमें पीएम ने

वेंस को दो टूक शब्दों में भारत का स्टैंड समझा दिया। अमेरकिी राष्ट्रपतति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की इच्छा जतायी थी। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने फोन कर भारत से सीजफायर की गुजारिश की थी।

पीएम मोदी के स्पष्ट निर्देश

सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिये थे कि अगर पाकिस्तान से गोली चले तो भारत से गोला चलाया जाये। उन्होंने कहा कि एयरबेस पर हमले निर्णायक मोड़ थे। बहावलपुर (पाकिस्तान) में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। यह भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश था। पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमारे हमलों के बाद उसे एहसास हो गया है कि वे इस लीग में नहीं हैं. भारत की ओर से साफ संदेश दिया गया कि कोई भी सुरक्षित नहीं है।

आतंक के बदले सीधी कार्रवाई

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि आतंक के बदले सीधी और निर्णायक जवाबी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने जेडी वेंस से कहा कि 'अगर पाकिस्तान कुछ करता है, तो इस बार जवाब और भी विनाशकारी और सख्त होगा।' पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर वहां से गोली चलेगी, तो यहां से गोला चलेगा। इस बार पाकिस्तान को घर में घुसकर बेरहमी से मारेंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि दोनों देशों के एनएसए और विदेश मंत्रियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। केवल पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की थी। भारत ने विश्व को यह स्पष्ट कर दिया कि हम पीड़ितों और अपराधियों को समान नहीं मान सकते। यह द्विपक्षीय मामला है, इसमें किसी की दखल मंजूर नहीं है। सब अपने काम से मतलब रखें।

सेना ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सफल, खून के हर कतरे का लिया बदला

पाक ने फिर हरकत की तो प्रचंड प्रहार

- 40 पाकिस्तानी सैनिक, 100 से अधिक आतंकी ढेर
- कई फाइटर जेट्स मार गिराये

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। हमने पहलगाम आंतकी हमले में खून के हर कतरे का बदला लिया। सेनाओं ने साफ तौर पर कहा हमारी लड़ाई न तो पाकिस्तान के खिलाफ है, न ही पाकिस्तान के लोगों से है , हमारी लड़ाई सिर्फ आतंवादियों और उनके आकाओं से है। इसके साथ ही पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि उसकी ओर से कोई बेजा हरकत की गयी तो उसे इसका बेहद गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। सेनाएं पूरी सचेत मुद्रा में है और पाकिस्तान को दुस्साहस का कड़ा जवाव देने को तैयार है। सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वायु सेना के संचालन महानिदेशक एयर मार्शल ए के भारती और

नौसेना के संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरील एके प्रमोद रविवार देर शाम ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग में बोल रहे थे।

पाक पर प्रचंड प्रहार को मैप तैयार : सेना ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कार्रवाई होती है तो उनके पास पाकिस्तान को सबक सिखाने का रोड़ मैप और प्लान हैं और हम उस पर अमल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख ने सेना को आदेश दिया है कि यदि पाकिस्तान की ओर से सहमति का आज भी उल्लंघन किया जाता है तो उसे जोरदार तरीके से दंडित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की सेना या नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। केवल आतंकवादियों तथा उनके ठिकानों को निशाना बनाया था जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गये।

हमारे सभी पायलट सुरक्षित : सेनाओं की ओर से जानकारी दी गयी कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से भी अधिक आतंकवादी मारे गये। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद जवाबी प्रार में ााकिस्तानी सेना के 40 सैनिक ढेर किये गये हैं। यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। हमारे भी पांच जवान शहीद हो गये। दुश्मन के कई फाइटर जेट भी हमने मार गिराये। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के सभी पायटल सुरक्षित हैं। सीमा पार करीब 21 आतंकवादी ठिकाने हैं और जरूरत पड़ने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

भारत ने संयम बरता : एयर मार्शल भारती ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने नपे तुले और तालमेल पर आधारित हमलों में पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली चकलाला , रफीकी , सकर आदि को निशाना बनाया।

(शेष पेज 11 पर)

पाक के सभी हमले नाकाम किये

एयर मार्शल भारती ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी हवाई सीमा का अतिक्रमण किया और जमीन पर भी घुसपैठ की कोशिश की। भारत के हवाई अड्डों , सैन्य प्रतिष्ठानों और हवाई पट्टियों के साथ साथ नागरिका ठिकानों को भी निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मानव रहित यानों की बौछार कर दी। भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने इन सब हमलों को विफल कर दिया। पाकिस्तान के दुस्साहस का जमीन और हवा में बेहद करारा जवाब दिया। उसे जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया।

बिना किताबों के ही पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे

सरकारी स्कूलों में 35 लाख से अधिक बच्चों को नहीं मिली पुस्तक

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में एक माह से अधिक समय से बच्चे बिना किताब पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत हुए लगभग 40 दिन हो चुके हैं। परंतु अब तक लगभग 35 लाख बच्चों को पाठ्यपुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। न तो जिलों को नई किताबें प्राप्त हुई हैं और न ही इसके वितरण की कोई स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के स्कूलों की यह स्थिति है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि जब, किताबें मिली हीं नहीं, तो बच्चों को कहां से देंगे?

1 अप्रैल से शुरू है सत्र

राज्य के सरकारी स्कूलों में एक अप्रैल से नया सत्र शुरू है। वर्तमान में छात्रों को पुरानी और कटी-फटी पुस्तकों से ही पढ़ाया जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए लगभग 35 लाख पुस्तकों का वितरण करना है। इधर प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। संघ का कहना है कि ग्रीष्मावकाश से पूर्व छात्रों को पुस्तकें नहीं मिल पाएंगी। अगर बहुत प्रयास भी किए जायें, तब भी 15 जून से पहले पुस्तकों का वितरण संभव नहीं है।

(शेष पेज 11 पर)

न्यूज डायरी

शांति रही, कहीं से भी ड्रोन की सूचना नहीं

नयी दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनने के बाद, जम्मू क्षेत्र में सीमा पार से कहीं भी गोलाबारी या ड्रोन गतिविधि की कोई सूचना नहीं आई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर, विशेषकर नियंत्रण रेखा पर सबसे अधिक प्रभावित सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी में पूरी रात असहज शांति रही। लोगों को राहत मिली और उन्होंने रविवार सुबह शांतिपूर्ण माहौल में सामान्य गतिविधियां शुरू कीं।

धनबाद में सड़क हादसा, 22 गंभीर

धनबाद। अवैध खदान में कोयले की कटाई करने जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गयी। इस हादसे में 40 से 45 मजदूर घायल हो गये। स्थानीय लोगों ने घायलों को तोपचांची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायलों में से 22 मजदूरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह हादसा तोपचांची थाना क्षेत्र एनएच 19 लेदाटाड़ में हुआ। इस घटना में पिकअप वैन में सवार महिला-पुरुष सभी मजदूर घायल हो हैं।

संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हो : कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक और संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने सवाल किए कि क्या सरकार ने भारत-पाकिस्तान के बीच तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और क्या पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक माध्यम खोले गये हैं। कांग्रेस एक बार फिर यह मांग करती है कि पीएम की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो।

गिरिडीह में कई हादसे, चार की मौत

गिरिडीह। जिले में अलग-अलग हादसों में चार लोगों की मौत हो गयी। देवरी थाना क्षेत्र के नेकपुरा गांव के पास हुए सड़क दुर्घटना में बजगुंदा मिस्त्री टोला निवासी अवधकिशोर राणा (45 वर्ष) की मौत हो गयी। वह अपनी बेटी का कन्यादान कर वापस घर लौट रहे थे। इस हादसे से गांव में शादी की खुशी मातम में तब्दील हो गयी। वहीं पीरटांड़ थाना क्षेत्र के पालगंज निवासी भोला मल्हार की मौत करंट लगने से हो गयी। डुमरी 12 वर्षीय बालक की मौत बराकर नदी में डूबने से हो गयी। वहीं रविवार की शाम को जमुआ-चकाई मुख्य मार्ग पर बाइक सवार दो युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गये। बाइक चला रहे युवक की मौत हो गयी। उसकी पहचान नही हो पायी है।

एक के बाद एक सैन्य अड्डे खाक, हिल गया पाक

सैटेलाइट इमेज में सामने आये भारत के पराक्रम व सबूत

एजेंसी

नयी दिल्ली। सीजफायर होने तक भारत ने पाकिस्तान को जो जख्म दिया है उसके सबूत अब सामने आने लगे हैं। इससे पाकिस्तान अंदर तक हिल गया है। भारतीय वायुसेना ने शनिवार तड़के रफीकी, मुरिद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर, चुन्नियां, पासरूर और सियालकोट में मौजूद पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को ध्वस्त कर दिया। इससे पाकिस्तान अंदर तक हिल गया। एक निजी स्पेस टेक फर्म कावा स्पेस द्वारा जारी ताजा सैटेलाइट इमेज ने पाकिस्तान के झूठ और बड़बोलेपन की पोल खोल दी है। भोलारी एयरबेस पर



10-11 मई को हुए हमले में एक प्रमुख हैंगर को भारी नुकसान हुआ है। आसपास मलबा साफ दिख रहा है और स्ट्रक्चरल डैमेज की पुष्टि हुई है। यह वही एयरबेस है जहां से पाकिस्तान की त्वरित प्रतिक्रिया यूनिट संचालित होती थी। भारत का यह हमला यह पूरी तरह योजनाबद्ध, टारगेटेड और सैन्य बुनियादी ढांचे को नेस्तनाबूद करने वाला अभियान था।

अंदर तक पाक हो गया खाक : रहीम यार खान एयरबेस बुरी तरह तबाह हो गया। इसे नॉन-ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया। रफीकी एयरबेस (शोरकोट, झंग)। पुराने वायु अड्डों में से एक। यहां का रनवे और हैंगर पूरी तरह तबाद। उड़ान क्षमता खत्म। मुरिद एयरबेस (चक्कवाल), हमलों में यूसीएवी और यूएवी भेजे गए थे अब मलबा बन चुका है। नूर खान एयरबेस (रावलपिंडी), राजधानी के पास मौजूद रणनीतिक अड्डे को भी भारत ने चुपचाप तबाह कर दिया। रहीम यार खान एयरबेस, साउथ पंजाब का अहम बेस, अब नो फ्लाई जोन घोषित। पाकिस्तान ने खुद नोटाम जारी किया।

फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन हथियाने का खेल पुराना

इडी जांच में भी 133 एकड़ जमीन पर दावे के दस्तावेज फर्जी

सुधीर

रांची। फर्जी दस्तावेजों को सहारे झारखंड में जमीन हथियाने का खेल काफी पुराना है। अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन के कारोबारी लाल होते जा रहे हैं। ईडी की जांच में बोकारो की 133.64 एकड़ जमीन पर दावेदारी से संबंधित दस्तावेज फर्जी पाये गये। इस जमीन पर इजहार हुसैन व अख्तर हुसैन ने अपने पूर्वजों द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान नीलामी में खरीदे जाने का दावा किया गया था। इसमें से अब तक 74 एकड़ से अधिक जमीन बिक चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा जारी जांच के दौरान भी पुरूलिया स्थित रजिस्ट्री

कार्यालय में नीलामी से जुड़े दस्तावेज के नहीं होने की लिखित सूचना दी थी। इजहार हुसैन ने बोकारो जिले के चास अंचल की जमीन पर अपना दावा पेश करने के लिए दो दस्तावेज का सहारा लिया था। इसमें पहला दस्तावेज पुरुलिया स्थित रजिस्ट्री कार्यालय से जारी डीड संख्या 191 और दूसरा दस्तावेज समीर महतो का वसीयतनामा है।

वर्ष 1933 में जारी डीड 191 भी फर्जी : ईडी ने बोकारो जिले में हुई इस जमीन घोटाले की जांच के दौरान जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के अलावा जमीन खरीदने के लिए फंडिंग करने वालों के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान बांका के बीर अग्रवाल के ठिकाने से 1.30 करोड़ रुपये जब्त किये गये। (शेष पेज 11 पर)

गड़बड़ी के आरोप में बर्खास्त हो चुके हैं सीओ

पुरुलिया रजिस्ट्री कार्यालय से जारी सेल डीड संख्या 191 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समीर महतो ने यह तेतुलिया की 133.64 एकड़ जमीन वर्ष 1933 में नीलामी में खरीदी। वर्ष 2010 में समीर महतो के वसीयतनामे में इस बात का उल्लेख किया गया है। समीर महतो ने अपने बेरोजगार पोता इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को नीलामी में खरीदी गयी 133.64 एकड़ जमीन देने का फैसला किया। इजहार हुसैन ने इस दस्तावेज के सहारे जमीन पर अपना दावा पेश किया। चास के तत्कालीन अंचल अधिकारी निर्मल टोप्पो ने इसे स्वीकार करते हुए इजहार व अख्तर हुसैन के नाम पर म्यूटेशन कर दिया। इस गड़बड़ी के आरोप में निर्मल टोप्पो बर्खास्त हो चुके हैं।

तीसरी आंख

यूं ही घुटने पर नहीं आया पाक, एक मिसाइल ने बदला खेल

एक ही झटके में तबाह हो जाता परमाणु कमांड

- भारत का अगला लक्ष्य परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करना था
- नूर खान एयरबेस पर हमले से पूरी दुनिया परेशान

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर मिसाइल गिरते ही अमेरिका तक हड़कंप मच गया। यह बेस पाकिस्तान वायुसेना का प्रमुख केंद्र होने के साथ-साथ स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन का मुख्यालय भी है। यही बेस

पाकिस्तान के लगभग 170 परमाणु हथियारों की सुरक्षा और उनके लॉन्च के लिए जिम्मेदार है। शनिवार की रात भारत ने सुखोई से यहां ब्रह्मोस मिसाइल दाग कर इसे तहस नहस कर दिया। तभी थर्र-थर्र कांपने लगा पाकिस्तान। इसकी उम्मीद पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं थी।

नूर खान एयरबेस मिसाइल गिरते ही पाकिस्तानी पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी (एनसीए) की आपात मीटिंग बुलायी, ताकि वह अपने इस परमाणु यूनिट को बचा सके। एनसीए परमाणु हथियारों के उपयोग पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। पाक को डर हो गया कि भारत का अगला प्रहार उसका परमाणु ठिकाना ही होगा।

(शेष पेज 11 पर)

गीदड़भभकी देने वाला पाक पीछे हट गया

इन सबसे घबरा कर मरते दम तक युद्ध लड़ने की गीदड़भभकी देने वाले पाकिस्तान ने पीछे हटने का फैसला ले लिया। भारत के सब्र का बांध टूटता देख पाकिस्तान खौफ में आ गया था। उसमें खौफ हो गया कि भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहे है, जिससे वहां तबाही आ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान ने झुकने में अपनी भलाई समझी और सीधा यूएसए की शरण में चला गया। सैन्य अभियान महानिदेशकों (डीजीएमओ) ने भारत से सीधे हॉटलाइन पर भारत से युद्धविराम की मांग की, फिर सीजफायर पर सहमति बनी।

झारखंड के कई जिलों में 16 तक लू का अलर्ट

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड के अधिकांश जिलों में 16 मई तक लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 मई को देवघर, दुमका,जामताड़ा, पाकुड़,गोड्डा और साहिबगंज में और 14 मई से गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में कहीं-कहीं लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 14, 15 और 16 मई को दक्षिणी और मध्यवर्ती जिलों में गर्जन के हल्की बारिश होने की सम्भावना है। रविवार को रांची और आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहा। इससे भीषण गर्मी का एहसास हुआ। शनिवार को बारिश होने के बावजूद गर्मी एयर उमस महससू की गई। रविवार को रांची में तापमान 36.7, जमशेदपुर में 40.3, डालटेनगंज में 40.1, बोकारो में 39.5, चाईबासा में अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

डीजीपी की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाने के भाजपा के आरोपों पर झामुमो की सफाई

राजनीति में प्रासंगिकता बचाने के लिए बेबुनियाद आरोपों का सहारा ले रहे बाबूलाल मरांडी : झामुमो

झामुमो का जवाब

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी अब झारखंड की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए बेबुनियाद आरोपों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाने से पहले उन्हें अपनी पार्टी के अंदर झांककर देख लेना चाहिये। उन्होंने कहा कि झारखंड में आज जिन मुद्दों पर मरांडी शोर मचा रहे हैं, वे उन्हीं के शासनकाल की देन हैं। तब के भ्रष्टाचार और नौकरशाही के खेल ने ही आज प्रशासनिक व्यवस्था को इस स्थिति में ला खड़ा किया है, लेकिन,

सीएम हेमंत सोरेन के दमदार नेतृत्व में राज्य का सही दिशा में विकास हुआ है। आज हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है।

उन्होंने कहा कि बाबूलाल खुद को इतना हताश और भ्रमित मान चुके हैं कि अब बिना किसी आधार के ऐसी बातें कह रहे हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है, तो सामने लायें। वरना, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की साजिश बंद करें। उन्होंने कहा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने से पहले मरांडी जी ये भी बतायें कि उन्होंने अपने शासनकाल में कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया था। कितने संवैधानिक पदों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार पर उंगली उठाने से पहले बाबूलाल मरांडी को ये समझ लेना चाहिये कि जनता अब सब कुछ देख रही है। झारखंड के लोग अब उनके दोहरे चरित्र और सस्ती राजनीति के झांसे में आने वाले नहीं हैं। इसका परिणाम पिछले चुनाव में हार के रूप में भाजपा को देखने मिल चुका है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य विकास और पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल जी झूठ फैलाने के बजाय रचनात्मक सुझाव दीजिये। लेकिन, इसके लिए जमीन पर आकर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा।

बगैर संवैधानिक वैद्यता के ही सेवा दे रहे डीजीपी : बाबूलाल

भाजपा का आरोप

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में डीजीपी का मसला फिर उठाया है। उन्होंने कहा कि निर्लज्जता की भी एक हद होती है, पर सीएम हेमंत सोरेन सरकार ने तो उसे भी पार कर दिया है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां बीते दस दिनों से डीजीपी का पद खाली है, जो डीजीपी जैसे काम कर भी रहा है, वो बिना वेतन के सेवा दे

रहा है। दरअसल, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने न केवल संविधान के अनुच्छेद 312 को नकारा है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस के निर्देशों को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। हेमंत सोरेन अब शायद खुद को सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर मान बैठे हैं और प्रशासन को नीचे, बहुत नीचे गिरा दिया है। आज झारखंड वहां पहुंच चुका है, जहां प्रशासन की हर कुर्सी बोली पर बिक रही है। यूपीएससी से चयनित अधिकारियों को भी रेट लिस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। बाबूलाल मरांडी के अनुसार, हेमंत ने एक क्रांतिकारी प्रयोग कर योग्यता नहीं, सुविधा शुल्क आधारित प्रशासन शुरू की है, वो न सिर्फ सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता का अंतिम संस्कार कर रही है। बल्कि आने वाले वर्षों में झारखंड के प्रशासनिक ढांचे के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी।

एचइसी प्रबंधन मांगों पर स्पष्ट उत्तर दे नहीं तो आंदोलन : सीटू

- वेतन, इएसआइ और स्थायी मजदूरों की समस्या पर उत्तर नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। हटिया मजदूर यूनियन (सीटू) की बैठक में रविवार को अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा कि एचइसी प्रबंधन वेतन, इएसआइ और स्थायी मजदूरों की समस्या पर स्पष्ट उत्तर नहीं देता है, तो आंदोलन की घोषणा की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रबंधन वर्ष 2018 में नियुक्त स्थायी कामगारों की पदोन्नति और वर्ष 2012 बैच में नियुक्त स्थायी कामगारों का प्रोबेशन आदेश जल्द करे। उन्होंने कहा कि 28 माह का वेतन बकाया होने से कर्मी परेशान हैं। प्रबंधन मजदूरों के धैर्य की परीक्षा नहीं ले और समस्याओं पर संजीदगी दिखाये। अस्थायी कर्मियों का इएसआइ का अंशदान प्रबंधन द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है, जो श्रम कानून का उल्लंघन है। बेहतर इलाज के अभाव में अभी तक 10 कर्मियों की मौत हो चुकी है। अगर प्रबंधन अंशदान जमा नहीं करता है, तो इलाज का खर्च दे या मेडिकल बीमा करा दे। चिकित्सा सुविधा या खर्च लेना सप्लाई मजदूरों का कानूनी अधिकार है। प्रबंधन अगर तीनों विकल्पों में से किसी एक पर विचार नहीं करता है, तो कर्मी आंदोलनात्मक और कानूनी कदम उठायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रबंधन इन दिनों पैसा आने के बाद पुराने सप्लायरों को बुलाकर उनका बकाया भुगतान कर रहा है। जबकि कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है। इसका असर कर्मियों के दैनिक जीवन, इलाज, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 15 मई तक वेतन, इएसआइ और स्थायी मजदूरों की समस्या पर स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, तो एफएफपी शेड में दोपहर एक बजे से स्थायी और सप्लाई कर्मियों की संयुक्त बैठक होगी। इसमें अगले कार्यक्रम पर फैसला लिया जायेगा। बैठक में हरिराम रजवार, हरेंद्र प्रसाद, महेंद्र कुमार, बीएन चौधरी, दिनेश बैठा, संजय बैठा, संतोष राय, प्रमोद वैद्य, अविनाश, राजेंद्र राम, बिंदेश्वरी सिंह, संजय ने भी विचार रखे।

सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलायें पीएम : बंधु

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राज्य के पूर्व मंत्री, झारखण्ड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की है कि आतंक के खिलाफ जारी लड़ाई एवं पाकिस्तान के साथ हुए सीजफायर के ताजा घटनाक्रम व अन्य मामलों पर सभी दलों की सहमति जुटाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलायें। उन्होंने कहा कि इससे आतंकियों के साथ ही पाकिस्तान को भी सशक्त संदेश मिलेगा। श्री तिर्की ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाना भी आवश्यक है जिसका पूरे देश में न केवल सकारात्मक संदेश जायेगा बल्कि हम सभी की

एकता और एकजुटता भी और सुदृढ़ होगा। श्री तिर्की ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब-जब देश पर संकट आता है तब-तब राजनीतिक दलों की वैचारिक मतभिन्नता की सारी दीवारें टूट जाती है और हम मजबूती के साथ पूरी दुनिया को अपना संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि आज इसी परंपरा के निर्वहन करने का समय आ गया है और सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते भाजपा की जिम्मेदारी अन्य सभी से कहीं ज्यादा है।

आगामी तीन माह का आवंटित खाद्यान्न का भण्डारण एक साथ करने का निर्देश

- विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी रांची व जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रांची की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत की अध्यक्षता में रविवार को समाहरणालय सभागार में सभी पणन पदाधिकारी, अनुभाजन क्षेत्र, सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक, जिला परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता जेएसएफसी, सभी परिवहन सह

हथालन अभिकर्ता तथा लेबर सरदार के साथ विभागीय सचिव के निर्देशानुसार आपूर्ति संबंधि कार्यों की समीक्षा की गयी। इस बैठक में मई 2025 के आवंटित खाद्यान्न का शत प्रतिशत लाभुकों के बीच वितरण का निर्देश दिया गया। बैठक में माह जून व जुलाई 2025 के लिए आवंटित खाद्यान्न का एक साथ अग्रिम लाभुकों के बीच वितरण का निर्देश दिया गया।

आवंटित खाद्यान्न युद्ध स्तर पर भारतीय खाद्य निगम डीपो से प्राप्त कर अधिक से अधिक वाहनों का प्रयोग कर परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता जल्द से जल्द जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जिन जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को खाद्यान्न प्राप्त हो चुका है। उसे शत प्रतिशत लाभुकों के बीच वितरण करना सुनिश्चित करेंगे, किसी भी अनियमितता के लिए संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

मेधा ब्रांड के मिल्क प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड ने मेधा ब्रांड के अलग-अलग मिल्क प्रोडक्ट्स पर दामों में बढ़ोत्तरी की है। मेधा के एमडी के मुताबिक, लागत मूल्य में वृद्धि के कारण 12 मई से मेधा डेयरी के मिल्क प्रोडक्ट में मामूली वृद्धि होगी। मेधा डबल टोंड दूध (स्लिम मिल्क, 1000 एम एल) अब प्रति पैक 46 रुपए की दर पर मिलेंगे, जबकि 500 एम एल का 23 रुपया लगेगा। मेधा दूध टोंड (ताजा) के लिए 53 रुपए (1000 एम एल) और 27 रुपए (500 एम एल) देने होंगे। मेधा स्टैंडर्ड दूध के लिए 59 (1000 एम एल) और

30 रुपए (500 एम एल) देने होंगे. मेधा स्टैंडर्ड दूध (शक्ति स्पेशल) के लिए 60 (1000 एम एल) और 31 रुपए (500 एम एल) लगेंगे। मेधा काऊ के लिए 28 रुपए (500 एम एल), मेधा स्टैंडर्ड दूध (शक्ति-खोवा दूध) के लिए 348 रुपए (6000 एम एल) और मेधा टोंड दूध (ताजा छेना दूध, 6000 एम एल) के लिए 312 रुपए लगेंगे।

नहीं रहे कॉमरेड मोहन भाई, पार्थिव शरीर एनाटॉमी विभाग रिम्स को दान किया गया

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। सीपीएम के वयोवृद्ध साथी कॉ. मोहन भाई विश्राम भाई कुंडलिया का निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। रविवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। चूंकि उन्होंने एक-डेढ़ दशक पूर्व ही मृत्यु के बाद देह का दान कर दिया था, उनके पार्थिव शरीर को एनाटॉमी विभाग, रिम्स, रांची को सुपुर्द कर दिया गया। जहाँ मेडिकल छात्रों के बीच वे अध्ययन और शोध के लिए वर्षों मौजूद रहेंगे। राजकोट के एक छोटे व्यापारी परिवार में जन्में मोहन भाई का परिवार बाद में कोलकाता और फिर चास में आकर स्थाई रूप से



बस गए। मार्क्सवादी विचारधारा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। उन्के निधन पर कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है।

कई साल पहले ही मोहन भाई ने देह किया था दान: राजेश ठाकुर

रांची। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मोहन भाई के निधन पर कहा कि आज हमने बोकारो के प्रसिद्ध समाजसेवी हम सभी के अभिभावक कामरेड



मोहन कुंडलिया को खो दिया है। यह हम सभी के लिए अपूरणीय क्षति है। इस कमी को निकट भविष्य में पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कई वर्ष पूर्व ही मरणोपरांत अपने शरीर का दान कर दिया था, उनके पार्थिव शरीर को एनाटॉमी विभाग, रिम्स, रांची को सुपुर्द कर दिया गया, जहाँ मेडिकल छात्रों के बीच वे अध्ययन और शोध के लिए वर्षों मौजूद रहेंगे। उन्हें सदैव सामाजिक कार्यों के लिए याद किया जाएगा, साथ ही साथ अंग दान के लिए वो हम सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत साबित होंगे। शोक की इस घड़ी में हमारी संवेदना उनके भतीजा हम सभी के प्रिय कानु भाई और उनके परिवार के साथ है।

रांची विधायक सी.पी. सिंह ने की थी गिरफ्तारी की मांग

इंस्टाग्राम पर भड़काऊ व देशविरोधी पोस्ट डालने वाला युवक गिरफ्तार

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। राजधानी रांची में रहनेवाले फरहान मलिक नामक युवक को उसके इंस्टाग्राम पर साझा की गई भड़काऊ और देशविरोधी पोस्टों के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरहान पर गजवा-ए-हिंद जैसे कट्टरपंथी नारे, भारतीय सेना के अपमान और आतंकी प्रतीकों जैसे झंडे साझा करने का आरोप है, जो आईएसआईएस, तालिबान और अल-कायदा जैसे संगठनों से मेल खाते हैं। मामले में रांची विधायक सह पूर्व मंत्री सी.पी. सिंह ने फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मांग की थी। सी.पी. सिंह ने राज्य सरकार से

यह मांग भी की कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय की प्रक्रिया अपनाई जाए और धार्मिक संस्थानों की भूमिका की भी जांच की जाए, जहां से ऐसे विचार युवाओं के मन में डाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस फरहान के सोशल मीडिया अकाउंट की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कहीं वह किसी अंतरराष्ट्रीय या घरेलू आतंकी नेटवर्क से तो जुड़ा नहीं है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने फरहान मलिक को पुंदाग इलाके से गिरफ्त में ली है।

झारखंड के कई जिलों में 16 तक लू का अलर्ट

रांची। झारखंड के अधिकांश जिलों में 16 मई तक लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 मई को देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में और 14 मई से गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में कहीं-कहीं लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 14, 15 और 16 मई को दक्षिणी और मध्यवर्ती जिलों में गर्जन के हल्की बारिश होने की संभावना है। रविवार को रांची और आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहा। इससे भीषण गर्मी का एहसास हुआ। शनिवार को बारिश होने के बावजूद गर्मी एयर उमस महससू की गई। रविवार को रांची में तापमान 36.7, जमशेदपुर में 40.3, डालटेनगंज में 40.1, बोकारो में 39.5 डिग्री से. रहा।

चार आइपीएस अधिकारी केंद्र में आइजी रैंक की सूची में शामिल

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी आईजी अभियान अमोल वेणुकान्त होमकर सहित झारखंड कैडर के चार आईपीएस अफसरों को केंद्र में आईजी रैंक में इंपैनल किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इंपैनल सूची भी जारी कर दी गई है।

कौन-कौन हुआ इंपैनल : झारखंड कैडर के चार आईपीएस अधिकारी आईजी रैंक में केंद्र में इंपैनल हुए हैं। इसमे सबसे प्रमुख नाम 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी अमोल वेणुकान्त होमकर का है। दूसरा नाम आईपीएस प्रभात कुमार का है, प्रभात कुमार 2005 बैच के आईपीएस हैं। तीसरा नाम कुलदीप द्विवेदी का है, द्विवेदी 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं चौथा नाम आईपीएस अनूप बिरथरे का है। अनूप बिरथरे भी 2007 बैच के आईपीएस हैं।

कौन कहां हैं : फिलहाल केंद्र में आईजी रैंक में इंपैनल हुए अमोल वेणुकान्त होमकर वर्तमान में बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। होमकर झारखंड पुलिस में आईजी अभियान के पद पर काम कर रहे हैं। झारखंड में नक्सल पर नकेल कसने में एवी होमकर का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्र में आईजी रैंक में इंपैनल हुए प्रभात कुमार भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी सम्भाल रहे हैं। फिलहाल प्रभात कुमार आईजी स्पेशल ब्रांच हैं। वहीं केंद्र में आईजी बैंक में इंपैनल हुए अनूप बिरथरे एक तेज तर्रार और मृदुभाषी आईपीएस अफसर के रूप में होती हैं। अनूप विरथरे फिलहाल झारखंड जगुआर के आईजी हैं। जगुआर झारखंड की खुद की एंटी-नक्सल फोर्स है। केंद्र में आईजी रैंक में इंपैनल हुए आईपीएस कुलदीप द्विवेदी फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। कुलदीप द्विवेदी रांची के सीनियर एसपी भी रह चुके हैं। फिलहाल वे अपनी सेवा केंद्र में दे रहे हैं।

बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लोहरदगा विधायक के आवास पर बुद्ध जयंती समारोह आयोजित

भगवान बुद्ध के वचन आज और भी प्रासंगिक : डॉ रामेश्वर

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर विधायक डॉ रामेश्वर उरांव के बरियातू स्थित आवास पर बुद्ध जयंती का भव्य आयोजन किया गया। शांतिपूर्ण वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान बुद्ध के आदर्शों का स्मरण किया। डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि कल भगवान बुद्ध की जयंती है और आज की यह संध्या पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी स्मृति को समर्पित है। भगवान बुद्ध उन महान पुरुषों में से एक हैं, जिन्होंने संपूर्ण मानवता को शांति, अहिंसा और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया। उन्होंने पंचशील और आस्था के रास्ते से जीवन को शुद्ध और सम्यक बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के वचन आज के युग में और भी अधिक प्रासंगिक हैं।

अगर हम उनके मार्गदर्शन में चलें, तो यह संसार हिंसा से मुक्त हो सकता है। इतिहास गवाह है कि कलिंग युद्ध में हजारों लोग मारे गए, रक्त की नदियां बही, लेकिन जब सम्राट अशोक ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया, तो वह मार्ग शांति का बन गया।

मौके पर जयशंकर पाठक, सतीश पॉल मुंजिनी, संजय दूबे, विशाल सिंह, मेहुल दूबे उपस्थित थे।

दार्जिलिंग से आये लामाओं ने की विशेष पूजा

कार्यक्रम की शुरूआत दार्जिलिंग से पधारे लामाओं द्वारा बोधिवृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पारंपरिक पूजा से हुई। विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भगवान बुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित की गई एवं 108 दीपों को प्रज्वलित कर समर्पण भाव से आरती की गई।

भजन-कीर्तन से गूंजा वातावरण

डोरंडा जैप वन से पहुंचे छोटानागपुर बौद्ध समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र तमांग एवं जैप वन वाहिनी गुंबा समिति के प्रमुख पेमेन जिंबा के नेतृत्व में महिला अनुयायियों ने भक्तिभाव से भजन-कीर्तन प्रस्तुत किया। इससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया।

दुनिया को शांति की ओर ले जा सकते हैं बुद्ध के विचार

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि बुद्ध के विचार ही आज की दुनिया को शांति की ओर ले जा सकते हैं। हमें उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा आज जब समाज में तनाव और द्वेष बढ़ रहा है ऐसे समय में भगवान बुद्ध के सिद्धांत और उद्देश्य सामाजिक सुधार और आत्मिक शांति की दिशा में एक उजाला बन सकते हैं। आलोक दूबे ने कहा कि बुद्ध के विचार आज भी समाज को दिशा दे रहे हैं। डॉ राजेश गुप्ता ने कहा कि भगवान बुद्ध संसार के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उन्होंने करुणा, सहिष्णुता और नैतिक जीवन का मार्ग दिखाया। उनके विचार आज भी मनुष्य को संतोष, संयम और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।

बुद्ध जयंती एक आयोजन नहीं, आत्मचिंतन का अवसर भी : वरिष्ठ अधिकारी निशा उरांव ने कहा कि बुद्ध जयंती केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। भगवान बुद्ध की करुणा और शांति का संदेश हर युवा के जीवन को दिशा दे सकता है। हमें गर्व है कि इस परंपरा को परिवार और समाज मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। समाजसेवी रोहित उरांव ने कहा कि बुद्ध के जीवन से हमें धैर्य, सहिष्णुता और विवेक की शिक्षा मिलती है। आज की युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज को सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। हमारे परिवार का यह प्रयास रहेगा कि यह परंपरा और संदेश निरंतर आगे बढ़े। लोगों ने एक स्वर में संदेश दिया कि आज जब समाज में तनाव और द्वेष बढ़ रहा है, ऐसे समय में भगवान बुद्ध के सिद्धांत और उपदेश सामाजिक सौहार्द और आत्मिक शांति की दिशा में एक उजाला बन सकते हैं।

सुप्रभात
सोमवार 12.05.2025
धनबाद, वर्ष 02, अंक 57
epaper.khabarmantra.net

धरती आबा की ऊर्जावान भूमि से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक
खबर मन्त्र
धनबाद और रांची से एक साथ प्रकाशित
सबकी बात सबके साथ

39 वॉ जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न

जिला स्तर पर उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे भाग

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद। शहर के बिरसा मुण्डा मेगा स्पोर्ट्स कंपलेक्स में चल रहे 39 वें जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हो गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन 400 मीटर, 10 हजार मीटर, 200 मीटर दौड़, बाधा दौड़, चक्का फेंक, भाला फेंक, ट्रिपल जंप सभी वर्ग के स्पर्धा आयोजित किये गए। आज प्रतियोगिता में 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। किड्स जैवलिन बालक 14 वर्ष में प्रथम रोशन कुमार सिंह, द्वितीय अमन कुमार महतो, तृतीया प्रतीक वर्मा, बालक 16 वर्ष ऊंची कूद में प्रथम मोहम्मद इरशाद, द्वितीय हर्षित कुमार, तृतीय अंकित टुडू, जैवलिन प्रथम आयुष कुमार, द्वितीय सागर कुमार, तृतीय आयुष कुमार, बालक 18 वर्ष 200 मीटर में प्रथम मोनु कुमार, द्वितीय सुभोजित

भट्टाचार्य, तृतीया पिरतुवम गोस्वामी, ट्रिपल जंप में प्रथम राजीव कुमार मंडल, द्वितीय सुधांशु कुमार चैरसिया, तृतीया दलजीत सिंह, बालक 20 वर्ष 200 मी में प्रथम जय सागर कर्मकार, द्वितीय आयुष्मान शर्मा, तृतीय उमेश यादव, बालक 20 वर्ष में 10000 मी प्रथम राहुल कुमार रजक, द्वितीय गणेश मंडल, डिसकस में प्रथम ऋषु राज, द्वितीय शिवलाल टुडू, तृतीय सिद्धार्थ कुमार सिंह, पुरुष 200 मीटर सरफराज खान, द्वितीय आकाश दत्ता तथा टीपू कुमार साव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों ने भी प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का संचालन जिला निर्णायक संघ के राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय क्वालिफाइड निर्णायक द्वारा किया गया।

विजयी खिलाड़ियों को किरण रानी नायक, सुनील मिश्रा, जुबेर आलम, विवेक सिंह, बंधन टोप्पो, सुजापा ठाकुर, सरफराज खान, ने मेडल देकर सम्मानित किया। महासचिव बंधन टोप्पो ने बताया कि इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर जिला टीम गठित की जाएगी जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी।

झारखंड की बेटियाँ बनी पोल डी की विजेता

▸▸ राष्ट्रीय कबड्डी चैम्पियनशिप

खबर मन्त्र संवाददाता

सिंदरी। महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित 51वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैम्पियनशिप में झारखंड की बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पोल डी की विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस जीत के साथ ही झारखंड बालिका की टीम ने सीधे प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री-क्वार्टर मुकाबला चंडीगढ़ की टीम के साथ खेला जाएगा। जिसके बाद आगे की राह तय होगी। इस उपलब्धि पर झारखंड राज्य कबड्डी संघ के सचिव संजय कुमार झा, अध्यक्ष तपन कुमार

राउत सहित ब्रह्मऋषि कबड्डी के सचिव अंगद सिंह ने टीम को हार्दिक बधाई दी है और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। झारखंड बालिका की टीम में स्नेहा थापा, सृष्टि सिंह, मुस्कान गुप्ता, रेखा महतो, सलोनी राणा, नेहा उरांव, रुक्मणि कुमारी, पूजा महतो, सलोनी कुमारी, रीना धान, कोमल उरांव, राधिका उराव सहित कोच लक्ष्मी कुमारी शामिल हैं।

स्पीड न्यूज

जियलगोरा में युवक ने दोस्त को चाकू मारकर जख्मी किया

जोड़ापोखर। जियलगोड़ा हाड़ी पट्टी में रविवार दोपहर में एक मोबाइल फोन के विवाद को लेकर अनिकेत कुमार नामक युवक ने अपने ही दोस्त राहुल हाड़ी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। घटना की लिखित शिकायत राहुल ने थाने में की है वही अनिकेत के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जख्मी राहुल ने बताया कि शुक्रवार को अनिकेत उसका मोबाइल ले लिया था। रविवार को अनिकेत से मोबाइल मांगने पर वह उससे मोबाइल नहीं देने की बात कहते हुए लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसी क्रम में अनिकेत ने उसपर चाकू से वार किया जो उसके पीठ के कंधे पर लगा जिससे वह घायल हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मदर्स डे पर असर्फी हॉस्पिटल ने संघर्षशील माताओं को किया सम्मानित



धनबाद। मदर्स डे पर असर्फी हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में माताओं की शक्ति, नेतृत्व क्षमता और संघर्ष शीलता को सम्मानित करना था। असर्फी हॉस्पिटल द्वारा इस अवसर पर 15 असाधारण माताओं को सम्मानित किया गया। इनमें प्रेरणादायी महिला नेता और एकल माताएं शामिल थीं। मुख्य अतिथि असर्फी हॉस्पिटल के निदेशक माधुरी सिंह एवं नीतू सिंह ने इन महिलाओं को सम्मानित किया। डॉ. रूपा प्रसाद, तारा देवी, रेणु झा, अर्पिता अग्रवाल, रिंकु दुबे, आशा चौधरी, सुषमा प्रसाद, मधुमिता विश्वास, रस्मी भट्ट, नीतू शर्मा आदि।

मधुबन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोकिंग कोल का अवैध खनन और परिवहन

बड़ी पीसी मशीन और जेसीबी लगाकर आउट सोर्सिंग के तर्ज पर हो रहा काम

खबर मन्त्र संवाददाता

कतरास। स्टील ग्रेड 1 कोकिंग कोल के उत्पादन के लिए मशहूर रहा है खरखरी ओपी क्षेत्र का मधुबन कोलियरी। अंडर ग्राउंड माइंस से यहां खनन होता था। और यहां से उत्पादित कोयला सीधे स्टील प्लांट भेजा जाता था। घाटा कहिए या अन्य प्रॉब्लम ही, जिसके चलते बीसीसीएल ने दस वर्ष पूर्व इस कोलियरी में उत्पादन बन्द कर दिया था। अब बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कम्पनी के जरिये कोयले का उत्पादन करने की योजना बनाई है। लेकिन इसके पहले कोल माफियाओं ने आउट सोर्सिंग के तर्ज पर अवैध ढंग से खनन व कोयले का परिवहन शुरू कर दिया है।

दो सिंडिकेट करीब एक पखवारे से यहां भूमिगत व ओपेन खनन करा रहे है। कोयलालोड कर ट्रकें खरखरी ओपी के सामने से गुजरते हुवे गणेशपुर में मुख्य सड़क पर पहुंच गन्तव्य को जाती है। पुलिस व सीआईएसएफ व पुलिस

▸▸ **रेस्क्यू स्टेशन के पीछे कुछ दूरी पर है अवैध कोयले का बड़ा भंडारण**

पर लोग सवाल उठा रहे हैं। गांव के लोगों के मन में सवाल कौंध रहा है कि किसके संरक्षण में सरे आम बड़े पैमाने पर काला कारोबार हो रहा है।

खनन स्थल: मधुबन कोलियरी में पुराना अफसर क्वाटर के पास फुटबाल मैदान से कुछ फासले पर ओपेन माइंस चलाया जा रहा है। खनन के लिए पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन लगाया गया है। यहां से कोयला लदी ट्रक परसबनिया होते हुवे गणेशपूर में मुख्य सड़क पर पहुंचती है।

खनन स्थल: खरखरी ओपी के पीछे करीब दो सौ मीटर की दूरी पर पांडुआभिठा प्राथमिक स्कूल से सौ गज की दुरी पर मुहाने को खोलकर खनन किया जा रहा है। यहां बाहर से मजदूर लाये गए हैं। जिन्हें सोलह नम्बर आवासों में ठहराया गया है।

यहां खदान के पास ही कोयले का भंडारण किया जाता है। रात में ट्रक में लोड किया जाता है। गांव के लोगों की माने तो प्रतिदिन खरखरी ओपी क्षेत्र से पांच - छह ट्रकें कोयला लोड होकर निकलती है। सच्चाई निष्पक्ष एजेंसी की जांच से पता चल सकता है। ओपी प्रभारी मंगल प्रसाद कुजुर से पूछने पर कहा पता करते हैं।

बरोरा क्षेत्र के मधुबन में पदस्थापित अधिकारी ने बताया कि इसकी जांच कर शीघ्र आवश्यक कारवाई की जायेगी। अवैध खनन किसी कीमत पर नही होने दिया जायेगा।

यहां होता है कोयले का अवैध भंडारण : मधुबन कोलियरी स्थित रेस्क्यू स्टेशन कैंपस के पीछे कोयले का भंडारण किया जाता है। जहां से ट्रकों में लोड कर बाहर भेजा जाता है। इस अवैध डिपो पर दर्जनों मजदूर देखे गए, जो ट्रक आने का इंतजार कर रहे थे। सड़क पर निगरानी कर रहे थे, धन्धेबाज के गुर्गे। यहां पांच सौ टन से अधिक कोयला पड़ा हुआ मिला। फुटबॉल मैदान के समीप भी कोयले का भंडारण देखा गया। पांडुआ भिठा स्कूल से करीब एक सौ गज की दूरी पर अवैध खननस्थल के पास ही कोयला जमा देखा गया।

▸▸ **दोनो सिंडिकेट को है राजनीतिक दल के कतिपय नेता का अनैतिक समर्थन, प्रशासकीय तंत्र भी है अनजान**

दो सिंडिकेट की है हुकूमत

अवैध खनन और परिवहन कराने वाले दो सिंडिकेट की हुकूमत है। एक का फुटबॉल मैदान के पास तो दूसरे का पांडुआभिठा से कुछ दूरी पर। दोनों ग्रुप अलग - अलग पक्ष और विपक्ष दल के समर्थक बताये जाते हैं। यही वजह है कि इनके काले कारोबार के खिलाफ कोई कुछ बोलने से परहेज करता है। पांच दिन पूर्व अवैध कारोबार को लेकर यहां जमकर मारपीट हुई थी, जो स्थानीय स्तर पर सलट गया। दो साल पूर्व भी कोयले को लेकर ही गोलीबारी की घटना हुई थी।

एक नजर में

प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी ने पदमा स्टेशन का किया निरीक्षण

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद। प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी प्रभात कुमार ने रविवार को पदमा स्टेशन का निरीक्षण किया। इसी क्रम में सुचारू परिचालन, सिग्नल सिस्टम, रेलवे ट्रैक, क्रॉसिंग की गहन जांच की। साथ ही सम्बंधित शाखाधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा रेल ट्रैक मरम्मत एवं रख-रखाव का भी जानकारी ली। मौके पर सीटीई मुकेश कुमार, सीएसई नीरज यादव, सीआरएसई फ्रेट मुकेश कुमार ,एडीआरएम (इन्फ्रा) अमित कुमार एवं मंडल के अन्य शाखाधिकारी उपस्थित थे।

रेलवे के जोनल सलाहकार समिति सदस्य ने कतरासगढ़ स्टेशन का लिया जायजा

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद। पूर्व मध्य रेल के जोनल सलाहकार समिति सदस्य पिंटु कुमार सिंह ने रविवार को कतरासगढ़ स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने कतरासगढ़ में हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस तथा शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। यात्रियों ने श्री सिंह को बताया कि स्टेशन परिसर में एक भी शौचालय नहीं है। जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उक्त सभी समस्याओं को मंडल रेल प्रबंधक तथा वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक को संज्ञान में देकर जल्द से जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया।

मैथन में पिस्तौल की नोक पर बाईक की छीनतई

▸▸ थाने में की गयी शिकायत

खबर मन्त्र संवाददाता

मैथन। रविवार की शाम करीब चार बजे मैथन डैम घूमने आये तीन युवकों से पिस्तौल की नोक पर अपराधीयों ने बाईक छीनकर फरार हो गए। भुक्तभोगी युवक मैथन ओपी पहुंचकर छीनतई की शिकायत की है। मैथन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कुमारधुबी उड़ियाधौड़ा चापड़ाडंगाल निवासी शिव कुमार तांडिया ने बताया कि वे अपने दो साथी वीर तांडिया एवं सोमेन पाल के साथ मैथन डैम घूमने गये थे। डैम के गोगना स्पोर्ट्स होस्टल से वापस लौटने के क्रम में स्पोर्ट्स होस्टल से थोड़ा आगे तीन युवक पैदल जा रहे थे। हमलोगों जैसे ही उन युवकों के नजदीक पहुंचे तो वे सभी ने मेरा बाईक को रोका, फिर

पिस्तौल निकाल कर मुझे सर में स्टाकर गोली मार देने की धमकी दी और मेरा अपाची मोटरसाईकिल संख्या जेएच 10सीआर 4973 काला व लाल रंग का था, छीनकर भाग निकले। बाईक लेकर भागता देख हमलोगों ने शोर मचाया तथा बाईक लेकर भागते अपराधियों का पीछे से एक छोटा विडिओ भी बनाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पिकअप वैन पलटी, 40 घायल

▸▸ भीषण सड़क हादसा

अवैध खनन करने जा रहे मजदूरों से भरी थी वैन

खबर मन्त्र संवाददाता

कतरास। तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत लेदाटांड़ के पास जीटी रोड पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। मजदूरों से भरी एक पिकअप वैन पलट गयी। उस पर सवार लगभग 40 मजदूर घायल हो गए। ये सभी मजदूर गिरिडीह जिले के पीरटांड़ और मधुबन इलाके के रहने वाले थे, जो महुदा और भाटडीह ओपी क्षेत्र में संचालित अवैध कोयला खदान में खनन और कोयले की ढुलाई व लोडिंग करने जा रहे थे। घटना के बाद वहां ज्ख्मीयों की चीख पुकार से कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को आनन-फानन में तोपचांची सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) लाया गया। एक साथ चालीस घायलों के पहुंचने से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। वहां जगह की कम पड़ गयी।

कई घायल अस्पताल परिसर में ही दर्द से तड़पते रहे। वहां का दृश्य मर्मस्पर्शी था। हर ओर खून फैला हुआ था।

घायल कराह रहे थे। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद के एसएनएमएमसीएच रेफर किया गया। घायलों को हाथ - पैर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें लगभग आधे दर्जन एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के संबंध में वाहन चालक पंकज हेंब्रम ने बताया कि वह चालीस मजदूरों को लेकर कतरास होकर महुदा की ओर जाना था। जहां खदान से अवैध कोयला निकालने और लोड करने का कार्य मजदूरों से कराया जाता है।

डिटी ने उत्पादन लक्ष्य पूरा करने का दिया निर्देश

लोयाबाद। रविवार को सिजुआ क्षेत्र अंतर्गत कनकनी कोलियरी में डिटी मनोज अग्रवाल ने निरीक्षण करने पहुंचे।

उनके साथ सिजुआ जीएम निर्झर चक्रवर्ती एजीएम केके सिंह व पीओ गोपाल जी थे। डिटी ने राम अवतार उत्खन्न पैच का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ उत्पादन लक्ष्य को पुरा करना है। करीब एक आधे घण्टे तक डिटी कनकनी में रहे।

सड़क किनारे लगे अवैध दुकान, गुमटी, शेड को हटाने का दिया निर्देश

बैंक मोड़ ओवर ब्रीज के मरम्मत कार्य को लेकर नगर आयुक्त ने किया वैकल्पिक रूट का निरीक्षण

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद। बैंक मोड़ रेलवे ओवर ब्रीज के मरम्मत कार्य को देखते हुए नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने रविवार को वैकल्पिक मार्ग का जायजा लिया। शहर के रणधीर वर्मा चैक से हीरापुर हरि मंदिर रोड, अंचल कार्यालय, बरमसिया पुल, मनईटांड़, हावड़ा मोटर, धनसार चैक तक सड़क की वर्तमान स्थिति देखा। रास्ते में कई जगह अवैध दुकान, गुमटी, ठेला, खोमचा, वाहन की लंबी लाईन देखी। नगर आयुक्त ने ऐसे लोगों को खुद से

दुकान खाली करने की बात कही ताकी यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। आदेश का पालन नहीं करने पर सोमवार को कड़ी कार्यवाई का भी आदेश दिया। नगर आयुक्त ने बताया कि बौंक मोड़ ब्रीज के बांई लाईन का काम 13 मई से शुरू हो जायेगा। इस रास्ता ब्रीज पर वन वे व्यवस्था होगी।

इसे देखते हुए वैकल्पिक मार्ग का रूट तय किया गया ताकी वाहनों की आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस देखते हुए आज इस रूट का मुआयना किया जा रहा है। जहां जहां अतिक्रमण है, उसे चिन्हित कर हटाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि कई जगह लोगों ने नाली को भी अतिक्रमण कर दुकान बना लिया है। उसे भी हटाया जायेगा। स्थायी दुकानदार भी दुकान के आगे छह छह फीट का तक शेड लगा लिये है। उन्हें भी हटाया जायेगा। उन्होंने कहा कि अभियान तो हमलोग हमेशा चलाते है, लेकिन इसे नागरिकों को भी समझने की जरूरत है, जब को रोड या उसके आसपास अतिक्रमण करेंगे तो आवागमन बाधित होगा। इससे उन्हें भी परेशानी होगी। जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाई जारी रहेगी। मौके पर सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार, प्रसून कौशिक, विशाल कुमार सिन्हा, सेनेटरी इंस्पेक्टर अनिल कुमार उपस्थित थे।

20 मई को आहूत राष्ट्र व्यापी हड़ताल

सफल बनाने ने लिए संयुक्त मोर्चा ने बनाई रणनीति

खबर मन्त्र संवाददाता

कतरास। बीसीसीएल के बरोरा एवं ब्लॉक दो क्षेत्र के श्रमिक संगठनों की संयुक्त मोर्चा ने आगामी 20 मई को आहूत राष्ट्र व्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए कमर कस लिया है। रविवार की शाम संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई। जिसमें हड़ताल की सफलता के लिए प्रचार प्रसार हेतु सभी यूनिट में आम सभा, नुककड़ सभा करने का निर्णय लिया गया। 13 मई को मुराईडीह शताब्दी हाजरी घर 14 को बीओसीपी के 14 नम्बर हाजरी घर पर, 15 मई को बेनीडीह फुलारीटांड पिट पर, 17 मई को दामोदा कोलियरी, 18 मई

को रिजनल वर्कशॉप ब्लॉक दो, 19 मई को मधुबन कोल वाशरी में सभा होगी। सभी नुक्कड़ सभा सुबह 8:00 बजे होगी। श्रमिक नेता जे के झा, संतोष गोराई, एन डी पाण्डेय, अनिल बाउरी, उमाकांत राय, बैजनाथ यादव, गोपाल गोप, सुमन पाण्डेय, बिरेंची शर्मा, सूरजबली साव, गंगा सागर राय, सीताराम कर्मकार, मिथलेश यादव कृष्ण कांत पाण्डेय दिलीप नोनिया, आशीष कुमार राय, महेश श्रीवास्तव, शंकर कुमार नोनिया आदि मौजूद थे।

दो टेम्पो की भिड़ंत में 14 घायल, दो की हालत नाजुक

खबर मन्त्र संवाददाता

बिरनी। बिरनी थाना के रांची-दुमका मुख्य मार्ग पर जितकुंडी पुल के समीप रविवार सुबह करीब 8 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब दो टेम्पो की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में कुल 14 लोग घायल हो गए। जिसमें दो की हालत नाजुक बतायी जा रही है। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि दोनों टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। घायलों में धनबाद के झरिया निवासी पूर्णिमा देवी (18), प्रेरणा कुमारी (19), लालपरी देवी (55), सोनी देवी (35), मंजू देवी (40), गायत्री देवी (55), रवि कुमार (30), खुशबू देवी (30), रंजीत कुमार (32), रुद्राक्ष कुमार (4), अंश कुमार (8), करीना कुमारी (19) शामिल हैं। टेम्पो चालकों की पहचान बिरनी के बटलोहिया निवासी प्रेमचंद यादव (30) और गिरिडीह निवासी संजय डोम (40) है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉ. पी.के. अग्रवाल द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक महिला और एक पुरुष की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झरिया से एक ही परिवार के 12 सदस्य बिरनी के बिराजपुर निवासी लक्ष्मण राम के घर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वहीं संजय डोम राजधनवार की ओर जा रहे थे, जो बिरनी के बंगराखुर्द में बांस से बने घरेलू सामानों (सूप, टोपा आदि) का निर्माण करते हैं। हादसे की सूचना पर बिरनी थाना एएसआई शंभू सिंह सामुदायिक अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों टेम्पो को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।

स्पीड न्यूज

समाजसेवी ने अपने जन्मदिन पर किया रक्तदान

धनबाद। समाजसेवी अंकित राजगढ़िया ने अपने जन्मदिन पर रविवार को एसएनएमएमसीएच ब्लड बैंक में रक्तदान किया। उन्होंने 61 वीं बार रक्तदान किया। उनके साथ जितेंद्र यादव, मोहम्मद साजिद, अमिताभ ने भी रक्तदान किया। उनके मित्रों ने अंकित का केक काटकर जन्मदिन मनाया। अंकित बताया कि वह साल में चार बार रक्तदान करते है और हर जन्मदिन पर भी रक्तदान करते है।

15 जून को कॉ. ए. के. रॉय प्रतिमा का होगा अनावरण

धनबाद। रविवार को कॉ. ए. के. रॉय स्मारक समिति की बैठक स्मारक समिति अध्यक्ष कॉ. हरि प्रसाद पप्पू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। बैठक में दिशानिर्देश करने हेतु स्मारक समिति के संगरक्षक पूर्व विधायक कॉ. आनन्द महतो उपस्थित थे। बैठक सम्राट चौधरी आवासीय कार्यालय रूबी सर्कुलर रोड धनबाद में किया गया, जिसमें जानकारी दिया गया है, कि हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व सांसद कॉ. ए. के. रॉय का मूर्ति अनावरण 15 जून को किया जायेगा। जिसमें वाम दलों तथा इंडिया घटक के कई बड़े राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नेतागण सहित जिला के कई विधायक हिस्सा लेंगे। कोशिश किया जा रहा है, कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कराया जाएगा। इन सब के लिए आमंत्रण पत्र और सम्पर्क का कार्य 20 मई, देशव्यापी हड़ताल के बाद शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में समिति के सचिव सत्यनारायण कुमार, आनन्द मय पाल, भारत भूषण, राम कृष्णा पासवान, बिन्दा पासवान, सम्राट चौधरी के अलावे अजय महतो, ए के मिश्रा, आर पी महतो, लिलामय गोस्वामी, विश्वजीत रॉय, राजेश बिरूवा, भुषण महतो तथा कई अन्य साथी उपस्थित थे।

मातृ दिवस पर श्री कृष्णा मातृ सदन में गूंजी किलकारी

कतरास। मातृ दिवस के शुभ दिन में श्री कृष्णा मातृ सदन कतरास में तीन माताओं को मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। जिसमें दो माताओं को यह सुख पहली बार प्राप्त हुआ। जिन दो माताओं ने यह सुख प्राप्त हुआ उनके चेहरे की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से चांद के टुकड़े मिल गए हैं। हो भी क्यों नहीं क्योंकि पहली बार मां बनने का एहसास एक अनूठा और अद्भुत अनुभव होता है। सुधा कुमारी पति अर्जुन गोप सबलपुर धनबाद को प्रथम पुत्री, संजीदा प्रवीण पति जबीउल्लाह नावाटांड़, डुमरी को प्रथम पुत्र और नेहा कुमारी पति दुर्गेश कुमार, जहानाबाद (बिहार) को पुत्र के बाद पुत्री की प्राप्ति हुई। तीनों माताओं को अस्पताल की संचालिका डॉ शिवानी ने बधाई दी और उज्वल भविष्य की कामना की।

मदर्स डे पर एसजेएएस में रक्त दान शिविर का आयोजन

धनबाद। सखियां फाउंडेशन एवं साथी फाउंडेशन के तत्वाधान में एसजेएएस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मदर्स डे के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलपरिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ,बी जे के एम एस के महामंत्री एवं कांग्रेस के महा सचिव रणविजय सिंह, भाजपा के मिल्टन पार्थ सारथी, श्री राम सेना के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष दिलीप सिंह के द्वारा शुभारंभ कराया गया। सभी अतिथियों को एस जे ए एस सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीईओ डॉ जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा सभी को बुके और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। आर पी एफ बटालियन के सदस्य भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। सभी डोनर को सर्टिफिकेट और मोमेंटो दे कार सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सखियां फाउंडेशन की अध्यक्ष भारती दुबे, सचिव फिरदौस अफशान, साथी फाउंडेशन संस्था के फाउंडर सचिव इरफान आलम, आर पी एस एफ इंस्पेक्टर अरुण दुबे, हॉस्पिटल के ब्लड सेंटर के इंचार्ज सुदीप पाण्डेय उपस्थित थे।

किशोरी को चाइल्ड हेल्प लाइन के प्रतिनिधि को सौंपा

खबर मन्त्र संवाददाता

महुदा। आरपीएफ के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने महुदा रेलवे स्टेशन में जांच के दौरान फुटब्रीज पर एक 10 वर्षीय किशोरी को लक्ष्यहीन तरिके से घुमते हुए पाया। उसे स्थानीय महिला के सहयोग से आरपीएफ पोस्ट लाया गया। वहाँ पुछताछ करने पर किशोरी ने बतायी कि उसका नाम दुर्गा कुमारी, पिता रतन तांती, गांव उधारिया निवासी, थाना बड़ाबांबु जिला सरायकेला झारखंड की रहने वाली बतायी। इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट के सब-इंस्पेक्टर पी के मंडल ने बताया कि किशोरी अपने मामा के घर फुसरो में रह रही थी। मामा के डांटने पर वह 10 मई को चंद्रपुरा स्टेशन भाग आई। वहाँ भोजुडीह चंद्रपुरा सवारी गाड़ी में सवार होकर महुदा स्टेशन आ गई। जहाँ कर्मचारियों द्वारा स्टेशन में जांच के क्रम में देखा। उसे आरपीएफ पोस्ट महुदा में एक स्थानीय महिला के देखरेख में किशोरी को उचित देखभाल में रखा गया। इसकी सूचना रेलवे चाइल्ड लाइन धनबाद दी गयी। रविवार को कानुनी औपचारिकताएं पुरा करने के बाद किशोरी को चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि को सौंप दिया गया।

बीआईटी सिंदरी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर

तकनीक, संस्कृति और नवाचार के भव्य उत्सव का आयोजन

खबर मन्त्र संवाददाता

सिंदरी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर बीआईटी सिंदरी के प्रांगण में तकनीक प्रगति, सांस्कृतिक उत्साह और नवाचार को समर्पित कार्यक्रमों का रविवार को आयोजन किया गया। इनमें लियो क्लब द्वारा आयोजित फ्रेशर आफ द इयर, धातुकर्म अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कल का धातु, हैकाथन एवं कोडिंग क्लब द्वारा भविष्य को हैक करो विषयों पर आयोजित कार्यक्रम शामिल था। इस कार्यक्रम में निदेशक डॉ पंकज राय ने मार्गदर्शन दिया। आई आई टी आई एस एम धनबाद के उप निदेशक धीरज कुमार ने छात्रों को सीमाओं से परे सोचने और सामाजिक समस्याओं के प्रभावी समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया। कुलपति जेयूटी डॉ धर्मेंद्र कुमार सिंह ने नवाचार और नेतृत्व पर अपने विचार साझा किए। साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क आफ इंडिया, सिंदरी के निदेशक दीपक कुमार ने सरकारी फंडिंग और स्टार्टअप पर प्रकाश डालते हुए उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। टेक्निक्स इंडिया के निदेशक मासूम मलिक ने मेड इन इंडिया तकनीक पर विचार साझा किए। सी डी सी अध्यक्ष डॉ धनश्याम ने छात्रों में अनुशासन के लिए निरंतर प्रयास पर बल दिया। बिट्सा इंटरनेशनल अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार और सचिव श्वेता कुमारी ने नेटवर्क के माध्यम से विचारों को बदलने का संदेश दिया।

रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन

रक्तदान एक महा कल्याणकारी कार्य, इससे दूसरों की बचती है जान : दिलीप

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद। रविवार को मानव अधिकार प्रोटेक्शन और भारतीय रेस रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में विनोद बिहारी चौक के समीप एक रेस्टोरेंट परिसर में रक्तदान शिविर एवं रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सामारोह में युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करने, समय-समय पर स्वयं जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करने वाले युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी के संस्थापक सह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त सचिव एवं समारोह के मुख्य अतिथि दिलीप सिंह समेत अन्य रक्तदाताओं को अंगवस्त्र ओढाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया एवं सभी रक्तदाताओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मानव अधिकार के पदाधिकारिओं को समाज में महत्वपूर्ण योगदानों के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि दिलीप सिंह ने कहा युवाओं के जिम्मेदारी है कि वे रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। न सिर्फ खुद रक्तदान करें बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, रक्तदान एक महाकल्याणकारी कार्य है और इससे दूसरों की जान बचती है। रक्तदान शिविर में अशर्फी हॉस्पिटल के ब्लड सेंटर के मनीष-प्रदीप और उनकी टीम का रक्त संग्रह के लिए योगदान था। कार्यक्रम में जरूरतमंदों के लिए लगभग 50 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ।

रक्तदान शिविर में अधिकार प्रोटेक्शन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा सिंह, प्रदेश सचिव सुदिस्ट कुमार, महासचिव मुख्तार अहमद व कौशिक मिश्रा जिलासचिव जमीर आरिफ, महिला अध्यक्ष गीता सिंह,संगीत सिंह, बालेश्वर कुशवाहा, प्रमोद पासवान, संजय सिंह,भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की नोडल पदाधिकारी बेनजीर परवीन, एम्बुलेंस सर्विस के नोडल पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, समेत दोनों संस्थाओं के अन्य सदस्य एवं रक्तदाता उपस्थित थे।

गिरिडीह प्रेस क्लब ने किया रक्तदान

खबर मन्त्र संवाददाता

गिरिडीह। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों की जरूरतों को देखते हुए रक्त केंद्र गिरिडीह में गिरिडीह प्रेस क्लब की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रिंकेश कुमार, अविनाश सिन्हा, जगजीत सिंह बग्गा, निशांत गुप्ता, नफीस अजहर, आशीष कुमार, श्याम कुमार व संटू कुमार समेत ग्यारह लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान प्रेस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा प्रेरित करने पर रक्त केन्द्र के सफाई कर्मी राकेश हाडी ने पहली बार रक्तदान किया जिसे सम्मानित भी किया गया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने कहा की जिले में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को हर माह लगभग 700 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है। रक्तदाताओं की कमी के कारण ऐसे बच्चों को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए आज गिरिडीह प्रेस क्लब की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने अन्य संस्थाओं से भी रक्तदान शिविर लगाने की अपील की। इस दौरान शिविर के संयोजक व प्रेस क्लब के महासचिव अरविंद कुमार ने रक्तदान करने वाले पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस शिविर से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और लोग स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएंगे। 14 मई को स्कोलर बीएड कॉलेज में भी वृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर को सफल बनाने में डॉ शोहेल अख्तर, संत कुमार, मो शोहेल, रंजीत कुमार, प्रभात सिन्हा, बिनोद शर्मा, सुरेंद्र यादव आदि ने अहम भूमिका निभाई।

कोल कर्मी के शव को लेकर परिजन यूनियन प्रतिनिधियों के साथ पहुंचे पीओ कार्यालय

नियोजन पर बनी सहमति

खबर मन्त्र संवाददाता

कतरास। ब्लॉक दो क्षेत्र क बीओसीपी माइंस में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत दुग्दा निवासी 41 वर्षीय महेंद्र कुमार दास की मौत रविवार को इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई। परिजनों ने बताया क 1 मई को ड्यूटी से घर जाने के क्रम में उनकी तबियत बिगड़ गई थी। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। रविवार शाम पांच बजे लालबंगला स्थित बीओसीपी परियोजना के पीओ कार्यालय के समक्ष मृतक के परिजन एवं श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों ने शव रखकर रख आंदोलन पर उतर आये।

वे मृतक के आश्रित को तत्काल नियोजन देने की मांग कर रहे थे। प्रबंधन ने यूनियन प्रतिनिधियों व मृतक के परिजनों के साथ वार्ता किया। जिसमें मृतक महेंद्र की पत्नी बेदी देवी को तत्काल प्रोविजनल नियोजन देने पर सहमति बनी।आवश्यक कागजात जमा करने पर स्थाई नियोजन, मुआवजा व अन्य लाभ देने का आश्वासन दिया।

एमपीएल के खिलाफ हाईवा मालिक लड़ेंगे आर पार की लड़ाई

अपने वाहनों को एमपीएल गेट के समक्ष खड़ी कर करेंगे आंदोलन

खबर मन्त्र संवाददाता

मैथन। एमपीएल के कोयला ट्रांसपोर्टिंग में निरसा के हाईवा का परिचालन ना के बराबर होने से पिछले 9 महीने से हाईवा मालिकों को प्रतिमाह लगभग 85 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। एमपीएल प्रबंधन अपने वादे से मुकर रहा है, जिसमें इकरारनामा हुआ है कि 75% कोयला के ढुलाई निरसा के हाईवा के माध्यम से होगा। इस बार हाईवा मालिक एमपीएल के विरुद्ध आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। यदि प्रबंधन हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम लोग अपने-अपने वाहनों को एमपीएल गेट के समीप खड़ी कर प्लांट के गेट को जाम करने का काम करेंगे। उक्त बातें निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति के संरक्षक संजय सिंह ने रविवार को समिति के हरियाजाम स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही।

रेलवे रैक से आये कोयला को रखने का जगह, परंतु हाईवा से आए कोयला रखने का जगह नहीं : इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि प्रतिमाह एमपीएल प्रबंधन 60 से 70 रैक कोयले की ढुलाई रेलवे के माध्यम से करवा रहा है। उसे कोयले को रखने के लिए एमपीएल प्लांट में जगह है। परंतु हाईवा से कोयला ट्रांसपोर्टिंग होने पर कोयला रखने का जगह प्लांट के पास नहीं है। यह दोहरी नीति अब नहीं चलने दी जाएगी। यदि हाईवा से कोयले की ढुलाई नहीं होगी तो रेलवे से भी कोयले की ढुलाई नहीं होने देंगे। सोमवार को हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे तथा मंगलवार से एमपीएल प्लांट के मुख्य द्वार के समझ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। इस आंदोलन की सफलता के बाद हाईवा मालिक नए सिरे से चुनाव कर अपना प्रतिनिधि चयन करेंगे। हाईवा मालिक से बगैर भाड़ा निर्धारित किये मनमाने ढंग से ट्रांसपोर्टर करवा रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग

एक प्लांट एक हाईवा एसोसिएशन : उक्त अवसर पर समिति के सचिव श्रीकांत पांडे ने कहा कि हम लोगों के फुट का फायदा ट्रांसपोर्टर एवं लिफ्टर उठा रहे हैं। इसलिए हम सभी हाईवा मालिकों को एक मंच पर एक साथ आकर अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ना होगा। प्रेस वार्ता में कर्मवीर यादव, मुकेश मिश्रा, विशु यादव, मुख्तार शेख इत्यादि मौजूद थे।

: प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष उज्जवल तिवारी ने कहा कि विजेता, मुंडन इत्यादि ट्रांसपोर्टिंग कंपनियां हाईवा मालिकों से बगैर भाड़ा निर्धारित किए ही मनमानी ढंग से भाड़ा देकर ट्रांसपोर्टिंग करवा रहे हैं। तथाकथित राजनीतिक दल के नेताओं का वरदहस्त ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों को प्राप्त है। ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों में पैसा भी तथाकथित राजनेताओं का लगा है। इस कारण वे लोग मनमानी करने पर उतारू हो गए हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि धनबाद की जनता नहीं जागी तो वह दिन दूर नहीं जब राजनेता लोग धनबाद को चारागाह बनाकर छोड़ देंगे। समय आने पर वैसे राजनेताओं का नाम भी सार्वजनिक किया जाएगा। हाईवा मलिक इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।

एक नजर में

दो बाइक की टक्कर, पांच घायल

बिरनी। बिरनी प्रखंड के सलेडीह गांव के पास रविवार को दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में दंपती समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों में पेशम के कैलाश शर्मा और उनकी पत्नी बबीता देवी, खुर्जियो के अजय दास, उनकी पत्नी लक्ष्मी कुमारी और एक बच्ची शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों परिवार विपरीत दिशा से आ रहे थे। सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि दीपक दास समेत ग्रामीणों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस को सूचना नहीं दी गई है।

शादी के बाद ससुराल आए बच्चे की बराकर नदी में डूबने से मौत

गिरिडीह। जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के नुरंगों गांव में एक दुखद घटना सामने आई, जहां शादी समारोह में शामिल होने आया 12 वर्षीय सुनील यादव बराकर नदी में नहाते समय डूब गया। वह अपनी बहन का ससुराल आया था और रविवार सुबह बिना बताए नदी में नहाने चला गया। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं, और अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

जिला परिषद के विवाह भवनों को निजी हाथों में देने की तैयारी शुरू

धनबाद। जिला परिषद के अधीन संचालित होंने वाले विवाह भवनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए खुली बोली लगाई जाएगी। निजी हाथों में सौंपने के पहले भाड़े के दर में संशोधन होगा। जिला परिषद के अधिकारियों की माने तो तीन वर्षों से दर में कोई संशोधन नहीं हुआ है। हर विवाह मंडप के संचालन के लिए एक न्यूनतम राशि का निर्धारण किया जाएगा। खुली डाक में जो सबसे अधिक बोली लगाएगा, विवाह मंडप के संचालन की जिम्मेवारी उसे दी जायेगी। संचालन कि जिम्मेवारी अधिकतम तीन वर्षों के लिए होगी। खुली डाक की हर शर्तों का पालन करना होगा। शर्त के अनुसार संचालन का अधिकार लेने वाले को हर साल तय राशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर एकरारनामा रद्द किया जा सकता है।

कार और बाइक की टक्कर, दो गंभीर

गिरिडीह। जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के मिजार्गंज में रविवार को एक स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलने पर जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

गिरिडीह के उद्योगपति गोवर्धन लाल का निधन, शोक की लहर

गिरिडीह। गिरिडीह की औद्योगिक पहचान बनाने वाले और जिले में दूसरा सबसे बड़ा टीएमटी फैक्ट्री लगाने वाले लाल स्टील ग्रुप के चेयरमैन गोवर्धन लाल का निधन रविवार को दुगार्पुर में हो गया। वे 85 वर्ष के थे और पिछले कई दिनों से एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। शनिवार देर शाम उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद हालत लगातार गंभीर होती चली गई। रविवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। गोवर्धन लाल अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं, जिसमें उनके तीन बेटे जयप्रकाश लाल, पूर्व विधायक मुन्ना लाल और विजय लाल के साथ-साथ पौत्र भी शामिल हैं। उनके निधन की खबर जैसे ही गिरिडीह और आसपास के क्षेत्रों में फैली, शोक की लहर दौड़ गई। समाज के हर वर्ग और खासकर उद्योग जगत में उनके योगदान को याद करते हुए लोग भावुक हो उठे। कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया।

शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन

गिरिडीह। जिले के खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र में संचालित सामाजिक संस्था प्रयास पहल द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को स्माईल फॉर ऑल एंव वन टीचर वन साइंटिस्ट के सहयोग से संचालित किया गया। इसमें मुख्य रूप से सुश्री वैशाली गुप्ता, संस्थापक वन टीचर वन सांईटिस्ट व लेखक स्लेट पाठ्यक्रम ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रयास पहल के सभी शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने को लेकर प्रशिक्षण दिया। छोटे छोटे बच्चों को प्रभावी रूप से पढाना तथा उनके मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए कई नई नई तकनीक के बारे में चर्चा की। प्रयास पहल के संस्थापक सुबोध कुशवाहा ने बच्चों को संबोधित करते हुए नए सत्र के बारे में विस्तार से विभिन्न शिक्षण पद्धतियों पर चर्चा किया तथा शिक्षकों को सभी शिक्षण केन्द्रों के प्रभावी संचालन के लिए कई दिशा निर्देश दिए। इस विशेष कार्यक्रम में प्रयास पहल के अध्यक्ष पंकज कुमार, शिक्षक राजु कुमार राय, तेजलाल बर्मा सहित अनेकों शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही।

कार-ट्रक में टक्कर, कोई हताहत नहीं

कतरास। तिलाटांड़ अस्पताल के समीप एक कार आयरन लदा ट्रक से टकरा गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कार में सवार लोग बोकारो से दुगार्पुर किसी समारोह में जा रहे थे। जबकि ट्रक आयरन लादकर आसनसोल की ओर जा रहा था। ओवरटेक के दौरान टक्कर हो गई। कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गये।

डीवीसी श्रमिक यूनियन का दो दिवसीय सम्मेलन मेजिया में शुरू

मैथन। डीवीसी श्रमिक यूनियन का 13 वां दो दिवसीय केन्द्रीय सम्मेलन रविवार को मेजिया में शुरू हुआ। जिसका उद्घाटन डीवीसी श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने झंडोत्तोलन कर किया। साथ ही यूनियन के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद वासुदेव आचार्य के प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। इसके बाद सम्मेलन कक्ष में श्री भट्टाचार्य ने उद्घाटन भाषण देते हुए सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रमिक यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष समीर बाइन ने किया। इस सम्मेलन में डीवीसी श्रमिक यूनियन के सदस्य, कान्ट्रेक्टर वर्कर्स यूनियन के सदस्य, वास्तुहारा के सदस्य, अप्रेंटिस एसोसिएशन के सदस्य, कैजुअल वर्कर्स आदि के सदस्य उपस्थित थे। डीवीसी श्रमिक यूनियन के महासचिव अभिजीत राय ने डीवीसी के वर्तमान परिस्थिति के बारे में विस्तृत ढंग से बताया। श्रमिक यूनियन के पूर्व महासचिव जीवन आइच ने डीवीसी के इतिहास के बारे में जानकारी दी। जीवन आइच ने डीवीसी के तमाम यूनियन को डीवीसी को बचाने, डीवीसी में नया नियुक्ति, कर्मचारियों के अधिकार, डीवीसी के उद्देश्य आदि के लिए एकता बनाने पर जोर दिया। इलेक्ट्रिक फेडरेशन के महासचिव सुदीप दत्ता ने भी पूरे देश में बिजली समस्या के बारे में अपना वक्तव्य रखा। इसके साथ-साथ शिव कुमार सिन्हा, संतोष घोष, निशीथ मुखर्जी, पिजूष कांति सेन, नेपाल दे, सागर कर्मकार, अचिंत्य दास आदि ने अपना वक्तव्य रखा।

स्वतंत्रता सेनानियों के चरण रज का तिलक लगाकर दी गई श्रद्धांजलि

गढ़वा में तिलक करो इस मिट्टी से कार्यक्रम

खबर मन्त्र संवाददाता

गढ़वा। पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच नवादा, गढ़वा के तत्वावधान में प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की 168वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर तिलक करो इस मिट्टी से...नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बंधन मैरेज हाल गढ़वा में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में गढ़वा जिले के अमर बलिदानी नीलांबर-पीतांबर के जन्मस्थली चेमो सन्या, नारायण साव की जन्म स्थली रमकंडा और भूखा साव हलवाई की जन्मस्थली बड़गड़ से लायी गई पवित्र चरण रज की पूजन की गई। तत्पश्चात उससे वहां उपस्थित राष्ट्रभक्त

कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रभक्त

का तिलक किया गया। कार्यक्रम में विषय प्रवेश कराते हुए मंच के निदेशक नीरज श्रीधर ने कहा कि कला मंच स्थापना काल से स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानियों को समर्पित विभिन्न प्रकार के आयोजन करता रहा है। उसी कड़ी में यह वार्षिक आयोजन भी है। अगले माह तक बलिदानी मंगल पांडेय, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं बाबू कुंवर सिंह की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी भी उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी के सहयोग एवं स्नेह से कला मंच निरन्तर ऐसे आयोजन करता रहेगा। इस अवसर पर भारतीय थल सेना के नायब सूबेदार चंदन सिंह चंदेल बतौर मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत माता के वीर सपूतों के सम्मान में पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। समाजसेवी डॉक्टर पातंजलि कुमार केशरी ने कहा कि मंच के कार्यक्रम के माध्यम से अमर बलिदानियों को दिए जा रहे सम्मान अत्यंत सराहनीय है। सांसद प्रतिनिधि प्रवीण जायसवाल ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से उन्हें पहली बार प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बलिदानी नारायण साव एवं भूखा साव हलवाई की जानकारी हुई। इससे हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई के संरक्षक जगतारण तिवारी ने कहा कि देश के अमर बलिदानियों एवं उनके परिजनों का सम्मान सभी करना ही चाहिए। क्योंकि अमर बलिदानियों के अतुल्य योगदान के कारण ही हम आज स्वतंत्र हैं। मौके पर व्यास प्रेम दीवाना, डॉ रंजीत कुमार, डॉ शंभू कुमार तिवारी ने कहा कि आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारा राष्ट्र हमारे प्रयासों से परम वैभव को प्राप्त हो। कार्यक्रम में राजीव रंजन तिवारी, जेपी रमण, अद्भुत प्रभात ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर तलवारबाजी और कराटे का प्रदर्शन झूलन कुमारी, सुप्रिया कुमारी, सौरभ कुमार तथा शाहीन परवीन ने किया। कार्यक्रम में विजय सोनी, मनोज संसाई, पुरुषोत्तम सिंह चंदेल, कीर्ति, श्रुति, जाह्नवी, संतोष कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन आशीष दुबे अग्निवीर ने किया। भारत माता की आरती के साथ आयोजन सम्पन्न हुआ।

दर्दनाक सड़क हादसा में स्कूल संयोजिका की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल

खबर मन्त्र संवाददाता

गढ़वा। थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरो गांव के पास एनएच-75 फोरलेन बाइपास सड़क पर शनिवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 38 वर्षीय कलिंदा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनकी 12 वर्षीय बेटी अंजली कुमारी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गढ़वा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलिंदा देवी गढ़वा प्रखंड के नारायणपुर गांव स्थित एक सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) की संयोजिका थीं। शनिवार की शाम वे अपनी बेटी के साथ सब्जी खरीदने गढ़वा बाजार गई थीं। बाजार से लौटते वक्त जब वे डुमरो गांव के पास फोरलेन सड़क पार कर रही थीं, तभी एक

अस्पताल में परिजन

तेज रफ्तार अज्ञात कार ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कलिंदा देवी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी बेटी अंजली गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने कलिंदा देवी को मृत घोषित कर दिया और अंजली को बेहतर इलाज के लिए रांची या मेदिनीनगर जैसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मृतका के पति बिहारी प्रजापति ने बताया कि कलिंदा देवी स्कूल के मिड-डे मील के संचालन के लिए सब्जी खरीदने बाजार गई थीं। घटना की सूचना मिलते ही गढ़वा थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल, दुर्घटना में शामिल कार की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है ताकि कार और उसके चालक का पता लगाया जा सके।

बाबा खोण्हर नाथ मंदिर की पुरानी समिति भंग, नई समिति की नियुक्ति

खबर मन्त्र संवाददाता

गढ़वा। जिला के गिजना स्थित श्री बाबा खोण्हर नाथ मंदिर के प्रबंधन में बड़ा बदलाव किया गया है। झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड ने मंदिर की पूर्व गठित 11 सदस्यीय समिति को भंग कर दी है और एक नई समिति का गठन किया है। यह निर्णय श्राइन ट्रस्ट के सचिव मनोज कुमार तिवारी की शिकायत पर बोर्ड सदस्य संजीव कुमार तिवारी द्वारा की गई जांच के बाद लिया गया। बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 (अंगीकृत) की धारा 29(2) के तहत यह कार्रवाई की गई है। धारा 32 के अंतर्गत ट्रस्ट की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए नई 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो अगले आदेश तक कार्यरत रहेगी। नई समिति में

परेश तिवारी

अध्यक्ष परेश कुमार तिवारी, उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर उपाध्याय, दिनेश राम, सचिव मनोज कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार तिवारी, सदस्यगण जवाहीर चौधरी, अरुण दूबे, राजेश कुमार गुप्ता, संजय तिवारी, रामसरिख चन्द्रा, गौतम कुमार चन्द्रवंशी को बनाया गया है। नई समिति को मंदिर की चल-अचल संपत्तियों के अभिलेखों की सुरक्षा, आय-व्यय का लेखा संधारण, पूजा-पाठ की नियमित व्यवस्था, मंदिर भवनों का रखरखाव, धार्मिक आयोजनों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है।

कॉफी विद एसडीएम में सैनिकों के परिजनों को मिलेगा सम्मान

गढ़वा। अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा चलाए जा रहे साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम कॉफी विद एसडीएम के आगामी सत्र में इस बार गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र के उन सैनिकों के परिजनों को ससम्मान आमंत्रित किया गया है, जिनके परिवारजन वर्तमान में देश की रक्षा सेवा में तैनात हैं। इस संवाद का उद्देश्य सैनिक परिवारों की समस्याओं, प्रशासनिक जरूरतों और उनके सुझावों को जानना है। एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि सैनिकों के परिवारों का सम्मान और सहयोग प्रशासन की प्राथमिकता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आम नागरिक निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान परिजनों से पूछा जाएगा कि उन्हें स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की दिक्कत या प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता तो नहीं है।

मझिआंव में पिता-पुत्र और माता पर हमला, तीनों गंभीर रूप से घायल

खबर मन्त्र संवाददाता

मझिआंव। थाना क्षेत्र के आमर गांव के पश्चिम टोला में रविवार सुबह एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा एक परिवार पर हमला कर दिया गया, जिसमें पिता, पुत्र और माता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मझिआंव थाना लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफरल अस्पताल भेजा गया। मां सुशीला देवी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल गढ़वा रेफर कर दिया गया है। घायल सुधीर विश्वकर्मा (23 वर्ष) ने थाना में दिए आवेदन में बताया कि रविवार सुबह जब वह घर से बाहर निकला, तो देखा कि सैफ अली खान अपने सहयोगियों के साथ लाठी, डंडा और बंदूक लिए खड़ा है। संदेह होने पर जब सुधीर ने उनसे पूछा कि वे किसे खोज रहे हैं, तो वे लोग गाली-गलौज करते हुए चले गए। इसके बाद सुबह 8:00 बजे के करीब सैफ अली खान, इबरार खान, मुस्तकीम खान, हाका खान और 8-10 अन्य लोग लाठी-डंडा लेकर आए और

घायल लोग

सुधीर के घर में घुसकर उन्हें, उनके पिता अवध विश्वकर्मा (58 वर्ष) और माता सुशीला देवी (55 वर्ष) को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुधीर के पिता अवध विश्वकर्मा ने बताया कि शनिवार रात को सत्येंद्र पासवान के पुत्र की बारात बिशुनपुरा गई थी, जहां डीजे को लेकर विवाद हुआ। भूसुवा गांव निवासी डीजे संचालक के पक्ष में होकर उसी गांव का स्कॉर्पियो चालक सैफ अली खान बारातियों से उलझ गया। बारातियों ने सैफ के साथ मारपीट की थी। अवध ने कहा कि उनका पुत्र उस मारपीट में शामिल नहीं था और वह खाना खाकर घर आ गया था। लेकिन बारात का गुस्सा निकालने के लिए सैफ अली खान और उसके सहयोगियों ने उनके घर पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सुधीर विश्वकर्मा ने थाना में आवेदन देकर जान-माल की सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

गायत्री शक्तिपीठ में वैशाख पूर्णिमा पर भव्य धार्मिक अनुष्ठान, भंडारा का आयोजन

मझिआंव। नगर पंचायत क्षेत्र के चंद्री टोला स्थित गायत्री शक्तिपीठ में वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सोमवार को सुबह से प्रारंभ होगा, जिसमें आरती, साधना, हवन यज्ञ और भंडारा का आयोजन शामिल है। कार्यक्रम के अनुसार सुबह 5:30 बजे आरती, 6:00 बजे साधना, 8:00 बजे हवन यज्ञ तथा 10:00 बजे से भंडारा का आयोजन किया जाएगा। प्रखंड समन्वयक नागेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि यह धार्मिक परंपरा पिछले 12 वर्षों से लगातार निभाई जा रही है और इसे पूज्य माता जी व गुरुदेव के आशीर्वाद से आगे भी जारी रखा जाएगा।

कार्यक्रम में गढ़वा जिला गायत्री परिवार के प्रबंध ट्रस्टी व केंद्रीय टोली सदस्य अच्युतानंद तिवारी द्वारा कर्मकांड उद्बोधन संपन्न कराया जाएगा। साथ ही ब्रह्मवादिनी टोली की श्वेता कुमारी और महिमा कुमारी कर्मकांड प्रस्तुत करेंगी, जबकि संगीत प्रस्तुति मुस्कान कुमारी द्वारा दी जाएगी। भंडारे में सहयोग करने के इच्छुक श्रद्धालु नागेंद्र सिंह (मो. 8434695656) या उपप्रखंड समन्वयक देवमुनि विश्वकर्मा (मो. 7250816136) से संपर्क कर सकते हैं। गायत्री परिवार के सभी परिजनों व श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में समय पर पहुंचकर इसे सफल बनाने की अपील की गई है।

श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मासिक सत्संग संपन्न

खबर मन्त्र संवाददाता

गढ़वा। परम प्रेममय और युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मासिक सत्संग चिरौंजिया मोड़ स्थित राधिका नेत्रालय, गढ़वा में संपन्न हुआ। इस पावन आयोजन की मेजबानी गुरुभाई डॉ सुशील प्रसाद ने की। सत्संग के शुभारंभ में सभी धर्मग्रंथों का पाठ किया गया और ठाकुर जी की तस्वीर पर माला अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता रही पलामू प्रमंडल के वरिष्ठ एसपीआर कुलदीप मिश्रा दादाजी, बंशीधर नगर एसपीआर विजय नंदन सिन्हा दादाजी और एसपीआर धृति लाल सुंदर दादाजी की प्रेरणादायक उपस्थिति। उन्होंने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जीवन-दर्शन, उनके बताए सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग और सत्संग के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा सत्संग मनुष्य

सत्संग में उपस्थित लोग

के जीवन में अमृत के समान है। यह न केवल व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति देता है, बल्कि समाज में भी सद्भाव और नैतिकता को बढ़ावा देता है। सत्संग में बताया गया कि कलियुग में केवल नाम स्मरण और सत्संग ही कल्याणकारी मार्ग है। हर घर में सत्संग का वातावरण बनाना चाहिए, ताकि घर-परिवार के साथ-साथ समाज, जिला, राज्य और देश का भी कल्याण हो सके। इस कार्यक्रम में रघुवीर प्रसाद कश्यप, सियाराम पांडेय, अशोक प्रसाद, हरिद्वार प्रसाद केशरी, बिदा राम, शंभू सोनी, राजकुमार दादाजी, अखिलेश दादाजी, पायल देवी, सरिता देवी, पूजा कुमारी, पुष्पा कुमारी, अनीता देवी, मालती देवी, सीमा देवी सहित 100 से अधिक श्रद्धालु, गुरुभाई और गुरुबहनें उपस्थित थी।

बिजली करंट की चपेट में आने से रोजगार सेवक के पुत्र की मौत

खबर मन्त्र संवाददाता

कांडी। थाना क्षेत्र के खुटहेरिया ग्राम पंचायत अंतर्गत गोसांग गांव के टोला कोदवड़िया निवासी अनुज प्रसाद रवि के इकलौते पुत्र दिलीप कुमार निराला (उम्र लगभग 25 वर्ष) की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। दिलीप कुमार की असामयिक मृत्यु से न केवल उनके परिवार में, बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी के अनुसार दिलीप कुमार घर में घरेलू विद्युत लाइन की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान वे गंभीर रूप से करंट की चपेट में आ गए और घटनास्थल पर ही अचेत हो गए। परिजनों ने उन्हें तुरंत मझिआंव रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉ वीर प्रताप सिंह ने बताया कि युवक की मौत अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी थी। परिजन संतुष्ट नहीं हुए और गढ़वा स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने दिलीप को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को गांव लाकर कोयल नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। दिलीप कुमार अनुज प्रसाद रवि का इकलौता पुत्र था। बेटे की असामयिक मौत से माता-पिता सदमे में हैं और बेहोशी की स्थिति में हैं। घटना की सूचना फैलते ही आसपास के पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। खुटहेरिया पंचायत के उप मुखिया अतिश सिंह, मुखिया प्रतिनिधि विनोद राम, सरकोनी पंचायत की पूर्व मुखिया मीना देवी और उनके पति अरुण कुमार सिंह ने घटना पर गहरा दुःख प्रकट किया है और परिवार को इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

अवैध शराब के खिलाफ सामूहिक संकल्प, ग्रामीणों ने लिया बदलाव का निर्णय

खबर मन्त्र संवाददाता

गढ़वा। जिले के मेराल प्रखंड के दुलदुलवा पंचायत भवन में रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड और पंचायत स्तरीय अधिकारियों के साथ लगभग 200 ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार को समाप्त करना और ग्रामीणों को इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराना था। बैठक के दौरान एसडीएम श्री कुमार ने कहा कि दुलदुलवा का नाम अब तक अवैध शराब के लिए बदनाम रहा है, लेकिन अब गांव के लोग अपने सम्मान के लिए इस धंधे को छोड़ें और गांव को शराब के कलंक से मुक्त करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि शराब कारोबार छोड़ने के बाद किसी भी परिवार को आर्थिक संकट नहीं आने दिया जाएगा। सरकार की योजनाओं जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, केसीसी पशुधन योजना, फूलो-झानो योजना आदि से ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा। बैठक में बताया गया कि दुलदुलवा में 580 महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जो शराब मुक्ति अभियान और वैकल्पिक रोजगार के लिए लोगों को प्रेरित करेंगी। महिलाओं से मदर्स डे के अवसर पर बच्चों के भविष्य के लिए शराब बंदी का संकल्प लेने की अपील की गई। एसडीएम ने गांव के चारों ओर फैले बेल के जंगल की रक्षा करने की भी अपील की, जिसे लोग शराब बनाने के लिए काट रहे थे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि महुआ शराब की गंध से हाथी गांव में आते हैं, इसलिए शराब बंदी से खेती और गांव का माहौल भी सुरक्षित होगा। कार्यक्रम में वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष संतोष यादव, वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह, स्थानीय ग्रामीणों में शमशेर अंसारी, अशोक पाल, विनोद चंद्रवंशी, बंशीधर साव, जितेंद्र साव, जसवंती देवी आदि उपस्थित थे।

बीपीडीएवी में मातृदिवस पर भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन

खबर मन्त्र संवाददाता

गढ़वा। बीपीडीएवी पब्लिक स्कूल, फरठिया में मातृदिवस के अवसर पर एक भव्य और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शौर्य चक्र विजेता शहीद आशीष तिवारी की माता आनन्दी देवी और हाल ही में यूपीएससी परीक्षा पास करने वाली छाया दूबे की माता सीमा देवी को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई, जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। इसके बाद मुख्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के संगीत शिक्षक पीके मिश्रा एवं मनोज कुमार सिन्हा के निर्देशन में छात्रों ने माताओं की महिमा और उनके प्रति सम्मान दशार्ते हुए समूह गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद शिक्षिका नेहा केशरी के मार्गदर्शन में छात्रों ने भावनात्मक समूह नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने उपस्थित सभी लोगों को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों को शॉल और भारत माता का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया।

विद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ शम्भु कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि मातृदिवस का आयोजन माताओं के

उपस्थित अतिथि

प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा मां का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊंचा है। मां का प्यार, समर्थन और मार्गदर्शन हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शहीद आशीष तिवारी की माता आनन्दी देवी ने कहा कि मां का स्थान जीवन में सर्वोच्च है और उन्होंने अपने बेटे की शहादत पर गर्व जताया। उन्होंने सभी माताओं से बच्चों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने की अपील की। वहीं, छाया दूबे की माता सीमा देवी ने अपनी बेटी की सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए माताओं से बच्चों के सही मार्गदर्शन और शिक्षा में सहयोग की बात कही। मौके पर शिक्षक राजेन्द्र यादव, अमियो मुखर्जी, गोविंद नारायण दूबे, आशीष रंजन, नेहा केशरी, दिव्या तिवारी, सरिता पाण्डेय, अदिति कुमारी, मनोज कुमार सिन्हा, एके झा, हेड बॉय प्रतीक कुमार, हेड गर्ल रिया सारथी, शुभम कुमार, अनुष्का कुमारी, अवन्तिका सोनी आदि लोग उपस्थित थे।

सुनियोजित स्ट्राइक

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना, नौसेना, और वायुसेना ने संयुक्त रूप से काम किया, जो 54 वर्षों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ। भारतीय वायुसेना ने राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जो सटीक हमलों के लिए महत्वपूर्ण थे। थल सेना ने एम777 हल्की होवित्जर तोपों के साथ सहायता प्रदान की, जबकि नौसेना ने समुद्री निगरानी और समर्थन में योगदान दिया। खुफिया एजेंसियों, विशेष रूप से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), ने लक्ष्यों का चयन किया, जैसे कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह और मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप। भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों से स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और हैमर सटीक-निर्देशित बम दागे। स्कैल्प मिसाइलें स्टील्थ तकनीक से लैस थीं, जो रडार से बचकर कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं और 450 किलोग्राम वॉरहेड के साथ बंकरों को नष्ट करने में सक्षम हैं। हैमर बमों में जीपीएस और लेजर गाइडेंस सिस्टम था, जो रात और प्रतिकूल मौसम में भी सटीक हमले सुनिश्चित करता है। मिराज 2000 जेट्स ने स्पाइस 2000 और पोपआई बमों का उपयोग किया, जबकि एम777 होवित्जर तोपों से एक्सकैलिबर 155 मिमी सटीक-निर्देशित गोले दागे गए। आत्मघाती ड्रोन, जैसे स्काईस्ट्राइकर लॉइटरिंग म्युनिशन, ने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट किया। मेटियोर मिसाइलों ने हवाई सुरक्षा सुनिश्चित की। इन हथियारों ने भारत की सैन्य तकनीक में उन्नति को प्रदर्शित किया, जो 2019 के बालाकोट हमले की तुलना में अधिक सटीक और प्रभावी थी। ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक ने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेरॉन ड्रोन ने रीयल-टाइम सर्विलांस और माइक्रो-म्युनिशन हमलों में योगदान दिया। एक सटीक और कारगर स्ट्राइक जिसने दुनिया को एक नये भारत का संदेश दिया।

आज का राशिफल

मेष : बुद्धि व धन का दुरुपयोग न करें। व्यापार में स्थिति नरम रहेगी। भ्रातृपक्ष में विरोध की संभावना है। आय-व्यय समान रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यर्थ प्रपंच में समय न गंवाकर काम पर ध्यान दीजिए। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश सफल होगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। शुभांक-2-5-7

वृष : कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे। अपने हित के काम सुबह-सवेरे ही निपटा लें क्योंकि आगे कामकाज सीमित तौर पर ही बन पाएंगे। स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर बना रहेगा। शुभांक-2-3-5

मिथुन : यात्रा प्रवास का सार्थक परिणाम मिलेगा। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नवीन जिम्मेदारी बढ़ने के आसार रहेंगे। अपने काम को प्राथमिकता से करें। चिंतनीय वातावरण से मुक्ति मिलेगी। शुभांक-2-3-8

कर्क : मेहमानों का आगमन होगा। राजकीय कार्यो से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। मेहमानों का आगमन होगा। पुरानी गलती का पश्चाताप होगा। विद्यार्थियों को लाभ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। वाहन चालन में सावधानी बरतें। बातचीत में संयम बरतें। आय के अच्छे योग बनेंगे। शुभांक-2-5-8

सिंह : परिवारजन का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। शैक्षणिक कार्य आसानी से पूरे होते रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। संतोषजनक सफलता मिलेगी। शुभांक-4-8-9

कन्या : अपनों का सहयोग मिलेगा। पत्नी व संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहेगी। शिक्षा में आशानुकूल कार्य होने में संदेह है। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति ठीक रहेगी। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। मित्रों से सावधान रहें। शारीरिक सुख के लिए व्यसनों का त्याग करें। कार्य सफल होंगे। शुभांक-2-8-9

तुला : मन प्रसन्न बना रहेगा। अचल संपति की खरीद अथवा कृषि उद्यम में रुचि पैदा होगी। आपसी प्रेम-भाव में बढ़ोतरी होगी। भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। सहयोग प्राप्त होगा। अपने आपको अधिक सक्रिय पाएंगे। परामर्श आदि सभी का सहयोग मिलेगा। शुभांक-5-7-9

वृश्चिक : दिन-भर का माहौल आडंबरपूर्ण और व्ययकारी होगा। वरिष्ठ लोगों से कहासुनी वातावरण में तनाव पैदा करेंगे। उतावलेपन से बचे। संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। कुछ कार्यक्रम बदलने होंगे। किसी को हानि पंहुचाने की चेष्टा न करें अन्यथा हानि संभव है। स्वविवेक से कार्य करे। शुभांक-1-2-7

धनु : घर के सदस्य मदद करेंगे और साथ ही आर्थिक बदहाली से भी मुक्ति मिलने लगेगी। प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा। अवरुद्ध कार्य संपन्न हो जाएंगे। सभा-सोसायटी में सम्मान मिलेगा। पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे। पसंदीदा भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होगी। शुभांक-1-4-8

मकर : प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे। आमोद-प्रमोद का दिन होगा और व्यावसायिक प्रगति भी होगी। जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा रहेगी। ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि होगी और सज्जनों का साथ भी रहेगा। मनोरथ सिद्धि का योग है। स्त्री-संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। शुभांक-5-6-8

कुंभ : कुछ कार्य भी सिद्ध होंगे। व्यर्थ की भाग-दौड़ से यदि बचा ही जाए तो अच्छा है। प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा। अवरुद्ध कार्य संपन्न हो जाएंगे। कुछ तनाव हो सकता हैं। महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। भाई-बहनों का प्रेम बढ़ेगा। स्वविवेक से कार्य करें। शुभांक-5-7-8

मीन : आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। सभा-गोष्ठियों में मान-सम्मान बढ़ेगा।

संस्थापक
स्व. डॉ अभय कुमार सिंह
स्वामित्व वृन्दा मीडिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक, प्रकाशक
मंजू सिंह
द्वारा चिरौंदी, बोड़ेया रोड, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रधान संपादक
सौरभ कुमार सिंह
संपादक
अविनाश ठाकुर*
फोन : 95708-48433
पिनः -834006
e-mail
khabarmantra.city@gmail.com
R.N.I No.
JHAHIN/2013/51797
धनबाद कार्यालय
लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद 826001 से प्रकाशित।
(R.N.I No. आवेदित)
*पीआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।

युद्धकालीन पत्रकारिता: उत्तरदायित्व, विवेक और राष्ट्रहित का संतुलन

पत्रकारिता या मीडिया को लोकतंत्र का चौथा आधार स्तम्भ कहा जाता है । वो है भी , लेकिन जब कोई घटना किसी देश के लोकतंत्र पर ही हमला हो और उसके कारण युद्ध हो तो पत्रकारिता के मायने क्या होने चाहिए ? यह प्रश्न आज पत्रकारिता जगत में विचारणीय प्रश्न है । विदित हो कि डिजिटल मीडिया संस्थान द वायर के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही ₹मकतूब मीडिया₹ के एक्स अकाउंट को भी प्रतिबंधित किया है। इस कार्रवाई को द वायर ने प्रेस की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी₹ का स्पष्ट उल्लंघन कहा है ।

भारत सरकार ने भारत में द वायर पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, वह मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69अ के तहत किया गया है। इस धारा में यदि कोई पत्रकारिता ऐसी है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हो, या रक्षा, सुरक्षा या विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंचाती हो, या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करती हो,या अपराध को उकसाने वाली हो तो उसको आपातकालीन परिस्थितियो में इस अधिनियम के नियम 9(1) के तहत बिना कारण पूछे भी प्रतिबंधित किया जा सकता है ।

जब वर्तमान की परिस्थितियों में हम इस सम्बंध में विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित नहीं होता, यह एक मानसिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और संचार का युद्ध भी होता है। इस संचार युद्ध में किसी भी देश की पत्रकारिता की भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। युद्धकालीन पत्रकारिता न केवल जनमानस को सूचना देती है, बल्कि यह उनके दृष्टिकोण, मनोबल और देशभक्ति की भावना को भी प्रभावित करती है। ऐसे समय में पत्रकारिता का उत्तरदायित्व कहीं अधिक बढ़ जाता है क्योंकि एक छोटी सी चूक भी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। युद्धकाल में पत्रकारिता की संवेदनशीलता यह होती है कि युद्ध के दौरान मीडिया का हर शब्द, हर तस्वीर और हर विश्लेषण राष्ट्रीय हित और जनमानस पर प्रभाव डाल सकता है। अतः पत्रकारों को बेहद संवेदनशील, सतर्क और जिम्मेदार होना चाहिए।

सेना की गोपनीयताः सैनिकों की तैनाती, रणनीति, हथियारों की स्थिति या मिशन से जुड़ी कोई भी सूचना यदि लीक होती है तो इससे शत्रु को बढ़त मिल सकती है। फर्जी खबरों, अफवाहों या अतिरंजित सूचनाओं से न केवल नागरिक भयभीत हो सकते हैं,

बल्कि सैन्य कार्रवाइयों में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। सैन्य और नागरिक सुरक्षा दुष्प्रभावित होती है । पत्रकारिता का उत्तरदायित्व होना चाहिए ₹राष्ट्रहित सर्वोपरि₹ , स्वतंत्रता के अधिकार के साथ पत्रकारिता को यह भी समझना चाहिए कि युद्ध जैसे असाधारण समय में राष्ट्रहित



- डॉ विश्वास

सर्वोच्च होता है। इस दौरान रिपोर्टिंग को जिम्मेदारी, संयम और विवेक के साथ करना चाहिए।

पत्रकारों को किसी भी रूप में दुश्मन की मदद नहीं करनी चाहिए, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हो। यही राष्ट्रतात्विक दृष्टिकोण होता है । सेना और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि कोई गोपनीय सूचना उजागर न हो। ऐसा समन्वय प्रशासन और सेना के साथ होना चाहिए। पत्रकारिता का दायित्व देश की जनता के मनोबल और सामाजिक एकता के पोषण का भी होता है। क्योंकि युद्ध के समय समाज में भय, भ्रम और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। मीडिया को ऐसे समय में समाज का मनोबल बनाए रखने में योगदान देना चाहिए।

पत्रकारिता में लगातार मौतों, हार या भय की खबरों से समाज में हताशा फैल सकती है। पत्रकारों को यथार्थ दिखाते हुए आशा का दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। विविधताओं वाले देशों में मीडिया का यह कर्तव्य होता है कि वह सामाजिक एकता को बढ़ावा दे और धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव न फैलाए बल्कि राष्ट्रीय एकता का संदेश दे।

> वास्तव में युद्धकालीन पत्रकारिता और शांतिकालीन पत्रकारिता में अंतर होता है। युद्धकालीन पत्रकारिता प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, मनोबल, गोपनीयता की रक्षा होता है। वहीं, शांति कालीन पत्रकारिता का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्य, पारदर्शिता, विविध मुद्दों की चर्चा होता है। युद्धकालीन पत्रकारिता में सेंसरशिप अपेक्षाकृत अधिक; होती है राष्ट्र हित मे सेना व

आज के युद्ध में दुष्प्रचार और साइबर प्रोपेगैंडा भी एक हथियार है जिसका मुकाबला केवल गोलियों और बमों का नहीं, बल्कि सूचना और साइबर हमलों का भी है। दुश्मन देश सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाहें फैलाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करता है।

मीडिया को चाहिए कि वह फेक न्यूज की पहचान और खंडन करते हुए तथ्य-जांच की मजबूत प्रक्रिया अपनाए और दुष्प्रचार का मुकाबला करे। साथ ही जिम्मेदार मीडिया हाउस को सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों का खंडन करते हुए सही जानकारी प्रसारित करनी चाहिए। युद्धकालीन पत्रकारिता का उद्देश्य केवल रिपोर्टिंग करना नहीं होता, बल्कि समाज में शांति, मानवता और संवाद की भावना को भी प्रोत्साहित करना होता है। युद्ध की विभीषिका दिखाकर सैनिकों के बलिदान, युद्ध में घायल बच्चों, विस्थापित परिवारों की कहानी को सामने लाकर युद्ध की पीड़ा को समझाया जा सकता है। पत्रकारिता को चाहिए कि वह केवल सैन्य दृष्टिकोण पर केंद्रित न रहकर राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों को भी स्थान दे।

वास्तव में युद्धकालीन पत्रकारिता और शांतिकालीन पत्रकारिता में अंतर होता है। युद्धकालीन पत्रकारिता प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, मनोबल, गोपनीयता की रक्षा होता है। वहीं, शांति कालीन पत्रकारिता का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्य, पारदर्शिता, विविध मुद्दों की चर्चा होता है। युद्धकालीन पत्रकारिता में सेंसरशिप अपेक्षाकृत अधिक; होती है राष्ट्र हित मे सेना व सरकार के दिशानिर्देश लागू होते हैं जबकि शांति कालीन पत्रकारिता में न्यूनतम, स्वतंत्रता पर जोर।

राष्ट्रहित मे चयनात्मक, रणनीतिक, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, वही शांतिकालीन पत्रकारिता में व्यापक,आलोचनात्म खुली बहस आधारित भी हो तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संयमित, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए लेकिन शांति कालीन पत्रकारिता में स्वतंत्र, निगरानीकर्ता के रूप में भी रहना चाहिए । युद्धकालीन पत्रकारिता में सूचना की प्रकृति सीमित, सत्यापन के बाद प्रकाशित वाली होना चाहिये वहीं शांति कालीन पत्रकारिता में अधिक विस्तृत, विविध स्रोतों से जानकारी लेकर होना चाहिए.इस तुलना से स्पष्ट होता है कि पत्रकारिता के दोनों रूपों में सन्दर्भ, उत्तरदायित्व और प्राथमिकताएँ अलग-अलग होती हैं।

युद्धकालीन पत्रकारिता की अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता और वैश्विक धारणा भी यही है कि आज की वैश्विक दुनिया में किसी देश की युद्धकालीन छवि उसकी मीडिया के जरिए ही बनती है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी युद्ध को कवर करती है, और भारत की पत्रकारिता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसका व्यवहार और रिपोर्टिंग वैश्विक मंच पर देश की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है। वहां निष्पक्षता की दृष्टि से नही राष्ट्रनिष्ठा की दृष्टि से आकलन होता है। यद्यपि राष्ट्रहित महत्वपूर्ण है, परंतु पूरी तरह प्रचारात्मक रवैया भी पत्रकारिता की निष्पक्षता को आहत कर सकता है। इसलिए प्रचार बनाम पत्रकारिता के बीच संतुलन भी जरूरी है।

युद्धकाल मे राष्ट्र की पत्रकारिता की वैश्विक समर्थन की रणनीति होना चाहिए ।

लेटर टू एडिटर

भारत की छवि मजबूत

ऑपरेशन सिंदूर भारत की वैश्विक शक्ति की छवि को मजबूत करेगा। भारत इसे आत्मरक्षा और आतंकवाद विरोधी कदम बताएगा, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी सम्प्रभुता का उल्लंघन कहेगा। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों के विरोधाभासी हितों के कारण कोई ठोस प्रस्ताव संभव नहीं। सार्क कमजोर होगा और आईएमएफ ऋण की समीक्षा से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। हवाई क्षेत्र बंद होने से पाक एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है। भारत को प्रभावी कूटनीति की आवश्यकता होगी।

- जयभगवान हजारीबाग

दीर्घकालिक हित देखें

आम धारणा है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है और आपसी बातचीत से समस्या को सुलझाना दोनों देशों के हित में है। लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता से कोई समझौता नहीं हो सकता। इस में कोई शक नहीं कि 22 अप्रैल को जो कुछ पहलगाम में हुआ, उस से पूरा देश आहत है, किंतु पूर्ण युद्ध होने की स्थिति में मंजर दोनों मुल्कों के हित में नहीं होगा। संक्षिप्त भारतीय कार्रवाई के बाद दोनों देशों को मिल-बैठकर समस्या का निराकरण करना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाकर सीज फायर करना भारत की बड़ी जीत है इसके लिए हमारी सरकार, सैनिक और जनता को बधाई और धन्यवाद।

-डीवी अरोड़ा, रांची

X ट्वीट

रांची जिला के अनगड़ा प्रखंड में शहीद लांस नायक श्री राजकुमार महतो जी की आदमकद प्रतिमा को कुछ शरारती तत्व ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसपर स्थानीय थाना द्वारा ससम्मान प्रतिमा को पुनःस्थापन करा दिया गया। साथ ही मामलें की जाँच की जा रही है।

-मंजूनाथ भजंत्री, डीसी रांची

तथागत को पूर्ण ज्ञान होते ही विश्व कल्याण का भाव जागृत हुआ

बुद्ध पूर्णिमा (12 मई) पर विशेष

- श्वेता गोयल

हर साल वैशाख मास की पूर्णिमा को ह्यबुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को मनाई जा रही है। माना जाता है कि 563 ई.पू. वैशाख पूर्णिमा के ही दिन लुम्बनी वन में शाल के दो वृक्षों के बीच गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने वैशाख पूर्णिमा को ही बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त किया था। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को सबसे पवित्र दिन माना गया है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम उनका गोत्र था, किन्तु कालांतर में वह सिद्धार्थ गौतम, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, तथागत आदि विभिन्न नामों से जाने गए। बचपन से ही राजकुमार सिद्धार्थ घंटों एकांत में बैठकर ध्यान किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पुत्र जन्म तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया,परन्तु धीरे-धीरे उनका मन सांसारिक सुखों से उचाट होता गया।

सिद्धार्थ मन की शांति पाने के उद्देश्य से एक दिन भ्रमण के लिए अपने सारथी छेदक को साथ लेकर रथ में सवार हो महल से निकल पड़े। रास्ते में उनका मनुष्य की दुःख की चार घटनाओं से साक्षात्कार हुआ। जब उन्होंने दुःख के इन कारणों को जाना तो मोहमाया और ममता का परित्याग कर पूर्ण संन्यासी बन गए। सबसे पहले उन्होंने मार्ग में एक रोगी व्यक्ति को देखा और सारथी से पूछा कि यह प्राणी कौन है और इसकी यह कैसी दशा है। सारथी ने बताया,यह एक मनुष्य है और इस समय यह बीमार है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी रोगी होकर दुःखों का सामना करना ही पड़ता है।

आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ ने मार्ग से गुजरते एक वृद्ध,निर्बल व कृशकाय व्यक्ति और उसके बाद एक मृत व्यक्ति की अर्थी ले जाते विलाप करते लोगों को देखा तो हर बार सारथी से उसके बारे में पूछा। सारथी ने एक-एक कर उन्हें मनुष्य

विशेष

की इन चारों अवस्थाओं के बारे में बताया कि हर व्यक्ति को कभी न कभी बीमार होकर कष्ट झेलने पड़ते हैं। बुढ़ापे में काफी दुःख झेलने पड़ते हैं,उस अवस्था में मनुष्य दुर्बल व कृशकाय होकर चलने-फिरने में भी कठिनाई महसूस करने लगता है और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्थ यह रहस्य जानकर बहुत दुःखी हुए। आगे उन्हें एक साधु नजर आया,जो बिल्कुल शांतचित्त था। साधु को देख सिद्धार्थ के मन को अपार शांति मिली और उन्होंने विचार किया कि साधु जीवन से ही मानव जीवन के इन दुखों से मुक्ति संभव है।

बस फिर क्या था, देखते ही देखते सिद्धार्थ सांसारिक मोहमाया के जाल से बाहर निकल कर पूर्ण वैरागी बन गए और एक दिन रात्रि के समय पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को गहरी नींद में सोता छोड़ उन्होंने घर-परिवार और राजसी सुखों का परित्याग कर दिया तथा सत्य एवं ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। उन्होंने छह वर्षों तक जंगलों में कठिन तप किया और सूखकर कांटा हो गए, किन्तु ज्ञान की प्राप्ति न हो सकी। उसके बाद उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक शक्ति प्राप्त की और बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गहन चिंतन में लीन हो गए। मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस बार ज्ञान प्राप्त किए बिना वे यहां से नहीं उठेंगे।

सात सप्ताह के गहन चिंतन-मनन के बाद वैशाख मास की पूर्णिमा को 528 ई.पू. सूर्योदय से कुछ पहले उनकी बोधदृष्टि जागृत हो गई और उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा मंडल दिखाई देने लगा। उनके पांच शिष्यों ने जब यह अनुपम दृश्य देखा तो उन्होंने ही राजकुमार सिद्धार्थ को पहली बार तथागत कहकर संबोधित किया। तथागत यानी सत्य के ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति करने वाला। पीपल के जिस वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया,वह वृक्ष बोधिवृक्ष कहलाया और वह स्थान, जहां उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया, बोधगया के नाम से विख्यात हुआ तथा बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद ही सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध कहा गया। महात्मा बुद्ध मन की साधना को ही सबसे बड़ी साधना मानते थे। अपने 80 वर्षीय जीवनकाल के अंतिम 45 वर्षों में उन्होंने दुनिया भर में घूम-घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लोगों को उपदेश दिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

बच्चों ने मां की ममता को कूची से उकेरा

मदर्स डे पर बच्चों ने कूची से उकेरी माँ की ममता

कला

'मदर्स डे' के मौके पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की प्रदेश महिला इकाई, झारखंड की ओर से बी.एस.पी. हाई स्कूल, सेक्टर 2, धुर्वा, रांची में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश कुमार एवं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉ सी. बी. सहाय बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों ने अपने बचपन की यादें साझा की। उन्होंने कहा की न सिर्फ एक दिन बल्कि हर दिन माँ का दिन है। प्रतियोगिता के विजेताओं में 'ग्रुप ए' में अयांश कुमार को पहला, तरुण उराँव को दूसरा व अहनजीत चंद्रा को तीसरा पुरस्कार मिला। 'ग्रुप बी' में स्पर्धा कुशवाहा को पहला, अवनया को दूसरा व रणवीर चौधरी को तीसरा स्थान मिला।

इसी प्रकार 'ग्रुप सी' में श्रेया कुमारी को पहला, आहान आरव को दूसरा व आराध्या आनंद को तीसरा स्थान मिला।

महासभा की ओर से सभी प्रतिभागियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष नीतू सिन्हा, प्रदेश महामंत्री उमा सिन्हा, प्लेनेट आर्ट कि कावेरी सिन्हा, निर्मला कर्ण, मनीषा सहाय, शिखा प्रिया, सत्या सिन्हा, रंगोली सिन्हा, रजनी बक्शी, रेणुबाला धर, सीमा श्रीवास्तव आदि ने भूमिका निभाई। इस अवसर पर कायस्थ महासभा के संदीप रंजन, विशाल सहाय, रवि कुमार सिंह, दीपक मलिक, राजेश सिन्हा आदि उपस्थित थे।

कार्टून वर्ल्ड

स्पीड न्यूज

परवरिश स्कूल में मना मदर्स डे

कुजू। परवरिश एडुकेयर स्कूल में धूमधाम से मना मदर्स डे। नर्सरी से लेकर वर्ग 9वीं तक के बच्चों के लिए चित्रांकन कार्ड प्रतियोगिता हुआ। कक्षा एक से लेकर चार के छात्रों ने मां के लिए कार्ड बनाया और कक्षा पांच से लेकर नौ तक के बच्चों ने पोस्टर बनाया। प्रबंधन ने बच्चों को सम्मानित किया। विद्यालय के निदेशक शैलेंद्र कुमार व प्रबंध निदेशक विकास कुमार सिंह ने कहा कि मां ही हमारी पहली शिक्षक, दोस्त और सबसे बड़ा शुभचिंतक है। वे हमारी हर मुस्कान के पीछे रहकर हर आंसू को चुपचाप अपनी ममता से पोंछ देती है। मदर्स डे ही एक ऐसा दिन जो पूरी तरह से मां को समर्पित है। लेकिन क्या एक दिन मां के लिए काफी है शायद नहीं मां के लिए तो हर दिन हर पल समर्पित होनी चाहिए। मौके पर शिक्षक कंचन प्रसाद, रजनी कुमारी, शानू साव, नंदनी झा, अर्चना कुमारी, संगीता कुमारी, आकांक्षा मिश्रा, अंजलि ओझा, प्रियंका यादव, शांति कुमारी, पूजा कुमारी,पूजा सिंह, चंचला सिंह, हर्षिता गुप्ता, नीति सोनी उपस्थित थे।

अपराधी के घर चिपका इस्तेहार

भुरकुंडा (रामगढ़)। भुरकुंडा पुलिस ने कैमरामैन अपहरण मामले में अपराधी के घर शनिवार को इस्तेहार चिपकाया। भुरकुंडा थाना के एसआई अविनाश कुमार ने बताया कि अपराधी आरिज आलम, पिता मुस्ताक अंसारी, ग्राम- हुवाग बलसागरा, थाना मांडू, जिला हजारीबाग, वर्तमान पता तोपा कोलियरी थाना मांडू (कुज्जू) जिला-रामगढ़ के वर्तमान पता पर ढोल एवं नगाड़ा बजाकर अभियुक्त के घर के मुख्य दरवाजा पर न्यायालय द्वारा निर्गत इस्तेहार को चिपकाया गया। ज्ञात हो कि भुरकुंडा टिपला साइडिंग निवासी सरिता देवी ने थाना मे शिकायत दर्ज कराया था कि उनके पति विक्की साव और स्टाफ सानू कुमार राणा उम्र 18 पिता जगदीश राणा जवाहरनगर भुरकुंडा निवासी दोनों पिछले 13 अगस्त की सुबह 6 बजे घर से शादी का रिकॉर्डिंग करने की बात कहकर कैमरा साथ लेकर घर से निकले थे। परंतु दोनों घर वापस नहीं आये और दोनों का मोबाइल बंद है।

भुरकुंडा में बंद मकान से चोरी

भुरकुंडा (रामगढ़)। पुराना थाना कॉलोनी में शुक्रवार रात सेवानिवृत्त सीसीएलकर्मी एमएम झा के आवास (1 सीआर-31) में चोरी हुई। घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने सामने के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। चोरों ने बेडरूम और किचन को खंगालते हुए नगदी और लगभग 30 हजार रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। यह रिवरसाइड क्षेत्र में बंद मकानों को निशाना बनाने की दूसरी घटना है। इससे पहले 2 मई को इसी कॉलोनी में रहने वाले रवि वर्मा के बंद मकान में भी चोरी की घटना हो चुकी है। यहां से चोरों ने नकदी सहित डेढ़ लाख के जेवरात और सामनों की चोरी की थी। इधर भुरकुंडा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

सुबिन ने आजसू से दिया इस्तीफा

रजरप्पा। आजसू पार्टी छात्र नेता सुबिन तिवारी ने निजी कारणों से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। संगठन से मिले अनुभव, पहचान और सम्मान के लिए संगठन के सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, रामगढ़ विधानसभा की पूर्व विधायक सुनीता चौधरी सहित संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। संगठन से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

सांकी में 207 लाभुकों को मिला घर

भुरकुंडा (रामगढ़)। भदानीनगर क्षेत्र के सांकी पंचायत में शनिवार को अबुआ आवास योजना के अंतर्गत लाभुकों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ रामगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी गीतांजली, पतरातु बीडीओ मनोज कुमार गुप्ता, जिला पार्षद जयराम बेदिया एवं पंचायत की मुखिया कोमिला देवी ने किया।सांकी पंचायत के चयनित लाभुकों को अबुआ आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रमाण पत्र एवं किचन सेट उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। 26 पंचायतों में कुल 207 लाभुकों का एक साथ गृह प्रवेश संपन्न हुआ है। मौके पर पंचायत सचिव चंद्रपाल महतो, ईश्वर, रवि रंजन, नीलकमल दास, उर्मिला देवी, आशा देवी, मेघनी देवी, सीमा देवी सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।

सिस्टा ने चलाया सदस्यता अभियान

कुजू। करमा परियोजना का कोल इंडिया एसटी/एससी एम्पलाई एसोसिएशन (सिस्टा) की प्रतिनिधि मंडल संगठन के अध्यक्ष राम प्रसाद बेदिया के नेतृत्व में सदस्यता अभियान को लेकर दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल परियोजना में एसओ ई एंड एम कुजू क्षेत्र परशुराम सिंह , प्रोजेक्ट इंजीनियर कुमार अभिज्ञान , सहायक इंजीनियर रत्नेश कुमार से मुलाकात कर उन्हें बुके प्रदान करते हुए कर्मचारियों की कई समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर एसोसिएशन के सचिव ब्रह्मदेव राम ने बताया कि पुंडी परियोजना, तोपा परियोजना में सिस्टा के सदस्यता चला कर विस्तार किया गया। अब करमा परियोजना में सिस्टा की सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और सभी कर्मचारियों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत कर समाधान का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि मजदूरों की समस्या हमारी समस्या है, इसलिए उनको प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

हजारीबाग में एचडीसीए ऑल इंडिया ओपन फाइड रेटिंग टूर्नामेंट का भव्य आगाज, सांसद बोले

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें खिलाड़ी

खबर मन्त्र संवाददाता

हजारीबाग। हजारीबाग के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। शंकरपुर स्थित एंजेल हाई स्कूल परिसर में तृतीय एचडीसीए ऑल इंडिया ओपन फाइड रेटिंग चेस टूर्नामेंट 2025 का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल ने किया। 11 से 15 मई तक चलने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में 13 राज्यों के 600 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

प्रतिभागियों में चार साल के बच्चों से लेकर 84 वर्षीय वरिष्ठ खिलाड़ी तक शामिल हैं। खेल स्थल पर 300 टेबल लगाए गए हैं, जबकि खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था हजारीबाग पुलिस अकादमी में की गई है। टूर्नामेंट के विजेताओं के लिए कुल 4.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। प्रथम स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को 71,000 रुपये मिलेंगे, जबकि अन्य 34 विजेताओं को भी क्रमशः पुरस्कार राशि दी जाएगी। मनीष जायसवाल ने शतरंज को दिमागी विकास का खेल बताते हुए खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता के डायरेक्टर करण जायसवाल ने कहा कि यह आयोजन हजारीबाग को राष्ट्रीय शतरंज मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में एंजेल हाई स्कूल की निर्देशिका निशा जायसवाल, हजारीबाग चेस संघ के अध्यक्ष विजय सिंह और चीफ आर्बिटर विशाल मिंज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समापन 15 मई को किया जाएगा।

हजारीबाग में विशाल मेगा मार्ट के पास जाम पुलिस के लिए चुनौती

खबर मन्त्र संवाददाता

हजारीबाग। शहर के पुलिस लाइन क्षेत्र में विशाल मेगा मार्ट के पास हर दिन लगने वाला जाम एक नई चुनौती बनता जा रहा है। यह जाम न केवल आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, बल्कि पुलिस के लिए भी मुसीबत का कारण बन सकता है। पुलिस लाइन से शहर के विभिन्न इलाकों में आपातकालीन स्थिति में पुलिस को तुरंत पहुंचना होता है। इस मार्ग से होकर पुलिस की गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं, लेकिन विशाल मेगा मार्ट के पास की भीड़भाड़ और अव्यवस्थित पार्किंग के से यह मार्ग लगातार बाधित रहता है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस क्षेत्र में दिनभर गाड़ियों की लंबी कतारें लगती रहती हैं। विशाल मेगा मार्ट में खरीदारी करने वालों की भीड़ सड़क पर गाड़ियों को अव्यवस्थित तरीके से पार्क कर देती है। इसके अलावा, सड़क किनारे ठेला और गुपचुप वाले भी जाम की स्थिति को और गंभीर बना देते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस क्षेत्र में चोर-उचक्कों और अपराधियों की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को समय रहते इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दिया गया कि विशाल मेगा मार्ट में आने वाले लोगों की गाड़ियों को मेगा मार्ट की पार्किंग में खड़ा करने की सख्त हिदायत दी जाए। सड़क किनारे लगे ठेले और गुपचुप वालों को वहां से हटाने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मेजर देवव्रत कुमार ने बताया कि सीओ और सदर एसडीओ को सूचना दे दिया है। लोग न सुनते है ना समझते है, कार्रवाई की जायेगी।

बरही में बाइक सवार तीन युवक घायल

बरही। जवाहर घाट के पास मोटरसाइकिल सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से तीनों को बरही अनुमंडल अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। तीनों युवक गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के बदुवा गांव के रहने वाले थे। तीनों चौपारण के हजारी धमना गांव आए थे। हजारी धमना से फतेहपुर जाने के दौरान जवाहर घाटी में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों में महेश मांझी हरिओम राजवंशी, घुमने मांझी पता पहाड़पुर गांव बदुवा थाना फतेहपुर का निवासी है।

कराटे में राधा गोविंद विद्यालय के छात्रों का शानदार प्रदर्शन

रामगढ़। रामगढ़ जिला जुडो-कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में पिछले रविवार को दो दिवसीय जिलास्तरीय चैंपियनशिप में राधा गोविंद के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। रांची के खेलगांव स्टेडियम में 9 मई से 11 मई तक झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। इस प्रतियोगिता में राधा गोविंद विद्यालय के पांच कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में राधा गोविंद विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन कर पांच पदक जीतकरविद्यालय का नाम रौशन किया । पदक जीतने वाले विद्यार्थियों में अभिरूप कुमार (रजत पदक), विवेक कुमार (कास्य पदक), अविरल कुमार (कास्य पदक), दीपशिखा पावरिया (रजत पद) का एवं आदित्य मादर्श ने रजत पदक जीतकर विद्यालय का और माता-पिता का नाम रोशन किया । विद्यालय प्रबंधन के चेयरमैन बी. एन. साह एवं प्राचार्य डॉक्टर सुजीत कुमार मोहंती ने बच्चों के प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामना दी।

कुजू के ओपी प्रभारी आशुतोष सिंह से मिला तोपा सेल समिति

कुजू। सीसीएल तोपा कोलियरी लोकल रोड सेल संचालन समिति ने कुजू ओपी में नए ओपी प्रभारी से आशुतोष सिंह से मुलाकात की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने ओपी प्रभारी को बधाई देते हुए बुके देकर स्वागत किया। मुलाकात के दौरान तोपा लोकल रोड सेल में होने वाले विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जिसपर ओपी प्रभारी ने जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया। साथ ही, किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत सूचना देने की बात कही। मिलने वालो में समिति के अध्यक्ष राजेश्वर गंझु, सचिव मो इलियास, उपाध्यक्ष रामभजन लाल महतो,सदस्य ज्योतिंद्र साहू, मो इस्लाम शामिल थे।

बरही में युवती ने किया विषपान

बरही। बरकट्ठा थाना क्षेत्र के गंगपाचोन निवासी छोटी राणा की 20 वर्षीय पुत्री ने घरेलू विवाद में विषपान किया,उसकी हालत बिगड़ने लगी, आसपास और उसके चेहरे भाई के मदद से उसे बरही अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग रेफर कर दिया गया।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक अरेस्ट

भुरकुंडा (रामगढ़)। भारत- पाक तनाव के बीच सोशल मीडिया पर किये गये पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को भुरकुंडा पुलिस ने रामगढ़ एसडीओ कोर्ट निरोधात्मक कार्रवाई के लिये भेज दिया। जानकारी के अनुसार भुरकुंडा के जवाहरनगर पगला आश्रम निवासी साहिल अली ने आठ अप्रैल से सोशल प्लेटफार्म इंस्टाग्राम और फेसबुक में हो रहे एक वायरल पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के विजयी को लेकर लगाए गए एक स्टोरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी देशविरोधी भावना को बढ़ावा देने वाली की थी। जिसे लेकर दुर्गा वाहिनी की अनामिका श्रीवास्तव ने इसकी शिकायत भुरकुंडा थाना में करते हुये कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। मामले की गम्भीरता को देखते हुये भुरकुंडा ओपी प्रभारी निर्भय कुमार गुप्ता ने साहिल अली को हिरासत में ले लिया था।

छाई डैम पर जबरन काम के खिलाफ आक्रोश

खबर मन्त्र संवाददाता

भुरकुंडा (रामगढ़)। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रविवार को ग्राम रसदा महुआ टोला स्थित श्रीश्री महावीर मंदिर प्रांगण में पीवीयूएनएल से प्रभावित ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता लालु महतो और संचालन सुरेश साहू ने किया।

बैठक में शनिवार को छाई डैम की जमीन पर पीवीयूएनएल प्रबंधन व स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा बलों की मौजूदगी में जबरन कार्य शुरू कराए जाने की कड़ी निंदा की गई। बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने कार्रवाई की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि रामगढ़ उपायुक्त ने विधानसभा में लिखित आश्वासन दिया था कि छाई डैम से विस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान

निकाला जाएगा। इसके बावजूद जबरन कार्य कराना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। विधायक श्री चौधरी ने चेतावनी दी कि जब तक मुआवजा, नौकरी एवं पुनर्वास सुनिश्चित नहीं होता तब तक किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। मोर्चा के अध्यक्ष आदित्य नारायण प्रसाद साहू ने चार गांव बलकुदरा, रसदा, जयनगर और गेगदा की जमीन पर बिना उचित मुआवजा के निर्माण कार्यों को गैरकानूनी बताया। उन्होंने मांग की कि या तो मुआवजा व रोजगार दिया जाए या ऐश डायक का निर्माण अन्यत्र किया जाए। बैठक में बलकुदरा पंचायत के मुखिया विजय मुंडा, राजाराम प्रसाद, प्रदीप महतो, अब्दुल कयूम अंसारी, अलीम अंसारी,

विधायक रोशन लाल चौधरी ने किया प्रदर्शन का समर्थन

मनु मुंडा, कपिल मुंडा, सुभाष साहू, मैनेजर साहू, नागेश्वर महतो, रोहित साव, नागेश्वर साव, सुनील कुमार, कृष्णदेव प्रसाद, किशोर ठाकुर, मुकेश कुमार, बबलू यादव, अर्जुन सिंह, प्रदीप साव, सनोज कुमार, विनोद ठाकुर, भरत साव, राजेंद्र साव, बालचंद साहू, संदीप प्रसाद, अजय कुमार, गुड्डू ठाकुर, आशीष कुमार, अमित कुमार, प्रवीण कुमार, त्रिलोकी साव, भुनेश्वर करमाली, रामदास, पवन कुमार, विकास यादव, कपिल कुमार, संदीप कुमार, रॉकी मुंडा, प्रेम मुंडा, राजेश महतो, असलम इकबाल, रमीज इकबाल, रिंकू देवी, कौशल्या देवी, चिंता देवी, बिल्ली देवी, गुंजा देवी, सीमा देवी, इंदू देवी, कलावती देवी आदि सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुष शामिल थे।

एक नजर में

शतचंडी महायज्ञ को लेकर भूमि पूजन 13 को

बरही। गोरिया करमा पंचायत के गोरिया गांव में 29 मई से लेकर 6 जून तक चलने वाले श्री श्री 1008 शतचंडी महायज्ञ को लेकर रविवार सुबह मंदिर परिसर में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पूर्व मुखिया मनोज कुमार व संचालन प्रकाश पंडित ने किया। बैठक में गोरिया, धोबियाटांड़ निचितपुर रोहनियाटांड़ एवं बिचकिला के ग्रामीण शामिल हुए ।29 मई से शुरू वाले महयज्ञ को लेकर 13 मई को भूमि पूजन एवं ध्वजारोहण के साथ शुरूआत होगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि महायज्ञ को सफल बनाने के लिए सभी ग्रामीण काफी उत्साहित हैं और मेहनत के साथ सभी आपस में समन्वय स्थापित कर यज्ञ की तैयारी में लगे हैं। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में तय हुआ कि आज से लेकर 6 जून यज्ञ समाप्ति तक कोई भी ग्रामीण मांश मदिरा का सेवन व बिक्री नहीं करेंगे पकड़े जाने पर दंडित किया जाएगा। ।पूरे ग्रामीण शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे। बैठक में यज्ञ समिति के अध्यक्ष पूर्व मुखिया मनोज कुमार, सचिव रामचंद्र विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष प्रकाश पंडित, उपाध्यक्ष विनोद यादव, उपसचिव मनोज विश्वकर्मा, उपकोषाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा, संरक्षक डॉक्टर विशेश्वर कुमार एवं उपसंरक्षक प्रकाश विश्वकर्मा तथा निगरानी समिति के सदस्य संजय कुमार वर्मा (उप मुखिया प्रतिनिधि) रवि यादव, बबलू ठाकुर, राजदेव यादव, धनु महतो, कैलाश यादव, विनोद यादव, शिवकुमार राणा सुरेंद्र कुमार, विजय कुमार,धोबियाटांड़ मनोज कुमार वर्मा,भूलन पासवान जितेंद्र रजक,सनोज चंद्रवंशी,ललन चंद्रवंशी, उदय सिंह, निर्भय सिंह, रामकृपाल चंद्रवंशी ,आशीष पासवान, विनोद भुईयां ,सुनील राणा ,सतीश पंडित, राजेश कुमार,करण भुइयां, गुलाब पंडित,कारू कुम्हार ,दिलीप कुमार वर्मा (कॉमेडी) संजय राणा, बंटू, अजय यादव, सनी विश्वकर्मा, परसादी राणा समेत सैकड़ो ग्रामीण उपस्थित थे।

एमएसएमइ के लिए ऊर्जा दक्षता पर कार्यशाला

हजारीबाग। झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (जेरेडा) और 'हरित वृक्ष' संस्था के सहयोग से हजारीबाग के डॉल्फिनो परिसर में लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 60 उद्यमियों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, बचत के उपायों और ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) मॉडल की विस्तृत जानकारी देना था। हजारीबाग चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष नीरज अग्रवाल और सचिव राकेश ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं, संयुक्त सचिव तारिक अहमद और सदस्य विजय कुमार जैन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने ऊर्जा प्रबंधन से जुड़ी नीतियों और प्रोत्साहनों पर अपने विचार साझा किए। तकनीकी सत्र में ऊर्जा विशेषज्ञ जे. के. व्यास और प्रमाणित ऊर्जा लेखापरीक्षक डॉ. चंदन कुमार तिवारी ने ऊर्जा अपव्यय रोकने के उपायों और ईएससीओ मॉडल की कार्यप्रणाली पर जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि यह मॉडल न केवल ऊर्जा लागत घटाने में मददगार है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। प्रतिभागियों ने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी और व्यावहारिक बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रकार की पहल से झारखंड के उद्योग ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे।

प्रेमचंद की साहित्य परकर्णपुरा कॉलेज में सेमिनार

बड़कागांव। कर्णपुरा महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा 'प्रेमचंद की कहानियों एवं उपन्यासों में यथार्थवाद का चित्रण' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य प्रो. कीर्तिनाथ महतो ने की, जबकि संचालन हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. अन्नु कुमारी ने किया। सेमिनार के मुख्य अतिथि पूर्व प्राचार्य प्रो. ज्योति जलधर ने प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का महान उपन्यास सम्राट और कहानीकार बताते हुए उनके सामाजिक सरोकारों पर चर्चा की। प्रभारी प्राचार्य प्रो. कीर्तिनाथ महतो ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का सजीव उदाहरण है। उन्होंने उनकी रचनाओं में छुआछूत, दहेज प्रथा, जातिवाद और गरीबी जैसे मुद्दों के सजीव चित्रण को रेखांकित किया। प्रो. सुरेश महतो ने प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानी 'पंच परमेश्वर' पर विचार रखते हुए कहा कि यह कहानी न्याय, सच्चाई और दोस्ती के गहरे अर्थों को उकेरती है। वहीं, प्रो. फजरुद्दीन अंसारी ने 'सोजे वतन' के संदर्भ में बताया कि यह कहानी संग्रह देशभक्ति से प्रेरित था, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर उसकी प्रतियां जब्त कर ली थीं। प्रो. ललिता कुमारी ने 'कफन' कहानी को समाज में व्याप्त गरीबी और हृदयहीनता का प्रतीक बताते हुए कहा कि प्रेमचंद की कहानियां आम आदमी के संघर्षों को जीवंत रूप में सामने लाती हैं। सेमिनार में प्रो. नरेश कुमार दांगी, प्रो. लालदेव महतो, प्रो. किशोर कुमार दांगी, प्रो. पवन कुमार सहित सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

बरहीः योग शिविर में शामिल हुये नवविवाहित जोड़े

बरही। प्रखंड के रसोईया धमना सार्वजनिक दुर्गा मंदिर परिसर में तीन दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ हुआ ।इस योग शिविर में योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा के युवा भारत केंद्रीय प्रभारी स्वामी कौशलदेव स्वामी विश्वदेव मुख्य रूप से शामिल हुए। स्वामी कौशलदेव ने बताया कि हमें अपने तन मन को ठीक रखने के लिए 24 घंटे में से दो घंटे योग में ध्यान अवश्य लगाएं। स्वामी विश्वदेव महाराज ने कहा कि योग संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है इसके करने से अल्जाइमर, डिमेंशिया, तनाव, डायबिटीज, हार्ट डिजिज, फेटी लिवर, यादि रोगों से आसानी से बचा जा सकता है। उन्होंने योग के गुणों के लाभ के बारे में बारीकी से समझाया। शिविर में एक नवविवाहित जोड़े भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि हमारे दाम्पत्य जीवन की शुरूआत इसी योग शिविर से प्रारंभ होता है जहां मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है। मौके पर भारत स्वाभिमान प्रखंड प्रभारी नरेश कुमार, अजित, योगविस्तारक इंद्रदेव गुप्ता, बहन सुनैना देवी, मंजू देवी, किरण देवी, सुनिता देवी, सुकदेव, राजू साहू, राजेन्द्र, मुनेशसहित कई लोग मौजूद थे।

अनियंत्रित हाइवा ने तीन लोगों को कुचला, एक की मौत, दो गंभीर

- आक्रोशित ग्रामीणों ने हंटरगंज - प्रतापपुर मुख्य पथ 5 घंटे तक किया जाम, उचित मुआवजा और करवाई की मांग की

खबर मन्त्र संवाददाता

हंटरगंज/चतरा। हंटरगंज थाना क्षेत्र हंटरगंज - प्रतापपुर मुख्य पथ पर नवाडीह भीमदहा गांव में शनिवार देर रात्रि एक दर्दनाक हादसा हो गया है। एक तेज रफ्तार हईवा ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, हंटरगंज की ओर से तेज रफ्तार हाइवा चालक ने संतुलित खो बैठा जिससे हाइवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बैठे तीन लोगों को रौंद दिया। मौके पर 1 वृद्ध की मौके मौत हो गई। जबकि एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए वही अनियंत्रित हाइवा ने एक मारुति वैन को टक्कर मारते सीधे एक घर से जा टकराई जिससे घर में सोए लोगों में अफरा -तफरी मच गई हालांकि गमीमत रही की घर के सभी सदस्य बाल बाल बच गए इधर घटना की जानकारी मिलते ही हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार और अंचलाअधिकारी अरुण कुमार मुंडा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली वही शव को कब्जे में लिया और दोनो घायलों को इलाज के लिए हंटरगंज समुदायिक स्वास्थय केन्द्र भेज दिया इधर पुलिस ने तत्परता से ग्रामीणों के चुंगल से ड्राइवर को घर से बाहर निकाला और अपने साथ थाने ले आए। मृतक की पहचान हंटरगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत नवाडीह भीमदाहा गांव के पुन मिस्त्री के 60 वर्षीयपुत्र साधु मिस्त्री वही घायलों की पहचान अरुण शर्मा के 40वर्षीय शिवराणी देवी और छत्तीसगढ़ राज्य निवासी 40 वर्षीय गिरधर भूमिहार के रुप में हुई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक साधू अपने घर के बाहर मुख्य सड़क से 20 कदम दूरी पर अपने चौकी पर बैठा था अचानक अनियंत्रित हाइवा ने सीधे उसे कुचलते हुए पास में बैठे घायल ड्राइवर और मृतक की पुत्र वधु को भी कुचलते हुवे पास में लगे एक कार को टक्कर मार सीधे एक मकान में जा टकराई जिससे उस मकान में रह रहे लोगो में अफरा तफरी मच गई गनीमत रही कि इस हादसे में घर वाले लोग बाल बाल बचे । हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के चतरा भेज दिया वही घायलों को हंटरगंज समुदायिक स्वास्थय केंद्र में भर्ती करवाया और वहां से ग्रामीणों के चुंगल से ड्राइवर को छुड़वाकर थाने ले आई। इधर घटना के बाद सुबह 8 बजे आक्रोशित ग्रामीणों ने हंटरगंज परतापुर मुख्य पथ को जाम कर दिया हालांकि पुलिस ने दोपहर एक बजे ग्रामीणों को समझा बुझा जाम को हटवा दिया है ग्रामीणों की मांग हैं मृतक के परिजनो को उचित मुआवजा और वाहन की गति पर नियंत्रण किया जाए।

खबर एक नजर में

अनियंत्रित कार अंबेडकर प्रतिमा की बाउंड्री से टकराई, एक महिला गंभीर रूप से घायल

गिद्धौर (चतरा)। प्रखंड क्षेत्र के चतरा-चौपारण रोड स्थित पांडेय महुआ चौक के पास रविवार को एक कार अनियंत्रित होकर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की बाउंड्री से टकरा गई। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में चालक समेत कुल पांच लोग सवार थे। हादसे में पहरा गांव निवासी अनूप पाठक की पत्नी प्रभा देवी का हाथ टूट गया। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को निजी टेंपो से चतरा सदर अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया। बताया गया कि सभी लोग इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इसी दौरान पांडेय महुआ चौक के पास अचानक एक बाइक सवार सड़क पर मुड़ गया, जिससे कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार विपरीत दिशा में जाकर अंबेडकर प्रतिमा की बाउंड्री से जा टकराई। हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

नरचाही गांव में देवी मंडप प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिप उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी हुए शामिल

चतरा। मयूरहंड प्रखंड के नरचाही गांव में आयोजित देवी मंडप के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रविवार को जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी ने भाग लिया। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर देवी के समक्ष श्रद्धा अर्पित की और मंडप में माथा टेक कर गांववासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर बिरजू तिवारी ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान केवल आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम नहीं होते, बल्कि समाज में आपसी एकता, भाईचारा और समरसता को भी मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे आयोजनों से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है।समारोह में टुन्नी सिंह, आदित्य सिंह, राजेंद्र सिंह, सुनील सिंह, विवेक सिंह, ललित सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों मौजूद थे।

पूर्व मुखिया सिकंदर साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

डोमचांच (कोडरमा)। ढाब थाना क्षेत्र के गोरियाडीह जंगल में पुलिस टीम पर पथराव करने का आरोपी अभियुक्त व डोमचांच थाना कांड संख्या 27/25 के प्राथमिक अभियुक्त पूर्व मुखिया सिकन्दर साव पिता प्रकाश साव को सपही पारहो से डोमचांच पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विदित हो कि 29 मार्च की रात्रि में ढाब थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोरियाडीह जंगल में अवैध रूप से ग्रीन पत्थर का उत्खनन कर तस्करी करने की सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कारवाई हेतु गये हुए पुलिस वाहन पर अपराधियों के द्वारा पथराव किया गया। इस संबंध में ढाब थाना कांड संख्या 27/25 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इस छापामारी में डोमचांच थाना प्रभारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में छापामारी की गई और अभियुक्त को पकड़कर जेल भेजा गया।

मारुती ओमनी पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल

मरकच्चो (कोडरमा)। थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य पंचायत स्थित बड़ा अखाड़ा में एक मारुती ओमनी के अनियंत्रित होकर पलट जाने से वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल की पहचान 35 वर्षीय विकास यादव पाण्डेयडीह निवासी के रूप में की गयी है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि चालक अत्यधिक शराब पिये हुए था और घनी आबादी वाले क्षेत्र में काफी लापरवाही व तेज गति से वाहन चला रहा था। इस दौरान उसका वाहन सड़क किनारे खड़े बाइक को टक्कर मारते हुए बीच सड़क पर पलट गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर एएसआई एमएम शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घायल चालक को इलाज के लिए समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो ले गए तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया।

लापता नाजमा खातून का 15 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं

मरकच्चो (कोडरमा)। थाना क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी पंचायत भोजपुर निवासी बाबर बादशाह की पत्नी 30 वर्षीय नाजमा खातून अपने एक वर्षीय पुत्र के साथ लगभग 15 दिनों से लापता है। बताते चलें कि नाजमा खातुन थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वहीं परिजनों के द्वारा आस पड़ोस व रिश्तेदारों के यहां काफी खोजबीन की गयी, पर कहीं पता नहीं चल पाया। वहीं घटना को लेकर लापता नाजमा खातून के देवर फिरदौस आलम के द्वारा मरकचो थाना में आवेदन देकर गुमशुदगी का सन्हा भी दर्ज कराया गया है। आवेदन के आलोक में मरकच्चो पुलिस ने कांड संख्या 7/25 दर्ज करते हुए खोजबीन शुरू कर दी है। सामाचार लिखे जाने तक मां-बेटे का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है।

एक खास दिन ही नहीं, बल्कि हर रोज मातृ दिवस मनाने की जरूरत : अन्नपूर्णा देवी

खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोगों को मदर्स डे की बधाई देते हुए कहा कि भले ही आज मातृ दिवस है और आज हम देश की उन तमाम माताओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, जिसके त्याग, बलिदान और समर्पण का इतिहास गवाह है। लेकिन सिर्फ एक खास दिन ही नहीं, बल्कि हर रोज मातृ दिवस मनाने की जरूरत है। कोडरमा में उन्होंने कहा कि मां है तो हम हैं और यह सृष्टि है। हमारी संस्कृति में भी मां का सर्वोच्च स्थान है, लेकिन ऐसी खबरें आती हैं कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ में अपनी माताओं को घर से निकाल दिया हैं, जो सोचनीय है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कुशल निर्देशन में पूरे देश में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा माताओं के कुशल स्वास्थ्य और उन्नत भविष्य के लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मां किसी इंसान की सबसे पहली गुरु होती है। पालन पोषण से लेकर सभ्यता और संस्कृति का बोध एक मां ही कराती है।

दो पक्षों के बीच मारपीट की प्राथमिकी दर्ज

जयनगर (कोडरमा)। थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपचो में दो पक्षों के बीच मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। एक पक्ष से आमिर अंसारी पिता अयूब अंसारी पिपचो निवासी ने थाना में दिये आवेदन में कहा है कि मैं पिपचो चौक पर सीएससी चलाता हूं, आठ मई की शाम मैं और मेरा भाई साहबान अंसारी एवं दो सहायक आजम अंसारी, शाबान अंसारी अपनी दुकान में मौजूद थे। इसी बीच रामकेश यादव, इनका एक भाई मुकेश यादव, प्रवीण यादव, कमलेश यादव, सकलदेव राणा, प्रकाश यादव, कारू राणा सहित 12 से 15 अज्ञात लोग दुकान में घुस गये और शटर बंद कर मारपीट करने लगे, साथ ही दुकान को क्षतिग्रस्त कर गल्ला से मुकेश यादव एवं कमलेश यादव ने नकद तीन लाख 50 हजार निकाल लिया। वहीं दूसरे पक्ष से चंपा देवी पति किशुन राणा ने भी आवेदन देकर मारपीट सहित अन्य आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दोनों आवेदनों के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार तीन युवक घायल

चंदवारा (कोडरमा)। थाना क्षेत्र अंतर्गत गजरे गांव में सड़क हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। वहीं घायलों की पहचान ककुरिया थंभाई निवासी 24 वर्षीय प्रदीप यादव पिता सुरेश यादव, 22 वर्षीय रंजीत यादव पिता रघुनाथ यादव और 25 वर्षीय मनीष यादव पिता प्रकाश यादव शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक बरही से एक बाइक से शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे, गजरे गांव के समीप सड़क किनारे ईंट के ढेर में टकरा गये, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गये। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल युवकों को सदर अस्पताल भेजा, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया।

माकपा ने भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच सीजफायर का किया स्वागत

- अमेरीका की मध्यस्थता देश कभी स्वीकार नहीं करेगा : संजय पासवान

खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। भारत-पाकिस्तान में तनाव के बीच दोनों देशों के द्वारा सीजफायर की घोषणा का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय पासवान ने स्वागत करते हुए कहा कि युद्धविराम की घोषणा एक अच्छा और स्वागत योग्य कदम है, किन्तु अमेरीका द्वारा इसके लिए की गयी मध्यस्थता की खबर चिंताजनक है। आजादी के बाद से लेकर आज तक चाहे कश्मीर का सवाल हो या पाकिस्तान अथवा किसी भी और देश के साथ सीमा विवाद का प्रश्न भारत की यह नीति रही है कि वह किसी भी तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप या भूमिका को स्वीकार नहीं करेगा। पहलगाम के जघन्य और निंदनीय आतंकी हमले के बाद के घटना विकास में अमेरीका द्वारा चौधरी बनने की कोशिश इस नीति के विपरीत है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस बारे में स्थिति साफ करना चाहिए। भारत की जनता अमेरीकी मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट है। सारे विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर पूरी तरह सरकार का साथ दिया, लेकिन केंद्र सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। आतंकवाद के मुद्दे पर दो बार सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री का अनुपस्थिति रहना, सरकार की गंभीरता को कम करता है। यह गैरजिमेदारी की बात है कि देश पर इतने गंभीर संकट और हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने और देश की अगुआई करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की चुनावी सभा में भाग लेना जरूरी समझा, जबकि दूसरी बैठक में भी शामिल होने की बजाय वे अन्य व्यावसायिक घरानों के समारोहों में शामिल होने में अपनी प्राथमिकता को दर्शाये। यह देश की अखण्डता और एकता के प्रति सारे देशवासियों की भावनाओं का अपमान जैसा है। वहीं सीपीएम नेता ने कहा कि देश की वास्तविक एकता बनाने और मजबूत करने का काम मेहनतकश मजदूर किसान ही कर सकता है।

विधायक मद से निर्मित जलमीनार कई महीनों से बंद, पेयजल संकट गहराया

- भीषण गर्मी में महिलाएं एक किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाती हैं, तब जाकर प्यास बुझा पाती हैं

खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। प्रखंड अंतर्गत गरायडीह गांव के लोग इन दिनों शुद्ध पानी के लिए बेहाल हो रहे हैं। बताते चलें कि गांव में विधायक मद से निर्मित जलमीनार कई महीनों से बंद पड़ी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो सका है। भीषण गर्मी में महिलाएं एक किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाती हैं, तब जाकर प्यास बुझा पाती हैं।

वहीं स्थानीय निवासी अनिता देवी ने कहा कि हम गरीब महिलाओं का दर्द कोई देखने-सुनने वाला नहीं है, चुनाव में बड़े-बड़े वादे किये जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। जल संकट की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने कई बार बीडीओ और उपायुक्त से शिकायत की, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कांग्रेस नेता प्रकाश रजक ने गरायडीह पहुंच कर महिलाओं की व्यथा सुनी और जल संकट को लेकर उपायुक्त को व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी दी, इसके बाद पंचायत सचिव महादेव दास गांव पहुंच कर जांच कर लौट गये, परंतु जलमीनार अब भी बंद पड़ी है।

वहीं ग्रामीणों का कहना है कि विधायक मद से बनी यह जलमीनार वर्षों से गांव की एकमात्र आशा थी, मगर कई महीने पहले यह खराब हो गयी और तब से अब तक कोई सुधार कार्य नहीं हुआ है। गर्मी के मौसम में जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे कई गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है।

पाकिस्तान की हस्ती उजाड़ने में सोफिया और व्योमिका जैसी बेटियां ही काफी : परवेज खान

खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को यह महसूस करा दिया कि यदि तुम हमारे देश की ओर बुरी नजर से देखोगे तो वो दिन दूर नहीं जब विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। देश की जांबाज सेनाओं की सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसी भारत मां की बेटियां ही तुम्हारी हस्ती उजाड़ने की ताकत और हिम्मत रखती हैं। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान को आज पता चल गया होगा कि देश की एकता को खंडित नहीं किया जा सकता, चाहे पाकिस्तान कितनी भी नफरतें फैलाने की कोशिश कर ले। पाकिस्तान (आतंकिस्तान) द्वारा किये गए कायराना हमले का एक-एक हिसाब हमारी भारतीय सेना ले रही है। यह नया भारत है, जो विश्व पटल पर उभरा हुआ है, जिसके पास सैन्य शक्ति है। आज भले ही युद्ध विराम लग गया, लेकिन एक अफसोस फिर से रह गया कि, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आतंकियों को पनाह देता है, वो आज भी विश्व के नक्शे पर है। सोंचा कि फिर से इंदिरा गांधी की तरह इस बार भी भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ कि अब यदि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों से भारत को नुकसान पंहुचायेगा तो भारतीय सेना हमेशा तैयार बैठी है।

ग्रिजली पब्लिक स्कूल में मदर्स डे हर्षोल्लास से मनाया गया

- छोटे-छोटे बच्चों की भावपूर्ण प्रस्तुति ने हर किसी को भाव-विभोर कर दिया

खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। ग्रिजली पब्लिक स्कूल के जूनियर विंग ग्रिजली किड्स में शनिवार को मदर्स-डे बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर स्कूल में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिसमें कक्षा 3 के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे पूरे विद्यालय में उत्साह का माहौल बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत स्टोरी टेलिंग से हुई, जिसमें छात्र रहमत ने अपनी रचनात्मक और भावनात्मक प्रस्तुतिकरण से सबका ध्यान आकर्षित किया। राइम्स में स्वर्णा और सोनाक्षी ने अपनी खूबसूरत प्रस्तुति दी, जिसमें मातृत्व की भावना को अभिव्यक्त किया गया। उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति ने हर किसी को भाव-विभोर कर दिया। स्कीट में निखिल, तन्वी, यश, इशान, वाणी और अराध्या ने उम्दा अभिनय किया। स्कीट की थीम वैल्यू ऑफ मदर जिसमें माताओं की भूमिका और उनकी निःस्वार्थ सेवा को हास्य और भावुकता के संगम में प्रस्तुत किया गया। उनके उत्कृष्ट अभिनय कौशल ने दर्शकों को हंसाने और भावनात्मक रूप से जोड़ने का कार्य किया। छात्र इशु, अराध्या, हंसिका, सांची, वाणी, शनाया, आयुषी, पविका, तनमय, आरव, ओम और आश्वत ने गाने- जनम जनम तेरे साथ मेरी मां..पर डांस का शानदार प्रदर्शन किया। उनके मनमोहक नृत्य ने पूरे समारोह को जीवंत बना दिया। वहीं बच्चों के लिए कार्ड मेकिंग एक्टिविटी का आयोजन हुआ। जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और सुंदर कार्ड बनाकर मां को गिफ्ट किया। वहीं मदर्स डे के अवसर पर प्री प्राइमरी सेक्शन में एक अनूठी बास्केट बुनाई गतिविधि आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने बच्चों को बास्केट बुनाई की तकनीक सिखाई और उन्हें विभिन्न रंगों और डिजाइनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। वहीं प्राचार्या निरजा ने बच्चों को संबोधित करते हुए मातृत्व के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों की मेहनत की सराहना की और कहा कि माताएं हमारे जीवन की प्रथम गुरु होती हैं, जिनके संस्कार और मार्गदर्शन हमें सफलता की प्रेरणा देते हैं। वहीं मंच का संचालन सात्विक व पियुष ने किया। मौके पर अनिता, पूजा, दिशा, मनीषा, खुशबू, पूनम, दलजीत, सुनिता, जिज्ञासा, शिक्षक फैजान, मुकेश समेत सभी शिक्षकेत्तर कर्मी व छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

मरकच्चो प्रखंड में जंगली हाथियों के झुण्ड से ग्रामीणों में दहशत

खबर मन्त्र संवाददाता

मरकच्चो (कोडरमा)। प्रखंड के बेरहवा जंगल से सटे गांवों में हाथियों के झुण्ड का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेरहवा जंगल में बसेरा बनाये तीन दर्जन हाथियों का झुण्ड जंगल से सटे गांवों में पंहुच कर खेतों में लगी जेठूआ फसलों को बर्बाद करने के साथ साथ बॉउंड्री वाल, झोपड़ीनुमा घर आदि को भी तोड़ रहा है। वहीं शनिवार की रात लगभग आठ बजे हाथियों के झुण्ड ने जामु पंचायत स्थित नादकरी पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। लगभग तीन दर्जन हाथियों के झुण्ड ने मो. आर्फीन व मकबूल अंसारी के घर का बॉउंड्रीवाल तोड़ दिया। वहीं जुबैर अंसारी, शहजाद अंसारी, अनवर अंसारी, सहाबुन खातून, सितारा प्रवीण आदि के खेतों में लगी जेठूआ फसल को भी बर्बाद कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि लगभग आठ बजे हाथियों का झुण्ड गांव पंहुच कर उत्पात मचाना शुरू किया। जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वहीं लगभग ग्यारह बजे वन विभाग की टीम पंहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों को बेरहवा जंगल की ओर खदेड़ा, मगर देर रात हाथियों का झुण्ड पुनः गांव आ पंहुचा और सुबह में वापस जंगल की ओर लौट गया। इस दौरान ग्रामीण रात भर दहशत में रहे। आपको बता दें कि हाथियों का झुण्ड बेरहवा जंगल में अभी भी अपना बसेरा बनाये हुए हैं, जिससे जंगल से सटे गांव के लोगों में भय का माहौल व्याप्त है।

स्पीड न्यूज

मंच की पहल पर प्रिया अग्रवाल ने पहली बार किया रक्तदान

जमशेदपुर। गर्मी के मौसम में ए ग्रुप रक्त की कमी को देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की पहल पर रविवार 11 मई को जमशेदपुर ब्लड सेंटर में सुंदरनगर निवासी प्रिया अग्रवाल ने पहली बार रक्त दानकर मंच के सदस्य के रिश्तेदार को रक्त उपलब्ध कराया। यह जानकारी मंच के रक्तदान संयोजक अनंत अग्रवाल ने दी। मंच प्रिया के इस नेक कार्य के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।

वृद्धा आश्रम की माताओं से सुरभि शाखा की टीम को मिला आशीर्वाद

जमशेदपुर। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए मातृ दिवस पर रविवार को बाराद्वारी स्थित आशीर्वाद वृद्धा आश्रम में रहनेवालों के साथ केक कटिंग कर मनाया। साथ ही एक जरूरतमंद माता को व्हीलचेयर दिया गया। सभी माताओं ने सुरभि सभी शाखा की टीम को भरपूर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष ज्योति अग्रवाल, सचिव पायल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूजा अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष उषा चौधरी, खुशबू कांवटिया, पूजा अग्रवाल आदि उपस्थित थी।

पलायन की भेंट चढ़ा होसिर का एक व्यक्ति, गांव पहुंचा शव

बेरमो/ ललपनिया। गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत होसिर तेतरिया टांड़ निवासी विजय करमाली (49 वर्षीय)पलायन का भेंट चढ़ गया।मृतक विजय करमाली जो स्व लालधारी करमाली का पुत्र था। शनिवार शाम को उड़ीसा में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक का शव रविवार अहले सुबह घर पहुंचते ही परिजनों की चीत्कार से सभी का आंख नम हो गई। मृतक विजय करमाली के एक पुत्र व तीन पुत्री है जिसमें एक पुत्री कि शादी हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय करमाली अपनी रोजी रोटी केलिए उड़ीसा राज्य में ऑनर बासुदेव अरु का हाइवा जिसका नम्बर 0ऊ-09ढ1184 चलाता था। रोज की तरह शनिवार को भी हाइवा गाड़ी चला रहे थेकि शाम लगभग 4 बजे उडीसा के कमाकेल ओवरब्रिज एनएच-143चांदी पोस के पास गाड़ी ब्रेक डाउन होने के पश्चात दुर्घटना हो गया। जिसमें चालक विजय करमाली गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक को घायल वस्था मे बेहतर इलाज हेतू रांची लाया ही जा रहा था कि रास्ते मे ही उनकी मौत हो गई तत्पश्चात मृतक का शव तेतरिया टांड़ ग्राम पहुंचा। जहां गोमिया थाना पुलिस द्वारा कागजी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतू अनुमंडलीय अस्पताल तेनुघाट भेज दिया गया.। ततपश्चात मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया।इधर सूचना मिलने पर झारखंड राज्य मंत्री सह गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद ने शौक व्यक्त करते हुए कहा कि इनकी मृत्यु से काफी मर्माहत है। दुःख की इस घड़ी में परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने सहित परिजनों के साथ हर दुःख सुख में साथ खड़ा है। इधर उप मुखिया पति मोहन नायक, समाजसेवी मनोज चंचल, संदीप कुमार समेंत ग्रामीणों ने शौक व्यक्त किया है।

प्रदीप शर्मा अध्यक्ष और सुजीत शर्मा निर्विरोध बने महासचिव

- प्रशासन की निगरानी में जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का चुनाव संपन्न

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का चुनाव आज कुम्हारपाड़ा, न्यू बाराद्वारी स्थित विश्वकर्मा सांस्कृतिक भवन में विधि सम्मत तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।

समाज के सभी सत्यापित सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग कर गुप्त मतदान द्वारा योग्य उम्मीदवारों का चयन किए। अध्यक्ष पद पर प्रदीप शर्मा बहुमत से जीत हासिहल किए । अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रदीप शर्मा को कुल 269 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंदी दिवाकर शर्मा को 60 वोट से ही संतोष करना पड़ा। महासचिव पद पर सुजीत शर्मा को निर्विरोध चुना गया। सुजीत शर्मा लगातार दूसरी बार महासचिव चुने गए हैं। उपाध्यक्ष पद पर दो पदों के लिए क्रमशः जीतेंद्र शर्मा 268 वोट, और संजय शर्मा 186 वोट के साथ विजयी हुए जबकि हारे उम्मीदवार जिउत शर्मा को 163 वोट मिला।

सहायक महामंत्री पद पर राजकुमार शर्मा एवं राकेश शर्मा ने विजयी हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद पर अजीत शर्मा निर्विरोध निर्वाचित किए गए। विश्वकर्मा समाज में कुल 1600 के आस-पास वैध वोटर हैं जिनमें से 400 वोटरों ने भीषण गर्मी के बावजूद मताधिकार का प्रयोग किया। इस निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन में मुख्य चुनाव पदाधिकारी बृजनंदन प्रसाद, चुनाव पदाधिकारी बिरेंद्र शर्मा, शिव कुमार शर्मा एवं मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक अरूण ठाकुर, चुनाव पर्यवेक्षक उमा शंकर शर्मा, अशोक शर्मा एवं चुनाव कार्यसमिति में गौतम शर्मा, प्रभुदयाल शर्मा, अरूण शर्मा, सरवन शर्मा, अशोक शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, राजकिशोर शर्मा के साथ सभी सक्रिय सदस्यों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। मौके पर एसडीओ धालभूम के द्वारा चुनाव को शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए स्थानीय थाना का सहयोग मुहैया करवाया गया था। सभी मतदाता उम्मीदवारों के साथ पूरे गर्मजोशी के साथ सुबह 10:30 बजे से संध्या 5:00 बजे तक लगे रहे। सभी प्रत्याशियों के सामने मतगणना की गई। और मतगणना के पश्चात जीते हुए प्रत्याशीयों को शपथ दिलाकर कार्यभार सौंपा गया।

साकची पंप हाउस के पास हाइवा ने बाइक को रौंदा, दो सवारों की मौत

- निर्मल नगर और ग्वाला बस्ती सोनारी के निवासी हैं दोनों मृतक
- मुआवजे की मांग पर बस्ती वासियों ने किया मरीनर ड्राइव जाम

खबर मन्त्र ब्यूरो

मृतक सुबेदार प्रसाद की फाइल फोटो, मृतक रोहित सोरेन की फाइल फोटो और घटना के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन करते आक्रोशित लोग।

जमशेदपुर। रविवार को शाम साकची हाथघोड़ा मंदिर के आगे टाटा स्टील वाटर वर्क्स पंप हाउस के पास एक हाइवा वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया। बाइक पर सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। युवकों की पहचान सुबेदार प्रसाद और रोहित सोरेन के रुप में हुई है। मृतक क्रमशः निर्मल नगर सोनारी और ग्वाला बस्ती सोनारी के थे। बस्तीवासियों ने युवकों की मौत की खबर सुनते ही साई मंदिर मेरिन ड्राइव गोलचक्कर को जाम कर दिया। प्रशासन से वे दुर्घटना में मृत युवकों के पारिवार को मुआवजा देने और धक्का मारने वाले वाहन के चालक को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। बाद में सोनारी पुलिस ने बस्ती वासियों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया। बस्तीवासियों का कहना था कि बाइक सुबेदार प्रसाद ही चला रहे थे। वे दोनों हेलमेट पहन कर ही बाइक पर चल रहे थे। सुबेदार प्रसाद हमेशा 20-30 की स्पीड से ही चलते थे। वे दोनों नशे से दूर थे।

एक नजर में

श्री अरविंदो सोसाइटी, जमशेदपुर द्वारा एक परिवर्तनकारी समर कैंप

जमशेदपुर। श्री अरविंदो सोसाइटी, जमशेदपुर केंद्र द्वारा तुलसी भवन में एक दिवसीय समर कैंप चरित्र निर्माण : ब्लूमिंग बड्स का सफल आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य बच्चों में भावनात्मक संतुलन, रचनात्मकता और मूल्यों का विकास करना था। मुख्य अतिथि डा.एस. एन.त्रिवेदी, अध्यक्ष, झारखंड राज्य समिति ने आयोजकों की सराहना करते हुए बाल्यावस्था में चरित्र निर्माण के महत्व पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि श्री के.प्रभाकर राव, उपाध्यक्ष, जमशेदपुर केंद्र एवं अध्यक्ष, नेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन ने खेलों को आंतरिक शक्ति और अनुशासन के विकास में महत्वपूर्ण बताया। सामाजिक कार्यकर्ता पुरबी घोष ने इस पहल को बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए समयानुकूल बताया। श्री अरविंदो और द मदर की शिक्षाओं से प्रेरित इस शिविर में लाइफ जर्नलिंग, डिजिटल डिटक्स डाइट, तिब्बती सिंगिंग बाउल मेडिटेशन, योग, मंडला आर्ट, म्यूजिक थेरेपी और रोल-प्ले सिमुलेशन जैसी रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटना सिखाया गया। इस आयोजन का नेतृत्व युवा समन्वयक अदिति राय मुखर्जी ने किया, जिन्हें रचना टंडन, डा. मीनाक्षी मधुरिया और प्रणब नाहा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। युवा नेताओं राजवीर सिंह भाटिया, स्वास्तिका टंडन और अकांश वर्मा ने बच्चों को आत्म-अन्वेषण की दिशा में प्रेरित किया। छात्राओं शनाया और ग्रिवा ने खुशी जताते हुए कहा, यह बहुत मजेदार और शांति देने वाला अनुभव था। आयोजन टीम के सदस्य सुबीर दास, चौताली सत्पथी, अमित कुमार रय और सुभ्रता कुंडू ने भविष्य में भी ऐसे समग्र विकास के प्रयासों को जारी रखने का संकल्प लिया।

अस्पताल से घर लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना में युवक की मौत

खबर मन्त्र ब्यूरो

चांडिल। थाना क्षेत्र के कपाली ओपी अंतर्गत दोमुहानी -कांदरबेड़ा मुख्य सड़क पर रुगड़ी स्थित गोल्डी होटल के समीप शनिवार को एक 407 वैन ने पल्सर बाईक को टक्कर मार दिया। जिसमें बाईक सवार युवक चांडिल के दालग्राम निवासी नरेश सरदार (23) गम्भीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को ईलाज के लिए एमजीएम जमशेदपुर भेजवाया। जहां डक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कपाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक नरेश सरदार पथरी के उपचार हेतु बिस्टुपुर स्थित स्टील सिटी अस्पताल में भर्ती बड़े भाई संतोष सिंह सरदार को देखने गया था। वहीं से लौटने के क्रम में डोबो मुख्य सड़क पर दोपहर करीब 3 बजे रुगड़ी के समीप तीखा मोड़ पर बाईक पर सवार युवक एक 407 वैन (जेएच05बीई 6834) के चपेट में आ गया।

बंगाल की महिला छऊ नृत्य का प्रदर्शन होगा आकर्षक

- पुराना सोनारी बस्ती में छऊ नृत्य 17 को, शिक्षा मंत्री, सांसद सहित जुटेंगे कई गणमान्य

खबर मन्त्र ब्यूरो

बैठक में जुटे कमेटी से जुड़े लोग।

जमशेदपुर। पुराना सोनारी विकास समिति के सदस्यों की बैठक आज सोनारी कार्यालय में अध्यक्ष धनंजय महतो की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान आगामी 17 मार्च (शनिवार) को विकास समिति के मैदान (कारमेल स्कूल के पीछे) होनेवाले छऊ नृत्य को सफल बनाने पर चर्चा की गयी।

धनंजय महतो ने बताया कि छऊ नृत्य की शुरूआत रात्रि 10 बजे से होगी। इसके पूर्व रात्रि 9 ।30 बजे शहीद निर्मल महतो, पूर्व सांसद स्व सुनील महतो तथा राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्व सुधीर महतो को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, सांसद विद्युत महतो, विधायक सबिता महतो, पूर्व सांसद शैलेन्द्र महतो, 20 सूत्री समिति के जिला उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार, झारखंड आंदोलनकारी आस्तिक महतो, फणिंद्र महतो, बबलू महतो, सुखदेव महतो आदि शामिल होंगे। श्री महतो ने बताया कि छऊ नृत्य का आकर्षण पश्चिम बंगाल के पुरुलिया बंदवान की महिला छऊ नृत्य टीम (उस्ताद संजय छऊ नाच) व सरायकेला खरसावां के नीमडीम की छऊ नृत्य टीम (उस्ताद चंडीचरण महतो) की प्रस्तुति होगी। बैठक में काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। आयोजन को लेकर एक कमिटी का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष धनंजय महतो के अलावा संयोजक अशोक सिंह, उपाध्यक्ष रामू महतो, स्वपन महतो बनाये गये हैं।

अपनी जमीन पर पीएम आवास बनाना क्या अपराध है : युनूस

बेरमो /गोमिया। विधानसभा के अइय्यर गांव एक जमीनी विवाद का मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक पक्ष के लोग बोकारो एससी एसटी थाना मामला दर्ज करवाने व न्याय दिलाने की मांग को लेकर पहुचा और दुसरे पक्ष पर जबरन जमीन हड़पने, मारपीट करने आदि आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। इधर दुसरे पक्ष से आज परिवार के मुखिया मो युनूस अंसारी तथा उनका दो भतीजा तफजुल अंसारी और तनवीर मिडिया के सामने आकर जमीन विवाद से पुरा पर्दा ही हटा दिया। उक्त लोगों ने मिडिया को बताया कि जो परिवार आठ पिढ़ी से यहां निवास करता हो आज बहरी बताया कर मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। रैयत यूनुस ने बताया कि दरअसल वे लोग ललपनिया थर्मल पावर प्लांट के विस्थापित लोग है। यहां से विस्थापन के बाद लगभग 9 एकड़ भूमि भूदान योजना के तहत विस्थापितों को इस क्षेत्र में दिया गया था। उसी का यह एक टुकड़ा है जिसे आदिवासी पक्ष के लोग अपना बता रहे हैं और आवास बनाने से जबरन रोका जा रहा। हथियारों से लैस होकर कार्य स्थल पर आते हैं गाली गलोज, मारपीट करते हैं। बताया गया कि इस जमीन का खाता संख्या 57 प्लांट संख्या 236 तथा रकबा 54 डिसमिल है। बताया गया कि यहां पीएम आवास योजना के तहत आवास का निर्माण होना है मगर जब भी निर्माण कार्य शुरू किया जाता है वे लोग यहां पहुच हंगामा करने के साथ साथ मारपीट और दिवारों को गिरा देते हैं। कहा इन लोगों के द्वारा पुर्व मे भी गोमिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर काम रोक दिया था मगर नापी के बाद साफ हुआ कि उन लोगों की जमीन आवास निर्माण स्थल से काफी दुर पर है मगर जबरन बल पुर्वक काम रोक दिया जाता है। युनूस और उनके परिजनों के अनुसार बीते दिनों भी कुछ इसी तरह की घटना घटी कार्य स्थल पर एकाएक दर्जनों लोगो के साथ वे लोग धमक गये और मारपीट शुरू कर दी जिसमे तफजुल और मुनेजा खातुन बुरी तरह घायल हो गया जिसका लिखित आवेदन हमने ललपनिया थाना को दिया है। बताया कि यह भुमि भूदान योजना के तहत उनके पुरवजो को मिला था। वे लोग आठ पिढ़ीयो से यहां निवास कर रहे हैं और उन्हें बहरी और नामालूम क्या क्या बताया जा रहा है। उन लोगों ने बताया कि हमारे पास जमीन के सारे कागजात है और इसी आधार पर हमे पीएम आवास योजना का लाभ मिला है मगर यह परिवार अपनी दबंगई के दम पर यह गैरकानूनी काम कर रहे है और फर्जी मामला बनाकर हम लोगो को फंसाने का काम कर रहे हैं।

सिंहभूम जिला भोजपुरी साहित्य परिषद शीघ्र आयोजित करेगा व्यंग्य सम्मेलन

खबर मन्त्र ब्यूरो

कार्यक्रम की जानकारी देते अध्यक्ष अरविंद विद्रोही व सहयोगी पदाधिकारी।

जमशेदपुर। भोजपुरी भवन गोलमुरी में सिंहभूम जिला भोजपुरी साहित्य परिषद के कार्यकारिणी बैठक अरविंद विद्रोही की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ऐजेंडा अनुसार जिला सम्मेलन, कौशल किशोर सिंह स्मृति पुरस्कार, सदस्यता अभियान, व्यंग्य यात्रा पत्रिका सम्मेलन आदि के आयोजन पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष अरविंद विद्रोही ने बताया कि व्यंग्य सम्मेलन में देश के बड़े व्यंग्यकारों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा सौ साहित्यकार शामिल होंगे। अध्यक्ष अरविन्द विद्रोही ने प्रेम जनमेजय के नेतृत्व में व्यंग्य सम्मेलन कराने को अपनी प्राथमिकता बतलायी और सफलता की कामना की। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भोजपुरी भाषियों के बीच जाकर सदस्यता अभियान को गति दी जाए।

सँस्था के सरंक्षक हरेन्द्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम के खर्च एवं प्रबन्धन से जुड़ी बातें साझा की। कार्यकारी अध्यक्ष मसूद खान ने बताया कि भोजपुरी भवन का विस्तार कार्य अगले डेढ़ माह में पूरा होने की उम्मीद है। तब भवन की सीटिंग कैपेसिटी डबल हो जायेगी और कार्यक्रम ज्यादा आरामदायक माहौल में हो सकेगा।

मायुमं टाटानगर अचीवर्स शाखा का स्वास्थ्य शिविर आयोजित

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। मारवाड़ी युवा मंच टाटानगर अचीवर्स शाखा द्वारा रविवार को दो महत्वपूर्ण सामुदायिक कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिनका उद्देश्य सेवा, देखभाल और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देना था। सुबह में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कदमा-सोनारी लिंक रोड, फिटनेस जोन के समीप किया गया। यह शिविर ड.मुकेश पटवारी और चार टेक्नीशियन की देखरेख में संपन्न हुआ। जिसमें 70 लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराकर लाभ उठाया। शिविर में वजन, रक्तचाप और ब्लड शुगर की जांच की गई। दूसरा कार्यक्रम मातृ दिवस के अवसर पर आशीर्वाद वृद्धाश्रम, बाराद्वारी में एक भावनात्मक समारोह का आयोजन किया गया। वृद्ध माताओं को साड़ी समेत अन्य वृद्धजनों के बीच फल और शीतल शरबत का वितरण कर चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया।

मारवाड़ी युवा मंच ने तीन स्थानों पर पनशाला और गायों के लिए दस स्थानों पर नाद लगाया



बेरमो कार्यालय, फुसरो (बेरमो)। मारवाड़ी युवा मंच बेरमो शाखा के द्वारा प्रचंड गर्मी को देखते हुए खुसरो बाजार में तीन स्थानों पर अस्थाई अमृत धारा (पनशाला) का उद्घाटन किया गया। साथ ही जीव दया हेतु अलग-अलग स्थान पर 10 नाद लगाए गए। इससे सड़क पर विचरण कर रहे गाय उसमें पानी पी सके। मंच के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल तथा सचिव अरुण अग्रवाल ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच बेरमो शाखा समाज हित में हमेशा कार्य करता है। इसी के तहत प्रचंड गर्मी को देखते हुए फुसरो बाजार में तीन स्थान पर निशुल्क अमृतधारा का उद्घाटन किया गया है। जहां पूरे गर्मी शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्था रहेगी। इससे राहगीर इस भीषण गर्मी मे अपनी प्यास बुझा सकेंगे। कहा कि इसके अलावा सड़क पर विचरण कर रहे हैं गायों के लिए 10 जगह नाद की व्यवस्था की गई है। इससे सड़क पर विचरण करने वाले गाय इस नाद मे रखे पानी के माध्यम से अपनी प्यास बुझा सकते हैं।

भजनों की अमृत गंगा में गोता लगा श्याम भक्तों ने किया बाबा का गुणगान

- भालुबासा हरिजन स्कुल मैदान में सजा बाबा श्याम का दरबार
- अखंड ज्योति पाठ में शामिल हुई 501 महिलाएं

खबर मन्त्र ब्यूरो

अखंड पाठ करती महिलाएं।

जमशेदपुर। शहर की धार्मिक संस्था श्री श्याम भक्त मंडल भालुबासा द्वारा रविवार को धुमधाम से भव्य श्याम महोत्सव भालुबासा स्थित हरिजन स्कुल मैदान में मनाया गया। बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया, जिसमें कच्चे फूलों से बाबा श्याम का अदभुत, अलौकिक श्रृंगार किया गया था। विशेष कारीगरों द्वारा श्रृंगार में विदेशी फूलों का भी उपयोग किया गया। रविवार की सुबह 08 बजे से श्याम अखंड ज्योति पाठ और रात 0830 बजे से भजनों की अमृत वर्षा (संकीर्त्तन) हुई। सामूहिक शामिल हुई। जोशी पंडित की देखरेख में 5 पंडितों द्वारा विधिवत पूजा की गई। इसके बाद सभी भक्तों ने मिलकर बाबा की ज्योत ली। सभी भक्तों को रक्षा सूत्र बांध गया। यजमान राजेश खंडेलवाल, बसंत अग्रवाल, नीरज चौधरी, राजेश अग्रवाल, कैलाश छावछरिया ने सपत्नी पूजा की। इस महोत्सव में बतौर अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक पूर्णिमा साहू, समाजसेविका सुधा गुप्ता, भाजपा नेता सुधांशु ओझा, योगेश मल्होत्रा शामिल हुए। सभी ने बाबा श्याम के दरबार में हाजरी लगायी और श्याम कथा सहित भजनों का आनन्द लिया। साथ ही बाबा श्याम से देश और झारखंड के विकास की प्रार्थना की।

इस अवसर पर आमंत्रित भजन गायक तुषार चौधरी (कोलकाता), अभिषेक सिंघल (धनबाद), वेद प्रकाश उपाध्याय (टाटानगर), महावीर अग्रवाल (टाटानगर) और सुमित्रा बनर्जी (टाटानगर) ने शानदार प्रस्तुति के दौरान भजनों की अमृत गंगा बहाई गई, जिसमें श्याम भक्त गोता लगाते हुए बाबा का गुणगान करते रहे।

स्पीड न्यूज

पीड़ित के घर पहुंचे पांकी विधायक

नीलांबर पीतांबरपुर। पांकी विधायक डॉ कुशवाहा शशिभूषण मेहता विस क्षेत्र के प्रखंड नीलांबर-पितांबरपुर के ग्राम गोराडीह पहुंचे। विधायक ने गोराडीह के सुरेन्द्र शर्मा की पत्नी के असामयिक निधन की सूचना मिलने पर पीड़ित परिवार के घर गये थे। मृतका अपने पीछे पति व एक 11 वर्षीय पुत्र छोड़ गयी हैं। विधायक ने गहरा शोक व्यक्त किया तथा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मौके पर प्रमुख सुनील पासवान, देवराज शर्मा, डोमन शर्मा, साधु मांझी, विजय विश्वकर्मा, राति देवी, सुधीर तिवारी व कई लोग मौजूद थे।

खतरनाक : नीचे लटके हैं कई पोल के तार

पाटन पलामू। बिजली विभाग की लापरवाही से रविवार को सुबह बड़ी घटना होने से टल गयी। राजहरा पंचायत के पांडेयपुर गांव होते मेन सड़क से गुजर रहा बाराती बस बिजली तार की चपेट में आ गया। ड्राइवर और खलासी ने तार को खंभे से ऊपर उठाकर बस पार किया गया। बस में यात्री मौजूद थे। बिजली विभाग के लापरवाह कर्मी रोड पर लूज तार छोड़ दिये थे। ग्रामीणों के कहने पर भी तार को नहीं खोला गया, न ही तार को टाइट किया गया। बिजली विभाग के कर्मी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे तैसे तार, पोल लगाकर छोड़ देते हैं जिससे आये दिन बड़ी दुर्घटना घट सकती है।

कामनापूर्ति शिवशक्ति धाम का मना वार्षिकोत्सव, भंडारे का भी आयोजन

मेदिनीनगर। रेडमा पांकी रोड में कामनापूर्ति शिवशक्ति धाम का 8वां वार्षिकोत्सव मंदिर कमेटी और प्रबुद्ध लोगों ने किया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ललन तिवारी ने बताया कि हरवर्ष की भांति इसवर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ धाम में पंडित बिनय पांडेय के नेतृत्व में यजमान मुनि तिवारी सपत्नीक और सुनील तिवारी ने रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की और संध्याकाल में भंडारा किया गया। मंदिर में महाकाल मंदिर की तर्ज पर भगवान भोलेनाथ का सिंगार प्रभात मिश्रा के परिवार करवाता है। लगातार आठ वर्ष हर शनिवार शाम 5 बजे से सुंदर कांड का पाठ उमाशंकर पांडेय अधिवक्ता और उनकी टीम करती है जो अनवरत चालू है। साथ ही प्रत्येक सोमवार को मंदिर कमेटी रुद्राभिषेक करवाती है। मंदिर की महिमा लगातार बढ़ती जा रही है। कार्यक्रम को सफल बनाने में रघुनंदन प्रसाद, अजय शुक्ला, बीरन तिवारी, मुकेश तिवारी, सुशील तिवारी, प्रेमशंकर दुबे, रिंकू ओझा, बीजू मिश्रा, रघुनाथ गुप्ता, प्रभाकर तिवारी, अनिल तिवारी, पिंकू तिवारी दिलीप दुबे, दिलीप कुमार, किशोर दुबे, प्रभात रंजन दुबे, नवीन पांडेय, अशोक तिवारी, कामेश ओझा सहित काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

किसान संघ ने बनायी उन्नति की रणनीति

पाटन पलामू। प्रखंड के महुलिया स्थित शिव मंदिर प्रांगण में किसान संघ की बैठक हुई। अध्यक्षता जितेंद्र सिंह ने की। बैठक में किसान देश की उन्नति में किस प्रकार अपने योगदान को बढ़ायें विषय पर विचार विमर्श किया गया। कहा गया कि सरकार किसानों के हित में कार्य नहीं करते हैं तो किसान एकजुट होकर कार्य करेंगे। ऐसा करने पर सरकार किसानों के फसलों का उचित मूल्य समय पर देगी। साथ ही उन्हें खेती करने के सभी सुविधा प्रदान करेगी। किसानों को उनकी धान का पैसा सरकार भुगतान नहीं किया है। ऐसे में किसान चिंतित हैं। बैठक में विनय पांडेय, रामाशीष सिंह, अरबिंद पांडेय, बसंत पांडेय, गुप्तेश्वर पांडेय, विशुनदेव पांडेय, उमेश, सचिन, नीरज, अशोक, इंदु, विरेंद्र, अवधेश पांडेय, विकास पांडेय, रामाकांत पांडेय, आदित्य पांडेय, रमेश पांडेय भी थे।

इप्टा स्थापना दिवस के कार्यक्रम भारतीय सेना को होंगे समर्पित

मेदिनीनगर। इप्टा की पलामू इकाई ने पहलगाम हमले के विरोध एवं 25 मई को मनाया जाने वाले इप्टा स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर स्थानीय इप्टा कार्यालय में एक बैठक की। जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ रंगकर्मी प्रेम भसीन ने की। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की सूझबूझ एवं सतर्कता की सराहना की गयी। अपील की गयी कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलायें, क्योंकि ऐसा करना देश की एकता और सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। सचिव रविशंकर ने बताया कि यह दिवस 'जैन संस्कृत दिवस' के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के लिए 12 से 24 मई तक प्रतिदिन एक घंटे की नाट्य कार्यशाला होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भारतीय सेना को समर्पित होगा। बैठक का समापन जंग नहीं होने देंगे, एटम नहीं गिरने देंगे... गीत की सामूहिक प्रस्तुति हुई। अंत में इप्टा के तबला वादक एवं रंगकर्मी रंजीत पाठक की भतीजी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश सिंह, शीला श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, विकास कुमार पप्पू, समरेश सिंह, गोविंद प्रसाद, अच्छे लाल प्रजापति, राजीव रंजन, शशि पांडेय, संजीव कुमार संजू, भोला, अजीत कुमार, संजीत कुमार दुबे समेत कई सदस्य उपस्थित थे।

थाना प्रभारी ने किया मारवाड़ी युवा मंच के चलंत पनशाला का उद्घाटन

मेदिनीनगर। मारवाड़ी युवा मंच डालटनगंज शाखा द्वारा रविवार को शहर में हर साल की भाँति इस साल भी अमृतधारा कार्यक्रम के तहत गर्मी के मौसम में चलंत पनशाला खोला गया। मंच इस पनशाला के माध्यम से राहगीरों की प्यास बुझाने का प्रयास करता है। चलंत पनशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि शहर थाना प्रभारी देवब्रत पोद्दार ने फीता काटकर किया। मौके पर चलंत वाहन को रवाना किया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच ने भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल के लिए प्रयास किया, यह सराहनीय है।

ऑक्सफोर्ड में मना दादा-दादी सम्मान सह दीक्षांत समारोह

- विद्यालय के निदेशक डॉ एसबीपी मेहता ने दी शुभकामना
- कार्यक्रम नवीन व पुरातन पीढ़ियों के बीच रखती है समायोजन : शैक्षिक निदेशक सिम्मी मेहता
- तनाव में सुकून व घर की चैन होती है दादा दादी : प्राचार्य डॉ एके सिंह

खबर मन्त्र टोली

कार्यक्रम के मौके पर मंच पर उपस्थित अतिथि, प्राचार्य व अन्य और प्रस्तुति तथा सम्मान पाते स्कूली बच्चे।

मेदिनीनगर। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल ने रविवार को ग्रेजुएशन सेरेमनी (दीक्षांत) सह दादा-दादी सम्मान समारोह मनाया। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की पारंपरिक प्रथानुसार कक्षा प्रेप से प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को गाऊन पहनाकर, पदक तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है।

बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया जाता है। इस समारोह के आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य है - समारोह में बच्चों के साथ आये हुए दादा-दादी, नाना-नानी तथा अभिभावक का सम्मान। इससे यह ज्ञात होता है कि बच्चों के जीवन में दादा-दादी की भी महती भूमिका होती है।

मौके पर ऑक्सफोर्ड ग्रुप के शैक्षिक निर्देशक सिम्मी मेहता, विद्यालय प्राचार्य डॉ एके सिंह एवं दादा-दादी, नाना-नानी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित करके कार्यक्रम आरंभ किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के ग्रैंड पैरेंट्स का अभिवादन व छात्रों को शुभकामना देते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉ एके सिंह ने कहा कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में छठवीं बार इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कहा कि दादा दादी विगत और भावी पीढ़ी के मध्य समायोजन की कड़ी होती है। दादा-दादी तनाव में सुकून और घर की चैन, अनुभव का सार और जीवन की झंकार और कहानी का जरिया और अनुभव का दरिया होती है। यह कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ ही दो पीढ़ियों के बीच सेतु का काम करता है। जो रिश्ता, बिना किसी शर्त के होता है-वह अनंत होता है। उनका अनुभव और नजरिया बच्चों को जीवन की हर परिस्थितियों से जूझने की शक्ति देता है।

प्राचार्य ने कहा कि दादा-दादी एवं नाना-नानी के सर्वांगीण गुणों का समावेश बच्चों में होता है। वे ही बच्चों को घर और बाहर में अनुशासन, शिष्टाचार और सुसंस्कार की शिक्षा देते हैं। वे हमें सूर्योदय के साथ जगना, उठना, बड़ों का पैर छूकर प्रणाम करना, माता-पिता की आज्ञा मानना एवं बुजुर्गों की सेवा करना सिखाते हैं। नैतिक शिक्षा का ज्ञान बच्चे बुजुर्गों से ही प्राप्त करते हैं। वे भविष्य में चरित्रवान तथा आदर्श मनुष्य बनने की शिक्षा हमें देते हैं। हमें आजीवन दादा-दादी, नाना-नानी की सेवा करनी चाहिए। कार्यक्रम का आरंभ गणेश वंदना से हुआ। अतिथियों का स्वागत बच्चों ने नृत्य से किया। कनिष्ठ एवं वरिष्ठ छात्रों ने सामूहिक नृत्य की अनुपम छटा प्रस्तुत की। छात्रों ने ये तो सच है कि भगवान है... गीत पर प्रस्तुति दी। बुजुर्गों के सम्मान पर आधारित लघुनाटिका का भी मंचन किया। छात्राओं ने शिवस्तोत्र प्रस्तुत किया। वरिष्ठ छात्रों ने अर्ध शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किये। ऑक्सफोर्ड के ही प्रेप कक्षा से उत्तीर्ण 101 छात्रों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया।ऑक्सफोर्ड ग्रुप के शैक्षिक निदेशक सिम्मी मेहता ने ग्रैंड पैरेंट्स का अभिवादन व छात्रों को शुभकामना देते हुए कहा कि विद्यालय की पुरातन परंपरा अनुसार ऑक्सफोर्डमेदिनीनगर की यह छठी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। यह कार्यक्रम नवीन व पुरातन पीढ़ियों के मध्य समायोजन रखती है। हमें बुजुर्गों की आज्ञा का पालन कर उनके आदर्श जीवन से सीख लेनी चाहिए। जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अविचलित रहकर अपने व परिवार की उन्नति के लिए निरंतर परिश्रम करते रहें। विद्यालय ने इस आयोजन की बहुत सराहना की। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के निदेशक सह पांकी विधायक डॉ एसबीपी मेहता ने भी दादा-दादी व अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। संचालन शिक्षिका शिवांगी आनंद तथा मीनू सिंह व धन्यवाद ज्ञापन तनुश्री ने किया। मौके पर सभी शिक्षक तथा शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

हजरत दाता पीर बख्श का दो दिवसीय सालाना उर्स संपन्न

हजरत दाता पीर बख्श का मजार आस्था का केंद्र: संजय सिंह यादव

खबर मन्त्र संवाददाता

फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन करते विधायक व अन्य।

हुसैनाबाद पलामू। हजरत दाता पीर बख्श का दो दिवसीय सालाना उर्स शनिवार की रात संपन्न हो गया। मौके पर मजार पर दोनों समुदाय के लोगों ने मजार पर चादरपोशी का सुख शांति की दुआ मांगी। इस मौके पर समाजसेवी इब्राहिम सेठ के सौजन्य से शानदार कव्वाली मुकाबला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक संजय सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि जिप उपाध्यक्ष आलोक सिंह, शेर अली, उर्स कमेटी के अध्यक्ष एजाज हुसैन, और समाजसेवी इब्राहिम सेठ की धर्मपत्नी सायरा बानो, सुहाना खान ने फीता काट कर किया। मौके पर स्थानीय विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने कहा कि दाता साहब का मजार सभी धर्म के लोगों का आस्था का केंद्र है, यहां बिना रोक टोक के हर कोई बाबा के मजार पर माथा टेकने का काम करते हैं। मान्यता है कि यहां पर मांगी गयी मुराद यहां अवश्य पूरी होती है।

खास बातें : शायर बानो ने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दाता पीर बख्श साहब की नगरी की बहू हूं। मैं पिछले 22 वर्षों से उर्स पर बाबा की दरबार में हाजरी लगती आ रही हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऐजाज हुसैन उर्फ छेदी खान ने की और संचालन जाकिर अली उर्फ राज अली ने किया। कव्वाली का शानदार मुकाबला मशहूर कव्वाल बाबू साबरी और कव्वाला रौनक परवानी के बीच हुआ। शुरुआत कव्वाल बाबू साबरी ने हमद और नात ए पाक पेश कर किया। इसके बाद दोनों कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कव्वाली प्रस्तुत कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। समापन दोनों कलाकारों शहीद ए कर्बला की शान में कव्वाली पेश कर किया।

शिक्षा-स्वास्थ्य के सामंजस्य से पलामू को मिलेगी नयी दिशा : अविनाश देव

- संत मरियम स्कूल ने किया स्वास्थ्य शिविर का आयोजन
- जिले के कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने की शिरकत

खबर मन्त्र संवाददाता

मौके पर विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव ने कहा कि संत मरियम स्कूल सिर्फ.शिक्षा के लिए ही समाज को समर्पित नहीं है, अपितु समाज हित के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने का प्रयास कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा सुदृढ़ समाज की बुनियाद हैं। इन दोनों को समन्वय के साथ कार्य करना, समाज हित में लाभप्रद होगा। शिविर में आये सभी चिकित्सकों को श्री देव ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपका सहयोग काफी सराहनीय रहा। मेरे इस पहल में आपका योगदान सार्थक रहा तो निश्चित रूप से पलामू में समय-समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के उप प्राचार्य एसबी साहा ने किया। मौके पर प्रवीण दुबे, समन्वयक अमरेंद्र कुमार, रिजवाना परवीन, रोशन राज, निकिता गुप्ता, विकास विश्वकर्मा, श्याम किशोर पांडेय समेत अन्य लोग शामिल थे।

मेदिनीनगर। स्थानीय रेडमा स्थित ग्रैंड जयश्री होटल में संत मरियम स्कूल द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पलामू प्रमंडल के कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने भाग लिया। संत मरियम स्कूल के चेयरमैन अविनाश देव, प्राचार्य कुमार आदर्श, पलामू प्रमंडल के सुप्रसिद्ध फिजिशियन डॉ राजीव नयन, ऑर्थो सर्जन प्रवीण सिद्धार्थ, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉ मुकेश कुमार सिन्हा, डेंटिस्ट डॉ राजेश कुमार ने दीप-प्रज्ज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। वहीं चेयरमैन श्री देव ने सभी चिकित्सकों को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। शिविर में संत मरियम स्कूल के सैकड़ों शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लिया और ईसीजी, बीपी, शुगर जैसी कई अन्य जांचें भी करवायी।

मिशन समृद्धि ने जरूरतमंदों के बीच किया भोजन वितरण

खबर मन्त्र संवाददाता

मेदिनीनगर। मिशन समृद्धि संस्था द्वारा संचालित समृद्धि की रोटी अभियान के तहत पूड़ी सब्जी केला का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव ने बताया कि इसबार अंबेडकर पार्क के सामने दोना पत्तल दातून बेचने वालों की संख्या नहीं के बराबर थी। शनि मंदिर परिसर में बूढ़े दिव्यांग राहगीर जरूरत मंदों के बीच भोजन का पैकेट और केला का वितरण किया गया। सदर अस्पताल में भी भोजन के पैकेट वितरण किया गया। कहा कि भोजन व्यवस्था में राकेश पाण्डेय, रमेश, शबाना जैसे लोगों का सहयोग मिला। अस्पताल की सफाई और व्यवस्था अच्छी थी। वहां भोजन और फलों का वितरण मरीजों के परिजनों के बीच किया जा सकता है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद हो सकती है।

विवेकानंद पब्लिक स्कूल में मातृत्व दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित

खबर मन्त्र संवाददाता

विश्रामपुर (पलामू)। आरापुर महुगाईं दुर्गा ऑफिस के पास स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में रविवार को विश्व मातृत्व दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत मातृशक्ति को नमन कर किया गया। वहीं स्कूली छात्र - छात्राओं ने माताओं का पैर धोने के बाद चरण वंदन किया। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा कई प्रतियोगिता आयोजित की गयी। प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। विजेताओं के बीच पुरस्कारों का वितरण स्कूल के निदेशक ऋतुराज मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को संस्कारपूर्ण शिक्षा देने के लिये संकल्पित है। हमारा स्पष्ट मानना था कि बगैर संस्कार के शिक्षा का महत्व बेमानी है। प्राचार्य तृप्ति मिश्रा व उप प्राचार्य शैली कुमारी ने मां की महिमा पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। कहा कि मां का कर्ज कोई भी उतार नहीं पाया है।

सड़क दुर्घटना में कसवाखाड़ के युवक की मौत

पाटन पलामू। प्रखंड के कसवा खांड़ निवासी राजा कुमार पिता संजय चौहान (20) की मौत बाइक एक्सीडेंट में हो गयी। जानकारी के अनुसार मृतक अपने तीन दोस्तों के साथ पांकी थाना क्षेत्र के सुरजवन में बरात गया था। तीनों दोस्त ने सुरजवन से अपने घर कसवा खांड़ लौट रहे थे, उसी क्रम में बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी, जिसमें राजा की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी। वहीं सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक दुर्घटना लेस्लीगंज खामडीह के बीच घटी थी। घटना की सूचना पाकर लेस्लीगंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल डालटनगंज भेज दिया। वहीं घायल सौरभ का ईलाज जारी है। राजा प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह आठ दिन पहले अपने घर आया था। इस घटना से पूरा गांव में शोक व्याप्त है।

टीबी से ग्रसित युवक की संदिग्धावस्था में मौत

पाटन पलामू। थाना क्षेत्र के रोल निवासी सकेंद्र उरांव पिता बालकेश उरांव की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गयी। मृतक टीबी से ग्रसित था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सकेंद्र (40) बीती रात अपने ही गांव में किसी के यहां से खाना खाकर लौट रहा था। उसी क्रम में उसकी मौत हो गयी। ग्रामीणों ने बताया कि टीबी से ग्रसित सकेंद्र काफी कमजोर हो गया था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जतायी है। परिजनों का कहना है कि दो दिन पहले उसे मारने के लिए धमकी दी गयी थी। इस मामले में परिजनों ने नावा जयपुर थाना में आवेदन देने की बात कही है। वहीं नावाजयुर थाना प्रभारी कमल किशोर पाण्डेय ने इस संबंध में बताया कि मृतक की मौत गिरकर हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है।

प्रशिक्षित कार्यकर्ता मेरुदंड बन कर संगठन को मजबूत बनाता है: विहिप

खबर मन्त्र संवाददाता

मेदिनीनगर। विश्व हिंदू परिषद पलामू के जिला कार्यालय में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विहिप के महिला शाखा मातृ शक्ति, दुर्गा वाहिनी की एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के बाद जिला बैठक भी हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष अजीत पाठक और संचालन जिला मंत्री अमित तिवारी ने किया। उसके पूर्व सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में विहिप की बैठक प्रारंभ और समाप्त करने की विधि, विहिप की इतिहास और उपलब्धि तथा अन्य आयामों के बारे में प्रांत सेवा टोली सदस्य सह जिला पालक दामोदर मिश्र ने सभी कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताया। प्रशिक्षण के महत्व के बारे में उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता किसी भी संगठन के लिए मेरुदंड बन उसे मजबूती प्रदान करता है। सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेना चाहिए।

प्रदूषण, जल संकट, गर्मी व जलवायु परिवर्तन रोकना है तो पर्यावरण धर्म अपनायें: डॉ कौशल

खबर मन्त्र संवाददाता

मेदिनीनगर। शहर के बाईपास रोड स्थित केपीजे कंपलेक्स के पीछे अवस्थित पर्यावरण भवन के उपरी तल के आकाश बाग और छतरपुर प्रखंड के डाली पंचायत के कुंडली में विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु व वन राखी मूवमेंट के प्रणेता पर्यावरणविद ट्री मैन डॉ कौशल किशोर जायसवाल ने अपने बड़े पुत्र अरुण कुमार जायसवाल के जन्मदिन व अपनी शादी की सालगिरह पर पर्यावरण धर्म के तहत थाईलैंड प्रजाति के आम का पौधा लगाया। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को पर्यावरणविद ने पर्यावरण धर्म के आठ मूल ज्ञान मंत्रों की शपथ भी दिलायी। पौधरोपण के बाद अपने संक्षिप्त संबोधन में उन्होंने बढ़ते प्रदूषण, जल संकट, भीषण गर्मी, और जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में ठोस व कारगर कदम नहीं उठाए गए तो लोगों को जल संकट के साथ ऑक्सीजन की समस्या से भी जूझना होगा।

जोड़ में दवा दुकान खुलना खुशी की बात : रुचिर

मेदिनीनगर। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सह डालटनगंज विस के पूर्व विधायक उम्मीदवार रूचिर तिवारी ने सदर प्रखंड के ग्राम जोड़ में कमलेश तिवारी के मेडिकल दुकान का उद्घाटन किया। श्री तिवारी ने कहा कि गांव स्तर पर मेडिकल दुकान खुलना ग्रामीणों एवं इस इलाके से दूरदराज के लोगों के लिए सौगात है। अब आम लोगों को दवा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा एवं कम लागत से उसी खर्चे से गांव में ही सभी बीमारियों की दवा मिल जायेगी। मौके पर दुकान के प्रोपराइटर कमलेश तिवारी ने कहा कि यह दवा दुकान में दवा के साथ छोटे मोटे कार्य पानी चढ़ाना, इंजेक्शन लगाना, मरहम पट्टी करना, बैंडेज करना आदि कार्यों को किया जायेगा। मौके पर शिव ध्यान तिवारी, राम राज तिवारी, चंद्रशेखर तिवारी, सुमेर मिश्रा, पूरन पांडे, सुनील सिंह, रुपेश तिवारी सहित कई लोग उपस्थित थे।

लेस्लीगंज मुख्यालय में लगेगा सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा व्यवस्था भी होगी मजबूत

खबर मन्त्र संवाददाता

बैठक के दौरान उपस्थित विधायक समर्थक व अन्य।

नीलांबर पीतांबरपुर (पलामू)। पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ कुशवाहा शशिभूषण मेहता के निर्देश पर नीलांबर-पीतांबरपुर पंचायत के लेस्लीगंज मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की योजना बनायी गयी है। दुकानदारों, व्यवसायियों और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

विधायक के आदेशानुसार कैमरा लगाने के लिए सर्वे कराया गया, जिसमें मुख्य चौक, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र और संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया। योजना के तहत सभी कैमरों की मॉनिटरिंग लेस्लीगंज थाना से की जायेगी, जिससे किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी। यह योजना लंबे समय से व्यवसायियों और आम जनता की मांग रही है। अब उनकी इस मांग पर कार्रवाई होते देख स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। सभी ने विधायक डॉ मेहता का आभार जताया है और इस पहल की सराहना की है। लोगों को उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में अपराधों पर नियंत्रण होगा और सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। सर्वे में विधायक प्रतिनिधि छोटेलाल प्रसाद सोनी, सौरभ जयसवाल मौजूद थे।

मातृ दिवस पर हैदरनगर के किड्स जोन विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित

- छात्र-छात्राओं ने अपनी माताओं के प्रति भावना व्यक्त किया

खबर मन्त्र संवाददाता

कार्यक्रम में मौजूद लोग।

हैदरनगर (पलामू)। विद्यालय में मातृ दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह एक विशेष अवसर था जहां छात्र छात्राओं ने अपनी माताओं के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। हैदरनगर के किड्स जोन विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम में कक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिनमें आरुषि, आलोक आरोही, अर्पित, अपराजिता आनंद अन्य शामिल थीं। विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्या कामरान खान ने मातृ दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और माताओं के योगदान को स्वीकार किया। छात्र छात्राओं ने अपनी माताओं के प्रति अपनी भावनाओं को साझा करते हुए दिल को छू लेने वाले भाषण और सुंदर नृत्य प्रस्तुत किये। इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। ताकि छात्रों को उनके माता-पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर मिल सके। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों में अनन्या, फलक, रोमा, खुशी, जैनब, मीनाक्षी, लवकुश, अरमान, राजा, अनुष्का, अरीबा, वानिया, शिफा, जिक्रा के अलावा कई बच्चों की माताएं आदि शामिल थे।

स्पीड न्यूज

कांग्रेस नगर कमेटी का हुआ पुर्नगठन

दुमका। कांग्रेस भवन में नगर कांग्रेस इकाई ने संगठन सृजन के तहत नगर कांग्रेस कमेटी की पुनर्गठन को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष मो अलीमाम उर्फ टिंकू ने की। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से नगर पर्यवेक्षक प्रोफेसर मनोज अम्बष्ट भी शामिल थे। इस अवसर पर प्रोफेसर अम्बष्ट ने कहा कि आज नगर कमेटी के पुनर्गठन का आयोजन हुआ। जिसमें कमेटी में दो उपाध्यक्ष एवं नौ महासचिव मनोनीत हुए। उसके बाद नगर अध्यक्ष अलीमाम उर्फ टिंकू ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती के लिए काम करने की जरूरत है। बैठक की समाप्ति की घोषणा दशरथ मंडल ने किया। इस कार्यक्रम में अमित शर्मा, संजय गुप्ता, विनोद बेसरा, मो हारून, रूपेश सिंह, मो हसनैन, रवि वर्मा, शशिधर झा, सुमित कुमार दास, राजा दास आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने मनाया मातृ दिवस

दुमका। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा रविवार को मातृ दिवस का आयोजन किया गया। युवा मंच ने बड़े ही धूमधाम मातृ दिवस मनाया। इस अवसर पर माताओं को सम्मानित किया गया। माताओं को तिलक कर उनका अभिनंदन करते हुए तीन पीढ़ी की माताओं को पौधे देकर विशेष सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में माताओं ने विभिन्न खेल और मनोरंजन गतिविधियों में भाग ली। प्रेरणा शाखा की इस पहल की माताओं ने सराहना करते हुए आभार प्रकट की। कार्यक्रम के द्वारा इस शाखा ने उन्हें घर से बाहर निकलकर दो घंटे तक मनोरंजन करने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुष्पगुच्छ और उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की संयोजिका पूजा मोदी, नीतू मोदी और बर्का मित्तल ने अहम भूमिका निभाई। संरक्षिका रिंकू मोदी, अध्यक्ष सचिव किरण भालोटिया के नेतृत्व में कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुई।

बड़े भाई की हत्या करने वाला गिरफ्तार

शिकारीपाड़ा। दुमका पुलिस में बड़े भाई की हत्या कर फरार चल रहे छोटे भाई इमामुद्दीन अंसारी को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पिनरगड़िया गांव से हुई। फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसपी पीतांबर सिंह खेरवार के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था। इस टीम ने इमामुद्दीन अंसारी को धर दबोचा। दरअसल जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के देवदाहा गांव में घरेलू विवाद में एक छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई की चाकू मार कर हत्या कर दी थी। इस बावत मृतक शमा मियां की पत्नी आफरीन बीवी ने शिकारीपाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराया था।

तेज आंधी, तूफान से पोल्ट्री शेड हुआ धाराशायी, दो लाख की क्षति

बोकारो/कसमार। विगत रात्रि अचानक आये तेज आंधी-तूफान से कसमार प्रखंड के सिंहपुर पंचायत अंतर्गत करमा गांव के सकरडीह टोला निवासी प्रदीप कुमार महतो का पॉल्ट्री शेड गिर कर धराशायी हो गया। वहीं पोल्ट्री शेड का छत का मलबा सामने रखे ट्रेक्टर थ्रेसर मशीन पर जाकर गिरा जिससे थ्रेसर मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना से प्रदीप को लगभग दो लाख रुपए की क्षति हुई है। प्रदीप ने बताया कि रोजी-रोजगार के लिए उन्होंने केसीसी लोन एवं ग्राम संगठन की महिलाओं से लोन लेकर पोल्ट्री शेड बनाया था और एक बार चूजा डालकर बड़ा किया था। उसके बाद दूसरी बार चूजा डालने के लिए वह तैयारी कर रहा था। इस बीच तेज आंधी और तूफान ने कहर ढाह दिया। अब प्रदीप लोन कैसे चुकाएगा इसके लिए चिंतित है। उसके सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने सरकारी मदद व सरकारी मुआवजा की मांग की है।

निर्धारित समय पर चार्जसीट न्यायालय नहीं पहुंचने पर साइबर अपराधियों को मिली जमानत

पुलिस के कार्यशैली पर उठ रहा सवाल

न्यायालय ने धारा 187 (2) का लाभ देते हुए अधिवक्ता के अर्जी पर तीन साईबर अपराधियों को दी जमानत

खबर मन्त्र संवाददाता

दुमका। जिला के मसलिया पुलिस की लापरवाही से तीन साईबर अपराधियों को न्यायालय से जमानत मिल गई। एसडीजेएम मोहित चौधरी के न्यायालय से अपराधियों को जमानत बीते शुक्रवार को मिल गई। केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने निर्धारित 60 दिनों में न्यायालय में चार्जसीट नहीं जमा होने का लाभ उठाते हुए न्यायालय से 61 वें दिन जमानत की अर्जी लगायी। जिसे न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 187(2) का लाभ देते हुए जमानत दे दिया। यहां बता दें कि बीते 9 मार्च को मसलिया थाना क्षेत्र के खुटोजोरी गांव से मसलिया पुलिस ने तीन साईबर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ कर न्यायिक हिरासत में भेजी थी। जानकारी के गिरफ्तार साईबर अपराधियों में खुटजोरी गांव के असलम अंसारी, उस्मान अंसारी व इमामुद्दीन अंसारी शामिल था। मसलिया पुलिस अपराधियों के पास से चार मोबाइल भी जब्त की थी। पुलिस मामले में 318(4),319(2),336(3),340(2) बीएनएस एवं166(सी),66(डी) आईटी एक्ट तहत अपराधियों को गिरफ्तार कर बीते 9 मार्च को न्यायिक हिरासत भेजी थी। हलांकि मामले में निर्धारित समयावधि में चार्जसीट ससमय न्यायालय ने नहीं पहुंचने के चूक के विषय में पूछे जाने पर थाना प्रभारी धन्नजय प्रजापति एवं डीएसपी मुख्यालय इक्कुड़ डुंगडुंग ने मामले में किसी प्रकार की जानकारी होने से इंकार कर दिया। वहीं सूत्रों की माने तो इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार केस के अनुसंधानकर्त्ता थे। केस में गिरफ्तारी के बाद से ही लाखों में मैनेज का खेल शुरू हो गया था। गिरफ्तार अपराधियों के परिजनों द्वारा लाखों का प्रलोभन देने की सूचना थी। केस डायरी में विलंब का कारण अब जांच का विषय है।

बुजुर्ग की निर्मम हत्या, पुलिस जांच में जुटी

खबर मन्त्र संवाददाता

बोकारो। बोकारो कोऑपरेटिव कॉलोनी के -फुलबास नामक मकान संख्या 192अ में रविवार को 85 वर्षीय कलिका राय की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं जिससे प्रतीत होता है कि उन्हें सिर कुचल कर मौत के घाट उतारा गया।

सूचना मिलने पर डीएसपी सिटी आलोक रंजन खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हत्या रात में हुई या सुबह झ यह स्पष्ट नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक कलिका राय के तीन पुत्र हैं, जिनमें से दो स्थानीय स्तर पर रहते हैं जबकि एक बाहर गया हुआ था। वारदात के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे हत्या का समय और तरीका रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार कलिका राय मिलनसार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। समाज में उनकी अच्छी छवि थी। इस घटना से क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल है। पुलिस ने हर पहलू की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल है। पुलिस ने हर पहलू की जांच शुरू कर दी है।

ट्रांसफार्मर का उद्घाटन

बेरमो/ललपनिया। गोमिया प्रखण्ड क्षेत्र होसिर पश्चिमी पंचायत के मियाबाँध ग्राम में रविवार को झारखण्ड मंत्री माननीय योगेंद्र प्रसाद के अनुज चित्रगुप्त महतो व पंचायत की मुखिया पार्वती देवी ने संयुक्त रूप से 100 केवीए का नया ट्रांसफार्मर का शुभ उदघाटन फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। जिसके बाद बाधित गांवमें बिजली की आपूर्ति सुचारू हो गई।मौके पर ग्रामीणों ने श्रीमहतो का जोरदार स्वागत व अभिनंदन करते हुए धन्यवाद कहा। वही ग्रामीणो ने कहा कि ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाने से इस भीषण गर्मी के चलते परेशानी हो रही थी, लेकिन सूचना देते ही माननीय पेयजल एवं स्वच्छता तथा मद्द उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने त्वरित पहल किया और बिजली आपूर्ति सुचारू कराई। इससे हम सभी ग्रामीण बहुत खुश हैं। इस मौके पर माननीय मंत्री के अनुज चित्रगुप्त महतो ने कहा कि हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमारे बड़े भाई मंत्री साहब ग्रामीणों के बीच रहते है। हर सुख दुःख में साथ निभाते आये है।किसी भी परिस्थिति में हर समय आपके सेवा में उपलब्ध और तत्पर रहते है। कहा आपका विश्वास ही हमारी ताकत है।

धूमधाम से मना कुलदेवी महाराणा माता की तृतीय उत्सव

पूजा-अर्चना करते कुलदेवी अनुयायी

खबर मन्त्र संवाददाता

दुमका। महराणा माता परिवार की ओर से रविवार को अग्रसेन भवन में कुलदेवी महाराणा माता की तृतीय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अग्रसेन भवन में भव्य दरवार सजाया। साथ ही माता की अलौकिक श्रृंगार व भजन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मारवाड़ी समाज की काफी संख्या में श्रद्धालु महिला शामिल हुई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सुबह माता की ज्योत कार्यक्रम स्थल में स्थापित दरवार में रखा गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के द्वारा माता की छप्पन भोग व सवामणि चढ़ाया गया। साथ ही कार्यक्रम में गजरा उत्सव का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालु महिलाओं के द्वारा चुनरी व मेंहदी उत्सव का आयोजन किया गया। बाहर से पहुंचे हुए भजन गायिका सिमरनजीत कौर व भजन गायक पंकज मोदी के द्वारा मनमोहक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भजन कीर्तन के बाद कार्यक्रम स्थल पर कन्या भोजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच माता का भंडारा का आयोजन किया गया। जिसमें शहर के काफी संख्या में श्रद्धालु इस भंडरा में शामिल हुए।

साहित्यलोक व मिथिला सांस्कृतिक परिषद ने किया

साहित्यिक समारोह व बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन

खबर मन्त्र संवाददाता

बोकारो। मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-4 के विद्यापति सभागार में रविवार को साहित्यिक संस्था साहित्यलोक एवं सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था मिथिला सांस्कृतिक परिषद बोकारो के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित साहित्यिक समारोह व बहुभाषी कवि सम्मेलन में रांची हजारीबाग व बोकारो के साहित्यकारों ने वीररस मातृदिवस सद्भावना भक्ति प्रेम करुणा आदि रस की रचनाएं सुनाकर श्रोताओं को घंटों बांधे रखा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि रांची से पधारे भारतीय वन सेवा के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिकारी व साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार कुमार मनीष अरविंद विशिष्ट अतिथि हजारीबाग से आए वरिष्ठ साहित्यकार हितनाथ झा साहित्यलोक के संस्थापक महासचिव व वरिष्ठ शिक्षाविद तुलानंद मिश्र वरिष्ठ साहित्यकार बुद्धिनाथ झा विजय शंकर मल्लिक सुधापति बटोही कुमार कार्यक्रम के अध्यक्ष मिथिला सांस्कृतिक परिषद बोकारो के उपाध्यक्ष समरेन्द्र झा ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चन के बाद दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरूआत प्रतिभावान गायिका आंचल पाठक द्वारा प्रस्तुत महाकवि विद्यापति की रचना भगवती वंदना 'जय जय भैरवि...' के सुमधुर गायन से हुई। इस अवसर पर साहित्यलोक के संयोजक अमन कुमार झा द्वारा लिखित मैथिली नाटक पुस्तक- अहां बिनु हम जीयब कोना व साहित्यलोक के पूर्व संयोजक डॉ सन्तोष कुमार झा के मैथिली कविता संग्रह-कविक आबा का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि कुमार मनीष अरविंद ने इस आयोजन के लिए साहित्यलोक की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से शहर को साहित्यिक ऊर्जा मिलती है। बहुभाषी कवि सम्मेलन में कवयित्री करुणा कलिका ने हिंदी कविता- हम भारत की बेटी हैं जब खड्ग हाथ में धारेंगें व भोजपुरी कविता आशुतोष कुमार ने खोरठा कविता अरुण पाठक ने मैथिली में सद्भावना गीत- जाति धर्म के नाम पर नहि बांटू इंसान के अमृता शर्मा ने हिंदी कविता- धर्म का मर्म रणधीर चंद्र गोस्वामी ने- भूख के खिलाफ, तब कहां थे तुम शैलजा झा ने हिंदी कविता- श्रेष्ठता के अभियान- मां तुम जिंदा रहोगी, मैथिली कविता- समझौता-स्त्री के मौन तपस्या, हितनाथ झा अरविंद अमन कुमार झा व कुमार मनीष डॉ रणजीत कुमार झा राजीव कंठ श्रवण कुमार झा नीलम झा विजय शंकर मल्लिक सुधापति बुद्धि नाथ झा ने मैथिली कविता ब्रजेश पांडेय ने हिंदी में वीररस की कविता सुनाकर श्रोताओं की वाहवाही ली। मंच संचालन शंभु झा व अमन कुमार झा एवं धन्यवाद ज्ञापन राजेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर केसी झा अमरेन्द्र कुमार झा किरण मिश्रा विश्वनाथ झा गंगेश कुमार पाठक विनोद कुमार अनिल सिंह राधा मोहन सिंह गुलाब सिंह प्रवीण कुमार झा सहित अन्य काव्य प्रेमी श्रोता उपस्थित थे।

विपुल के परिजन झारखंड सरकार से लगा रहे हैं इंसाफ की गुहार

बेरमो। बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार थानाक्षेत्र स्थित पिछरी गांव निवासी गुलचंद मिश्रा ने अपने 24 वर्षीय पुत्र विपुल मिश्रा की हत्या मामले में अबतक के पुलीसिया कार्रवाई से काफी नाराज दिख रहे हैं। पुलिस के द्वारा इस हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं गुलचंद मिश्रा सहित अन्य परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस द्वारा मामले को भर्मित कर लीपापोती किया जा रहा है। परिजनों के अनुसार यदि पुलिस मामले को सही से जांच कर कार्रवाई नहीं करती है तो वे इसे लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। बताते चले कि बोकारो जिले के पेटरवार थानाक्षेत्र स्थित पिछरी गांव निवासी विपुल कुमार मिश्रा की हत्या बीते 29 अप्रैल की देर शाम उसके दोस्तों ने मिलकर कर दी थी। इस संबंध में परिजनों ने विरहोरबेड़ा निवासी लखन नायक तथा लेनिन राज नायक पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि इन दोनों ने उनके पुत्र विपुल मिश्रा को पास के ही ड़हरडीह कलवर्ट के पास बुलाकर टांगी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी है।

ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सत्संग : स्वामी अरण्यानंद

महर्षि मेंही का 141 वां जंयती महोत्सव धूमधाम से मना

नगर भ्रमण करते मेंही महर्षि अनुयायी

खबर मन्त्र संवाददाता

दुमका। महर्षि मेही आश्रम पुसारो में महर्षि मेंही जी की 141 वां पावन जंयती महोत्सव मनाया गया। रविवार की सुबह नगर भ्रमण कर पुनः आश्रम पहुंच पुष्पांजलि का कार्यक्रम ध्यान, संत स्तुति, गुरु विनती हुआ। इसके बाद महाभंडारे का आयोजन किया। जिसमें श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। दोपहर में भूषण के हारमोनियम एवं तबले पर संगत करते हुए आर्य देव, दिनेश एवं रवि कुमार गुप्ता ने भजन-कीर्तन के माध्यम से द्वितीय पाली का संतमत सत्संग प्रारंभ हुआ। जिसमें संत स्तुति, गुरु विनती, पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस से पाठ किया गया। इसके बाद महर्षि मेंही के जीवन कृति पर चर्चा हुई। महर्षि मेंहीं आश्रम की व्यवस्थापक स्वामी अरणायनंद भिक्षु ने कहा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। जैसा संग होगा, वैसा उसका प्रभाव होगा। इसलिए मनुष्य को श्रद्धापूर्वक गुरु की सेवा करना ही परम धर्म है। उन्होंने कहा कि कहा कि सर्व शक्तिमान एवं सर्व समर्थ ईश्वर ही इस संसार सागर के मूल आधार हैं और ब्रह्माण्ड का कोई भी कार्य इनकी कृपा के बिना नहीं होता है। ईश्वर की स्वीकृति और सहायता के बिना कोई भी योजना नहीं बन सकती है और नहीं पूरी हो सकती है। परम पिता परमेश्वर की कृपा एवं गुरु का आशीर्वाद पात्र धर्मार्थी पुरुष की शक्ति एवं उसके प्रयासों को अत्यंत प्रभावशाली बना देता हैं। ईश्वर द्वारा सृजित मानव प्राणी परमात्मा को कोई भी चीज वस्तु देने सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन में अचानक लाभ प्राप्त होना या फिर आया हुआ संकट टल जाना, घटनाओं का पूवार्भास होना, इस प्रकार के बहुत सारे संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि भक्तों पर दैवीय शक्ति सहायक है। उन्होंने बताया कि महर्षि मेंही बाबा, जिन्हें सद्गुरु महर्षि मेंहीं परमहंस भी कहा जाता है।

एक प्रसिद्ध संत और आध्यात्मिक गुरु थे। जिनका जन्म बिहार के सहरसा जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा बाबा देवी साहब के साथ कर बाद में कटिहार जिले के मनिहारी में ध्यान करते हुए कई साल बिताएं। स्वामी अरणायनंद भिक्षु ने कहा महर्षि मेंही बाबा का जन्म बिहार के सहरसा जिले में हुआ था। उन्होंने कम उम्र से ही ध्यान और साधना की शुरूआत कर दी थी। उन्होंने बाबा देवी साहब को अपना गुरु बनाया और उनके मार्गदर्शन में साधना की। उन्होंने कटिहार जिले के मनिहारी में एक आश्रम में ध्यान करते हुए कई साल बिताए। महर्षि मेंही को एक महान सद्गुरु और आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सत्य और ज्ञान का मार्ग दिखाया। महर्षि मेंही ने सन्तमत के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सन्तमत के सिद्धांतों का प्रचार किया और अपने अनुयायियों को सन्तमत के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी भक्तों को पांच पापों से मुक्त होने का संदेश दिया। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा आदि से दूर रहने की नसीहत दी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला सतमत सत्संग समिति एवं कई युवा बच्चे श्रद्धालु हजारों की संख्या में भक्ति में डूब कर जयंती एवं महर्षि मेंही के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया।

एक नजर में

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 57 दुकानों में छापेमारी, वसूला जुमार्ना

बोकारो। उपायुक्त विजया जाधव के आदेशानुसार सिविल सर्जन बोकारो द्वारा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डा श्वेता अमृता लकड़ा एवं जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो मो असलम के नेतृत्व में निकोटिन-युक्त पान मसाला एवं तम्बाकू उत्पाद अधिनियम- 2003 की धारा 4 व 6 ए- 6 बी के तहत हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत बसन्ती मोड सेक्टर 9ए रोड सेक्टर 9 बी रोड सरस्वती स्कूल एवं सरदार पटेल स्कूल के आस पास विशेष जांच अभियान चलाया गया,जिसमें लगभग कुल 57 दुकानों की जांच की गई जिसमें 13 दुकानों व व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लंघन करते हुए पाया गया और उनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2150 रुपये की वसूली की गई। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन बोकारो डॉ अभय भूषण प्रसाद ने कहा कि झारखंड में लगभग 88 लाख लोग तम्बाकू का प्रयोग करते हैं। राज्य में प्रत्येक दिन 146 बच्चे पहली बार तम्बाकू का उपयोग करना शुरू करते है जो कि केवल 13 से 15 आयु वर्ग के बच्चे होते है जिनको बचाना हम सभी विभागीय लोगों का दायित्व है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी आम जनमानस से अपील करते हैं कि खुद तम्बाकू के उपयोग से बचे। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करें।

बोकारो में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2088 मामलों का हुआ निष्पादन

बोकारो। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली तथा झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निदेर्शानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो अनिल कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्याय सदन बोकारो में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन झालसा से आभासी रूप में न्यायाधीश झारखण्ड उच्च न्यायालय सह कार्यकारी अध्यक्ष झालसा न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद तथा अन्य झालसा के सदस्यगण की उपस्थिति में किया गया।

पेज एक का शेष

पाक ने फिर हरकत...

इसके अलावा सरगोदा, जकुबाबाद , मुरीद, रहीम यार खान हवाई पट्टियों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना के पास पाकिस्तान के हर ठिकाने पर हमले की क्षमता है लेकिन हमने संयम से काम लिया है। नौसेना के कैरियर बैटल ग्रुप, सतही बल, पनडुब्बी और अन्य प्लेटफार्म पूरी तरह से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। उत्तर अरब सागर में भी नौसेना पूरी ताकत के साथ तैनात थी।

हमें कोई क्षति नहीं हुई : डीजी एयर ऑपरेशन ने कहा, पाकिस्तान की तरफ से किये गये मास रेंज में किसी भी तरह का नुकसान ग्राउंड पर नहीं होने दिया गया। हमारी प्रतिक्रिया सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने की थी। हमने सिर्फ जवाब दिया, उसमें पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की तरफ से हमारे एयर फील्ड को निशाना बनाने की कोशिश की। हमने फेल कर दिया।

ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी : भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद अब भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा बयान दिया है। आपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारतीय वायु सेना अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान ने यदि कोई भी हरकत भारत के खिलाफ की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दे दिया मिलेगा। वायुसेना ने रविवार को कहा कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे सौंपे गये कार्यों को सटीकता के साथ और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उसने कहा, चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए विस्तृत जानकारी समय आने पर दी जायेगी।

बिना किताबों के...

पढ़ाई से ज्यादा एमडीएम पर फोकस : राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा मिड डे मिल पर फोकस किया जाता है। उन्हें घर से स्कूल यह कहकर ही लाया जाता है कि दोपहर का भोजन स्कूल में मिलेगा। पढ़ाने के नाम पर आज भी मास्टर साहब की कोई सानी नहीं है। हां, भला हो वैसे बीएड कॉलेज के संचालकों का, जहां से इंटर्नशीप के नाम से स्टूडेंट्स स्कूली बच्चों को पढ़ाने चले आते हैं। अन्यथा बच्चों को किताब-कॉपी नहीं मिलने के कारण बिना पढ़े सिर्फ खाना खाकर ही वापस घर लौटना पड़ता।

क्या कहना है शिक्षक संघ का : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने सवाल उठाया कि जब हर वर्ष छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध करानी ही होती हैं तो सत्र की शुरूआत से पहले ही इसकी तैयारी क्यों नहीं होती। विभाग इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना क्यों नहीं बनाता। इस देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। यह गरीब बच्चों के साथ एक तरह का मजाक है। वहीं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने हाल ही में आदेश जारी किये हैं कि शिक्षकों का वेतन तभी जारी होगा, जब छात्रों का पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो। छात्रों को अभी तक पुस्तकें ही नहीं मिली है, कोर्स कैसे पूरा हो। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। साथ ही विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी।

इडी जांच में ...

राजबीर कंस्ट्रक्शन के निदेशक को जमीन खरीदने के लिए फंड उपलब्ध कराने की पुष्टि हुई। ईडी ने छापेमारी के अलावा इजहार हुसैन के दावे से जुड़े दस्तावेज की जांच के लिए कोलकाता स्थित रजिस्ट्री कार्यालय मे पीएमएलए की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सर्वे किया। सर्वे के दौरान जब्त किये गये दस्तावेज और अधिकारियों से हुई पूछताछ के दौरान पुरुलिया रिजस्ट्री कार्यालय से वर्ष 1933 में जारी डीड संख्या 191 को फर्जी पाया गया।

एक ही झटके...

तभी पाकिस्तान अमेरिका के कदमों में गिर कर युद्ध विराम कराने की गुहार लगाने लगा। सुखोई फायटर जेट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल ने दूर के इस अहम टार्गेट को निशाना बनाया गया था।

भारत ने दिया सीधा संदेश : पाकिस्तान का परमाणु हथियारों की कमान और नियंत्रण का केंद्र नूर खान हवाई अड्डे के पास है। भारत चाहता तो इस कमान को भी निशाना बना सकता था। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह हमला भारत की ओर से एक संदेश हो सकता है कि वह परमाणु कमांड को अक्षम करने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान की एनसीएम का नेतृत्व आर्मी चीफ करते हैं। भारत के प्रहार से दुनिया भर की चिंता बढ़ गयी।

ब्रह्मोस ने दुश्मन के वायुसैनिक अड्डों का राख कर दिया : सरकारी सूत्रों के अनुसार, 10 मई की सुबह भारतीय विमानों ने पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाकर ब्रह्मोस-ए (हवा से दागी जाने वाली) क्रूज मिसाइलें दागीं। पहले रावलपिंडी के पास चकलाला और पंजाब प्रांत के सरगोधा पर सटीक प्रहार किये। दोनों ही आर्मी बेस पाकिस्तान सेना के लिए रणनीतिक विमानन और गोलाबारूद रखते हैं। फिर एक-एक कर कई प्रमुख अड्डों को तहस-नहस कर दिया। इसमें जैकोबाबाद, भोलारी और स्कार्दू भी थे। हमलों के तुरंत बाद, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी डिफेंस नेटवर्क पर हाई अलर्ट मैसेज फ्लैश होते हुए देखा। ये मैसेज था कि भारत अगला निशाना पाकिस्तान के परमाणु कमांड और नियंत्रण ढांचे को बना सकता है। इसी समय पाकिस्तान ने तुरंत बीच-बचाव करने के लिए अमेरिका से संपर्क किया। पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सीधे फोन कर युद्ध रोकने का आग्रह किया।

रावलपिंडी तक सुनी गयी सेना की धमक

भारत की राजनीतिक, सामाजिक व सामरिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर : राजनाथ

एजेंसी

लखनऊ । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं , बल्कि यह भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है।

श्री सिंह ने रविवार को ब्रह्मोस उत्पादन और परीक्षण सुविधा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर अपने वर्चुअल संबोधन में इस ऑपरेशन को भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति और सशस्त्र बलों की क्षमता तथा दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की धरती पर भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों के हाथों अपने प्रियजनों को खोने वाले निर्दोष परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित किया।

भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ-साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अनेक सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने

- ▸▸ नया भारत सीमा के दोनों ओर आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगा
- ▸▸ सेना का आक्रोश पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय तक पहुंचा

केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इस बात का प्रमाण बताया कि जब भी भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो सीमा पार की जमीन भी आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सुरक्षित नहीं होती है।

उन्होंने कहा कि उरी घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा

लखनऊ में ब्रह्मोस के टेस्टिंग फैसिलिटी उद्घाटन करते राजनाथ सिंह।

हमले के बाद एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम हमले के बाद कई स्ट्राइक के जरिए दुनिया ने देखा है कि अगर भारत की धरती पर आतंकी हमला होता है तो वह क्या कर सकता है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत सीमा के दोनों ओर आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। सिंह ने कहा कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए शुरू किया गया था और इसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया और मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने वीरता और संयम का परिचय दिया और पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करके मुंहतोड़ जवाब दिया। हमने न केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की, बल्कि हमारे सशस्त्र बलों का आक्रोश रावलपिंडी तक पहुंच गया, जहां पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय स्थित है। ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र पर रक्षा मंत्री ने कहा कि यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को मजबूत करेगा और महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करके क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देगा। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर उद्घाटन को एक ऐतिहासिक क्षण बताया, जो भारत की बढ़ती नवीन ऊर्जा को दर्शाता है और महत्वपूर्ण, उच्च अंत और अग्रणी प्रौद्योगिकियों में तेजी से वैश्विक परिवर्तन के साथ संरेखित करता है। इस सुविधा को उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए गौरव की बात बताते हुए, श्री सिंह ने कहा कि इसने पहले ही लगभग 500 प्रत्यक्ष और 1,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन किया है, जो रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में राज्य की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का कॉरिडोर स्थापित करने का विजन राज्य को दुनिया के शीर्ष रक्षा उत्पादन और निर्यात गंतव्य के रूप में विकसित करने के लक्ष्य पर आधारित है। रक्षा मंत्री ने कहा ाा यूपीडीआईसी में अब तक 34,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ कुल 180 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और 4,000 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही किया जा चुका है। विमान निर्माण, यूएवी, ड्रोन, गोला-बारूद, समग्र और महत्वपूर्ण सामग्री, छोटे हथियार, कपड़ा और पैराशूट आदि में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। खास बात यह है कि इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी देखी जा रही है। लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम और सुपर एलॉय मैटेरियल प्लांट शुरू किए जा रहे हैं।

सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस

रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस को न केवल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक बताया, बल्कि यह भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत, विरोधियों के लिए निरोध का संदेश और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश की अटूट प्रतिबद्धता का संदेश है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस भारत और रूस की शीर्ष रक्षा प्रौद्योगिकियों का संगम है। भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को उद्धृत करते हुए जिन्होंने कहा था कि ह्यजब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और केंद्र भारत की शक्ति को और मजबूत करने में मदद करेगा।

स्पीड न्यूज

पाक की सिखों को भड़काने की साज़िश सफल नहीं होगी

नयी दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने रविवार को कहा कि सिखों ने हमेशा सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा में योगदान दिया है और यह कौम हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर देश के लिए शहादत देती रही है और आगे भी देती रहेगी। समिति के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पाकिस्तान की बयानबाजी का मकसद सिख कौम को भारत सरकार के खिलाफ भड़काना रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले भी ऐसी घटिया साजिशों में कभी सफल नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा।

अमिताभ बच्चन ने सेना को किया सलाम



मुंबई। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर सेना को सलाम किया। सदी के महानायक अमिताभ ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए लिखा कि जय हिन्द, जय हिन्द की सेना, तू ना थमें गा कभी, तू न मुड़ेगा कभीए तू न झुकेगा कभी, कर शपथ , कर शपथ, कर शपथ! अग्निपाथ! अग्नि पाथ ! अग्नि पाथ!!!

नियंत्रण रेखा पर जनजीवन सामान्य

श्रीनगर। कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। रविवार को एक पखवाड़े से अधिक समय में पहली बार नियंत्रण रेखा पर किसी भी सेक्टर से गोलीबारी की कोई खबर नहीं आई। अधिकारियों ने पुष्टि की कि कश्मीर क्षेत्र में 350 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की कोई खबर नहीं है, जो बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों से होकर गुजरती है। उरी में लोग अपने घरों और मुख्य शहर की दुकानों पर लौटने लगे हैं।

उप्र में 11 आइपीएस अधिकारी बदले गये

लखनऊ। शासन ने रविवार को पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त तरुण गाबा को लखनऊ परिक्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। लखनऊ पीएसी महानिरीक्षक आशुतोष कुमार को अपर पुलिस आयुक्त कानपुर,उपेंद्र कुमार अग्रवाल को पीएसी महानिरीक्षक बनाया गया है। कानपुर में तैनात आइजी जोगेन्द्र कुमार को पुलिस आयुक्त प्रयागराज बनाया है।

83 लाख की ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार

नैनीताल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पुलिस ने दो अलग-अलग घटनाओं में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर तीन बुजुर्गों से लगभग 83 लाख रुपए की ठगी के मामले में दो आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। अल्मोड़ा के एसएसपी देवेन्द्र पींचा ने रविवार को अल्मोड़ा में इन मामलों का खुलासा करते हुए बताया कि विगत 23 मार्च से सात अप्रैल के मध्य अल्मोड़ा निवासी पूर्ण चंद्र जोशी और उनकी बहन भगवती पांडे को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 75 लाख ठगे थे।

पंजाब में जासूसी के आरोप में दो गिरफ्तार

चंडीगढ। मलेरकोटला पुलिस ने भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान स्थित हैंडलर को लीक करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दो संदिग्ध को भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान स्थित हैंडलर को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व अन्य।

आतंकियों को उन्हीं के भाषा में मिलेगा जवाब

कुत्ते की पूंछ है पाकिस्तान और आतंकवाद, कभी सीधा नहीं होगाः योगी

खबर मन्त्र संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होने वाली। आतंकवाद को कुचलने के लिए हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान से जुड़ना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। हम आतंकवाद को पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार हैं और उसे उसकी ही भाषा में जवाब देंगे। योगी उप्र डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई के शुभारंभ के मौके पर संबोधित कर रहे थे ।योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐलान किया है कि आगे से आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। जब तक हम इसे पूरी तरह से कुचल नहीं देते, आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खात्मे के लिए इससे बड़ा प्रहार होगा। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है और यह रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। योगी ने तीनों सेनाओं को ऑपरेशन सिंदूर में योगदान के लिए बधाई दी और कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ में बनेगी।

पुतिन ने यूक्रेन से सीधी बातचीत का किया आह्वान

एजेंसी

मास्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत का आह्वान किया। पुतिन ने रविवार को कहा कि हम गंभीर बातचीत चाहते हैं। संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने और एक स्थायी, मजबूत शांति की ओर बढ़ने के लिए। यह बयां यूरोपीय नेताओं में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के यूक्रेन का दौरा करने और रूस से बिना शर्त 30-दिवसीय युद्धविराम पर सहमत होने का आग्रह करने के कुछ घंटों बाद आया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने जवाब में कहा था कि मास्को को इस पर विचार करना होगा, लेकिन चेतावनी दी कि हम पर दबाव डालने की कोशिश करना

बिल्कुल बेकार है। पुतिन ने कहा कि वह इस संभावना से इनकार नहीं करेंगे कि वार्ता के परिणामस्वरूप रूस और यूक्रेन एक नए युद्धविराम पर सहमत हो सकते हैं। यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन का दौरा किया और एक महीने के युद्धविराम का आह्वान किया। फ्रांस,

- ▸▸ रूस के राष्ट्रपति बोले, संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने और स्थायी, मजबूत शांति के लिए गंभीर बात करेंगे
- ▸▸ यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन का दौरा किया और एक महीने के युद्धविराम का किया आह्वान

जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड के नेता तथाकथित इच्छुक गठबंधन का हिस्सा थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा मेजबानी की गई और इन देशों के नेताओं ने यात्रा के दौरान एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुतिन बिना शर्त 30-दिवसीय युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते हैं, तो रूस के ऊर्जा और बैंकिंग क्षेत्रों पर नए एवं बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाए जाएँगे।

हमें जो काम सौंपा उसे सटीकता से दिया अंजाम : आइएएफ

नयी दिल्ली। भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की घोषणा के बाद भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान सामने आया है। भारतीय वायु सेना ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है। भारतीय वायु सेना ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने कार्यों को सटीक और पेशेवर ढंग से सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन को राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुसार सोच-समझकर और गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया है। चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। उन्होंने अटकलों और असत्यापित जानकारी से बचने की अपील करते हुए आगे लिखा कि भारतीय वायु सेना सभी से अनुरोध करती है कि वे अटकलों और असत्यापित जानकारी के प्रसार से बचें।

खड़गे-राहुल ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग

एजेंसी

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर से पहले एवं उसके बाद की स्थिति पर विचार के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है।

खड़गे ने प्रधानमंत्री को रविवार को लिखे पत्र में कहा कि वह पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम की घोषणाओं पर चर्चा के लिए संसद का तत्काल विशेष सत्र बुलाने के विपक्ष के सर्वसम्मत अनुरोध को दोहरा रहे हैं। उनका कहना था कि संसद ने इस बात पर भी चर्चा होगी कि पहले वाशिंगटन डीसी और बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकारों संघर्ष

ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलायें प्रधानमंत्री

विराम की घोषणाएं करती हैं। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि इससे पहले 28 अप्रैल को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पहलगाम हमले को लेकर संसद विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। गांधी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान की घोषणा से पहले संघर्ष विराम के मुद्दे पर ट्वीट करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस आग्रह पर विचार करेंगे। गौरतलब है कि गांधी ने सर्वदलीय बैठक में भी संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कही थी।

जवाबी कार्रवाई करे सेना : जनरल द्विवेदी

नयी दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा शनिवार रात को संघर्ष विराम और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के मद्देनजर पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सेना ने रविवार को बताया कि सेना प्रमुख ने दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए शनिवार को बनी सहमति के किसी भी उल्लंघन पर क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। उन्होंने सैन्य कमांडरों कमांडो को पाकिस्तान की किसी भी दुस्साहस मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी कहा है। पाकिस्तान सेना ने शनिवार शाम दोनों देशों की सेनाओं के बीच बनी सहमति के बावजूद जम्मू कश्मीर, गुजरात और अन्य क्षेत्रों में निशाना बनाने की कोशिश की।

आठ कंपनियों का मार्केट कैप 1.60 लाख करोड़ घटा

एजेंसी

नयी दिल्ली। सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से आठ के बाजार मूल्यांकन (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 1,60,314.48 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। शेयर बाजार में गिरावट के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक नुकसान में रही है। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,047.52 अंक या 1.30 प्रतिशत नीचे आया। सप्ताह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), बजाज फाइनेंस और आईटीसी के बाजार मूल्यांकन में गिरावट आई। वहीं दूसरी ओर इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार

पूंजीकरण बढ़ गया। समीक्षाधीन सप्ताह में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 59,799.34 करोड़ रुपये घटकर 18,64,436.42 करोड़ रुपये रह गया। आईसीआईसीआई बैंक की बाजार हैसियत 30,185.36 करोड़ रुपये घटकर 9,90,015.33 करोड़ रुपये रह गई। एचडीएफसी बैंक का मूल्यांकन 27,062.52 करोड़ रुपये घटकर 14,46,294.43 करोड़ रुपये पर

शेयर समीक्षा

- ▸▸ रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 59,799 करोड़ घटकर 18,64,436 करोड़ रुपये हुआ
- ▸▸ आइसीआइसीआइ की बाजार हैसियत 30,185.36 करोड़ घटकर 9,90,015 करोड़ हुयी

और एसबीआई का मूल्यांकन 18,429.34 करोड़ रुपये घटकर 6,95,584.89 करोड़ रुपये पर आ गया। बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 13,798.85 करोड़ रुपये घटकर 5,36,927.95 करोड़ रुपये रह गया। आईटीसी का मूल्यांकन 8,321.89 करोड़ रुपये घटकर 5,29,972.97 करोड़ रुपये पर आ गया। भारती एयरटेल की बाजार हैसियत 2,138.29 करोड़ रुपये घटकर 10,53,891.62 करोड़ रुपये रह गई। टीसीएस के मूल्यांकन में 578.89 करोड़ रुपये की गिरावट आई और यह 12,45,418.09 करोड़ रुपये रह गया। इस रुख के उलट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 2,537.56 करोड़ रुपये बढ़कर 5,48,382.85 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इन्फोसिस ने सप्ताह के दौरान 415.33 करोड़ रुपये जोड़े, जिससे इसका बाजार मूल्यांकन 6,26,083.70 करोड़ रुपये पर पहुंच शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। इसके बाद क्रमशः एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस और आईटीसी का स्थान रहा।

महंगाई आंकड़ों पर रहेगी बाजार की नजर

मुंबई। भारत-पाकिस्तान तनाव से सहमे निवेशकों की बिकवाली के दबाव में बीते सप्ताह करीब डेढ़ प्रतिशत तक लुढ़के घरेलू शेयर बाजार की अगले सप्ताह अप्रैल के जारी होने वाली थोक और खुदरा महंगाई के आंकड़े पर नजर रहेगी। बीते सप्ताह बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1047 .52 अंक अर्थात 1.3 प्रतिशत का गोता लगाकर सप्ताहांत पर आठ कारोबारी सत्र के बाद 80 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 79454 .47 अंक पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 338 .7 अंक यानी 1.4 प्रतिशत की गिरावट लेकर 24008 .00 अंक पर बंद हुआ।